किसी भी तरह के विज्ञापन एवं समाचार के लिए संपर्क करें मो0: 9891706853

दैनिक

समाज जागरण

राष्ट्रीय संस्करण

RNI: UPHIN/2021/84200

नोएडा उत्तर प्रदेश,दिल्ली एनसीआर, हरियाणा,पंजाब बिहार,मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखण्ड असम से प्रसारित

वर्ष: 1 अंक: 323 नोएडा, (गौतमबुद्धनगर) रविवार 10 सितम्बर 2023 http://samajjagran.in पृष्ठ - 12 मूल्य 05 रुपया

चांद की सतह पर घुप्प अंधेरे में पीले तारे की तरह चमक रहा है विक्रम लैंडर,

चंद्रयान-2 के आर्बिटर ने खींची तस्वीर

नई दिल्ली. भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर इस समय स्लीप मोड में हैं. चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 14 दिनों तक खोज करने के बाद वहां सूरज ढलने के बाद दोनों ही उपकरणों को इसरो के वैज्ञानिकों ने बंद कर दिया है. इन्हें वहां सूर्योदय के बाद एक बार फिर से एक्टिव करने की कोशिश होगी, लेकिन इस बीच चांद की सतह पर घुप्प अंधेरे में चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की तस्वीरें सामने आई हैं जो चौंकाने वाली हैं.



दरअसल, 5 सितंबर 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव के उस हिस्से में रात हो गई थी, जहां पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर उतारा गया है. रात के अंधेरे में चंद्रयान-3 के लैंडर पर नजर रखने के लिए उसके ऊपर से चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर को गुजारा गया. ऑर्बिटर में लगे खास कैमरे ने रात के अंधेरे में चंद्रयान-3 के लैंडर की तस्वीर ली हैं, जिसमें वह पीली रोशनी में चमकता दिख रहा है.

विक्रम लैंडर की तस्वीर 6 सितंबर 2023 को ली गई हैं. तस्वीर में चांद की सतह नीले, हरे और गहरे काले रंग की दिख रही है. इसी के बीच विक्रम लैंडर एक पीले गोले में दिख रहा है, पीली रोशनी के साथ दिख रहा है. यहां तीन तस्वीरें हैं. बाएं तरफ पहली वर्टिकल फोटो में बड़े इलाके में पीले चौकोर डिब्बे में वह इलाका दिखाया गया है, जहां लैंडर उतरा था. इन तस्वीरों को इसरो ने जारी किया है.

दाहिने ऊपर जो फोटो है, वह 6 सितंबर की है. फोटो में गोल पीले घेरे में चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर पीले रंग की रोशनी में दिख रहा है. नीचे 2 जून 2023 की फोटो है, जब लैंडर वहां उतरा नहीं था. असल में यह तस्वीर चंद्रयान-3 के ऑर्बिटर में लगे ड्यूल-फ्रिक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार ने ली है.

अंधेरे में तस्वीर लेने वाला खास यंत्र है DFSAR

DFSAR एक खास यंत्र है, जो रात के अंधेरे में हाई रेजोल्यूशन पोलैरीमेट्रिक मोड में तस्वीर लेता है. यानी अंधेरे में धातुओं से निकलने वाली हीट और रोशनी को यह पकड़ लेता है. चाहे वह प्राकृतिक तौर पर मौजूद धातु हो या इंसानों द्वारा धातुओं से निर्मित कोई वस्तु हो उसे कैमरे में पकड़ लिया जाता है.

इससे पहले भी चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने ली थी तस्वीर

चंद्रयान-2 के ऑर्बिटर ने 25 अगस्त 2023 को भी चंद्रयान-3 की तस्वीर ली थी. यह दो तस्वीरों का कॉम्बीनेशन थी, जिसमें बाईं तरफ वाली फोटो में जगह खाली है. दाहिनी फोटो में लैंडर चांद की सतह पर दिख रहा है. इस तस्वीर में लैंडर को जूम करके इनसेट में दिखाया गया था.

भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर का हुआ ऐलान, बढ़ाएगा चीन की टेंशन

नई दिल्ली. भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ ने शनिवार को जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर एक बहु-राष्ट्रीय रेल और बंदरगाह परियोजना की घोषणा की. इस ऐलान को चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने के मकसद से काफी अहम माना जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यूरोपीय संघ के नेताओं के साथ इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डील की घोषणा की.

इस भारत-मीडिल ईस्ट-यूरोप आर्थिक गलियारे के शुभारंभ और वैश्विक बुनियादी ढांचे में निवेश के लिए साझेदारी कार्यक्रम की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'मेरे मित्र राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ मुझे इस आयोजन की अध्यक्षता करते हुए बहुत खुशी हो रही है. आज हम सबने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है. आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच यह आर्थिक एकीकरण का प्रभावी माध्यम बनेगा. यह पूरी दुनिया की कनेक्टिविटी और सतत विकास को नई दिशा देगा.'

शेष पृष्ठ संख्या 3 पर

बनिये अपने गाँव का पत्रकार, उठाइये गाँव की आवाज। हमे लिखिए Vatanki-awaz@gmail.com पर मेल भेजे।

फिर कोलांचल में धांय धांय

दैनिक समाज जागरण

धनबाद : मानो सितम्बर महीना में ही आ गया हो दीपावली । धनबाद में हर दिन कही न कही गोली चल रही है मानो दिवाली हो। दिवाली में जितना पड़ाका नही फूटते उससे ज्यादा धनबाद में आए दिन गोली चल रही है । यह सब अवैध कोयला कारोबार से ही जुड़ा हुआ घटना है खबर आ रही थी सिजुआ 10 नंबर मोड में कई राउंड गोली चलने जिसमें एक साहिल खान नामक युवक को गोली लगी । गंभीर अवस्था में घायल युवक को निचीतपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है दोनों ओर से भीड़ देखा जा रहा है । धनबाद में लोग खोफ से जी रहे है कब कहा किधर से गोली चल जाए किसी को पता नही रहता

। अपराधियों, रंगदारों व मनबढुओं से धनबाद के कारोबारी भी त्रस्त हैं. रंगदारी के लिए फोन का आना और बात नहीं मानने पर अंजाम भुगतने की धमकी से अधिकांश परेशान हैं. हालात यह है कि शहर के कई व्यवसायी शहर से बाहर रह कर मैनेजरों के बल पर अपना कारोबार चला रहे हैं या फिर घर से ही फोन के बल काम संभाल रहे हैं. केवल पिछले ढाई माह की बात करें, तो जिले के नौ कारोबारियों प्रतिष्ठान या घर पर रंगदारी के लिए गोलीबारी हुई है ।

हरियाणा में 200 रोजगार मेलों के माध्यम से युवाओं को दिये जाएंगे रोजगार के अवसर- मनोहर लाल खट्टर

निशा शर्मा ब्यूरो चीफ
दैनिक समाज जागरण हरियाणा

चण्डीगढ़, सितम्बरः हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि रोजगार मेलों के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान करना सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस वर्ष भी 200 रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार देने व चाहने वालों के लिए सांझा मंच उपलब्ध करवाया जाएगा।

मुख्यमंत्री आज विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेलों में रोजगार पाने वाले युवाओं से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने युवाओं उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करते हुए कहा कि जनवरी 2019 से अब तक राज्य में 1450 रोजगार मेले आयोजित कर 31217 युवाओं को रोजगार सहायता प्रदान की गई हैं। इसके अलावा इन मेलों में पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए है। यह नियुक्ति पत्र जीवन में आगे बढ़ने की सीढ़ी और उनकी योग्यता का प्रमाण भी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वावलम्बन एवं स्वाभिमान युवाओं के उत्थान व कल्याण के दो महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ है। सरकार ने युवाओं के स्वाभिमान की रक्षा के लिए नौकरियों को मिशन मेरिट में बदला है और योग्यता के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरियां देकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया हैं। अब तक एक लाख 14 हजार सरकारी नौकरियां दी गई हैं तथा 56 हजार और नौकरियां प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा 2 लाख युवाओं को रोजगार देने के लिए अनेक कार्य किए जाएगें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से अब तक निजी उद्योगों में भी 19 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर मिलें है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 24 लाख 43 हजार युवाओं को स्वरोजगार खड़ा करने के लिए आर्थिक सहायता देने का कार्य किया गया है। इस प्रकार निजी क्षेत्र में भी रोजगार तथा स्वरोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत लाखों युवाओं को लाभ पहुंचाया है और इसे आगे भी` पहुंचाया जाएगा।

मंत्रियों को बेचैन कर रखा है राजा की सवारी ने !

पटना/डा. रूद्र किंकर वर्मा।

समय – समय की बात है. उस जमाने में राजा की सवारी किसी गरीब की कुटिया पर पहुंचती तो गरीब धन्य हो जाता था. उसकी गरीबी दूर हो जाती थी. राजा कहते थे कि कुछ मांग लो, जो मांगोगे, वही मिलेगा. ऐसा होता भी था. इतिहास में और धार्मिक किताबों में भी ऐसी कई कहानियां अंटी पड़ी हैं कि राजा किसी गरीब के घर अनायास पहुंच गये तो अगले दिन उसके पास ढेर सारा धन आ गया. हीरे जवाहरात की बात ही क्या? वह तो राजा यूं ही छिड़क कर चले आते थे. कभी कोई राजा गरीब के घर सरप्राइज विजिट कर देता था तो अगले की किस्मत पलट जाती थी.

जितने मुंह उससे अधिक बातें

कुछ वैसा ही हाल इन दिनों बिहार के राजा का भी है. वह जब तब सरप्राइज विजिट पर निकल जाते हैं. पुरानी कहानियों से कुछ अलग किस्म का मामला यहां चलता है. पहली बार राजा की सवारी एक 'आयातित मंत्री' की कुटिया पर पहुंची तो मंत्री सहित परिवार के दूसरे सदस्यों के चेहरे खिल गये. खिलना भी चाहिए. बात ही ऐसी थी. रातोरात अफसरों के सर्किल में संदेश चला गया-यही हैं. राजा के सबसे अधिक करीबी यही हैं. राजा से कोई काम कराना हो तो इन्हीं को पकड़ो. बाकी लोग फालतू हैं. लेकिन, कुछ

दिन बाद और बार – बार जब राजा की सवारी उन्हीं की कुटिया पर पहुंचने लगी तो जितने मुंह, उससे अधिक बातें भी होने लगी. डांट भी पड़ गयी बीच में

दुश्मनों ने उड़ा दिया कि राजा को पक्की खबर मिली है. खबर यह कि उनके पास जरूरत से ज्यादा धन आ गया है. राजा उसी की टोह लेने जा रहे हैं. मंत्री के घर राजा के जाने का सिलसिला कुछ दिन कमजोर पड़ा. इस बीच राजा ने एक दिन उनके धरम – करम को लेकर उन्हें डांट दिया. यह खबर भी अफसरों के बीच गयी. मान लिया गया कि मंत्री के दिन पूरे हो गये हैं. इतनी डांट के बाद राजा फिर शायद ही उन्हें अपने आसपास फटकने दें. अनुमान गलत हुआ. इधर फिर उस मंत्री महोदय के घर पर राजा की सवारी ताबड़तोड़ ढंग से पहुंचने लगी है. पर , अब दूसरा संकट आ गया है. नया संकट यह है कि अब मंत्रीजी भी राजा की बार – बार की यात्रा से परेशान हो गये हैं. सुबह हो या शाम, मंत्रीजी को हमेशा राजा के आने का डर बना रहता है.

राजा को भी पता नहीं रहता

उनके लिए संतोष का विषय यह है कि राजा ने इन दिनों कुछ और कुटियों की खोज कर ली है. वह किस समय किसकी कुटिया पर जाने की इच्छा प्रकट कर देंगे, इसके बारे में किसी को पता नहीं रहता है. करीबी तो यहां तक कहते हैं कि अपने गंतव्य के बारे में राजा को भी पता नहीं रहता है। एक दिन तो सुबह से देर रात तक उन्होंने पांच कुटियों का दौरा कर लिया. दूसरे मंत्री के यहां तो एक ही दिन में दो बार चले गये थे. बेचारे ये वाले मंत्री भी अपने घर में बेचैनी की हालत में ही बैठते हैं।

पत्थर बरसाने वाले बदमाशों का पुलिस ने बाजार में घुमाकर जुलूस निकाला

भोपाल/ इंदौर। सदर बाजार थाना क्षेत्र में पुराने राजीनामा के चक्कर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे। विवाद के बाद इलाके में दो पक्षों में पथराव हो गया था, स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने दोनों ही पक्ष को थाने लाकर दोनों पर अलग-अलग धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं इलाके के रहवासियों ने बताया था कि दोनों ही पक्ष का कोई पुराना विवाद चल रहा था, जिसमें शुक्रवार को राजीनामा होना था, लेकिन राजीनामे को लेकर ही विवाद हुआ और दोनों पक्ष आपस में भीड़ गए। थाना प्रभारी सतीश पटेल के अनुसार, शुक्रवार दोपहर इलाके में रहने वाले दो पक्ष आपस में भीड़ गए। दोनों ही पक्ष का विवाद

इतना बढ़ गया था कि दोनों ने एक दूसरे पर पथराव कर दिए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के खिलाफ अपराध पंजीकृत किया गया।

राजस्थान का चुनावी रण: सूबे की ये 52 सीटें बनी कांग्रेस के लिए चुनौती, 15 साल से नहीं हो पाई काबिज

दैनिक समाज जागरण हरियाणा

जयपुर. राजस्थान में विधानसभा चुनावों की रणभेरी बजने से पहले राजनैतिक पार्टियों ने 200 सीटों पर अपनी-अपनी गणित बिठाने का काम शुरू कर दिया है. राजस्थान में परिसीमन के बाद हुए तीन विधानसभा चुनावों 2008, 2013 और 2018 के नतीजे बताते हैं कि सूबे के 29 जिलों की 52 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस का खाता ही नहीं खुल पाया. यह दीगर बात है कि इन तीन चुनावों में से 2008 और 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस दो बार सत्ता प्राप्त करने में कामयाब रही.

अब राजस्थान में 19 जिलों की बढ़ोतरी के बाद जिले भले ही 50 हो गए हैं लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव पुरानी विधानसभा सीटों और परिसीमन के अनुसार होगा. राजस्थान में पूर्व में 33 जिले थे. उनमें से 52 सीटों पर आज भी कांग्रेस जीत को तरस रही है. इन सीटों के लिए इस बार भी कांग्रेस अलग रणनीति के तहत चुनाव लड़ने के मूड में है. लेकिन इनमें से कितनी सीटों पर कांग्रेस काबिज हो पाएगी यह चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा.

यूक्रेन में शांति की वकालत, आतंकवाद के सभी रूप की निंदा...

जी-20 समिट के पहले दिन की ये बातें रहीं खास

नई दिल्ली. जी20 शिखर सम्मेलन में रूस-यूक्रेन युद्ध पर प्रमुख मतभेदों को दूर करते हुए शनिवार को सदस्यों देशों ने 'नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लेरेशन' को अपनाया जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कामयाबी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान 'वैश्विक विश्वास की कमी' को समाप्त करने का आह्वान किया. इस मौके पर पीएम मोदी ने यह भी घोषणा की कि अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

जी20 देशों के घोषणापत्र में कहा गया कि आज का युग युद्ध का नहीं है और इसी के मद्देनजर घोषणापत्र में सभी देशों से क्षेत्रीय अखंडता तथा संप्रभुता सहित अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान किया गया और यूक्रेन में शांति का मौहाल कायम करने की वकालत की गई. घोषणापत्र में कहा गया है, 'परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना अस्वीकार्य है.'

प्रमुख विकसित और विकासशील देशों के समूह के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के शुरूआती दिन दूसरे सत्र की शुरूआत में प्रधानमंत्री मोदी ने 37 पन्नों के घोषणापत्र पर आम सहमति और उसके बाद इसे अपनाने की घोषणा की. घोषणापत्र पर आम सहमति और उसके बाद इसे अपनाने की घोषणा भारत द्वारा यूक्रेन संघर्ष का वर्णन करने के लिए जी20 देशों को एक नया पाठ बांटने के कुछ घंटों बाद की गई.

पीएम मोदी ने किया घोषणापत्र पर आम सहमति बनने का ऐलान

पीएम मोदी ने शिखर सम्मेलन में नेताओं से कहा, 'मित्रों, हमें अभी-अभी अच्छी खबर मिली है कि हमारी टीम की कड़ी मेहनत और आपके सहयोग के कारण, नई दिल्ली जी20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर आम सहमति बन गई है. प्रधानमंत्री ने कहा, 'मैं घोषणा करता हूं कि इस घोषणापत्र को स्वीकार कर लिया गया है.'

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट में कहा, 'नई दिल्ली घोषणापत्र (नई दिल्ली लीडर्स समिट डिक्लरेशन) अपनाने के साथ ही इतिहास रचा गया है.

(रणजी) कुमार श्री रणजीत सिंह जी

कुमार श्री रणजीत सिंह जी (जन्मः 10 सितम्बर, 1872, काठियावाड़, गुजरात; मृत्युः 2 अप्रॅल, 1933) को "भारतीय क्रिकेट का जादूगर" कहा जाता है। उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है। रणजीत सिंह प्रथम टेस्ट मैच खिलाड़ी थे। उन्होंने इंग्लैंड से अपने क्रिकेट खेल की शुरूआत की थी। उन्हीं के नाम पर उन्हें सम्मान देने के लिए भारत के प्रथम श्रेणी के क्रिकेट टूनार्मेंट का नाम ह्यरणजी ट्राफीह्ल रखा गया है। इस टूनार्मेंट का शुभारम्भ 1935 में पटियाला के महाराजा भूपिन्दर सिंह ने किया था। रणजीत सिंह भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक थे। वे एक भारतीय राजकुमार थे, जिन्हें प्रथम भारतीय खिलाड़ी होने का श्रेय भी प्राप्त है।

परिचय

कुमार रणजीत सिंह का जन्म 10 सितम्बर, 1872 को गुजरात के काठियावाड़ में सरोदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। अपने छात्र जीवन में वे क्रिकेट के अतिरिक्त फुटबॉल व टेनिस भी खेलते थे। रणजीत सिंह 'रणजी' से ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। रणजी जीवन भर अविवाहित रहे। जब-जब भी विवाह का प्रसंग आता, तब-तब वह मजाक में कहते कि- क्रिकेट ही मेरी जीवन संगिनी है।

शिक्षा

1888 में रणजीत सिंह ट्रिनिटी कॉलेज, कैंब्रिज में दाखिला लेने ब्रिटेन चले गए। वहीं पर पढ़ते हुए फाइनल वर्ष में वह क्रिकेट ह्यब्लूह्ल में शामिल हो गए। वहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर (निक नेम) ह्यस्मिथह्ल कर लिया और उसी नाम से पहचाने जाने लगे थे। बाद में उन्हें कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें कर्नल हिज हाइनेस श्री सर रणजीत सिंह जी विभाजी कहकर सम्बोधित किया जाता था। वह नवानगर के महाराजा जैम साहब के नाम से भी जाने जाते थे। अपनी स्नातक शिक्षा पूरी हो जाने पर रणजीत सिंह ने ससेक्स के लिए काउंटी क्रिकेट खेलना आरम्भ कर दिया।

प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी

रणजीत सिंह ने इससे पूर्व सही व्यवस्थित खेल नहीं खेला था, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनल वर्ष की ग्रीष्म में क्रिकेट खेलते हुए ह्यब्लूह्ल को जीत लिया। उन्होंने खेल की औपचारिक शुरूआत मई, 1895 में लॉड्र्स में की। यहां उन्होंने ससेक्स के लिए खेला और एम. सी. सी. के विरुद्ध 77 व 150 रन बना डाले। फिर 1896 में इंग्लैंड की ओर से उन्होंने पहला टैस्ट मैच खेला। इस प्रकार वह क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम भारतीय बन गए। 1896 में यह टेस्ट मैच रणजीत सिंह ने 16 से 18 जुलाई के बीच मान्चेस्टर में खेला। उन्होंने यह मैच ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध इंग्लैंड की ओर से खेला। उन्होंने अपने इस पहले टैस्ट मैच में 62 तथा 154 रन बनाए और आउट नहीं हुए। इस प्रकार वह डब्लू जी. ग्रेस के बाद दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलते हुए अपने डेबू मैच (प्रथम मैच) में शतक जमाया। रणजीत सिंह देश के अत्यन्त कुशल व तेज बल्लेबाज थे। उन्होंने 1895 से 1905 के बीच टैस्ट मैच खेले। 1897-1898 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने पूरे दौरे में 1157 रन बना लिए, जिनका औसत 60.89 था। उनका व उनके परम मित्र सी.बी. फ्राइ का नाम भी हरदम जुड़ा रहता था।

रणजीत सिंह ने लगातार 10 घरेलू मैचों में (इंग्लैंड में ससेक्स में) 1000 रन बनाए (1899 से 1900 के बीच उन्होंने 3000 से अधिक रन बनाए)। वे 1899 से 1903 तक ससेक्स टीम के कप्तान भी रहे। उस समय रणजीत सिंह का नाम ससेक्स की पहचान था। 1904 में रणजीत सिंह भारत लौट आए, क्योंकि उन पर अनेक घरेलू जिम्मेदारियां थीं। यहां उन्होंने केवल दो वर्ष पूरी तरह क्रिकेट खेली। 1908 में तथा

1912 में और दोनों बार 1000 से अधिक रन बनाए। बाद में किसी की गलत सलाह पर वह ससेक्स वापस गए। यह 1920 की बात है। उन्होंने तीन बार खेलने का प्रयास किया, परन्तु वह 48 वर्ष के हो चुके थे, उनका वजन बढ़ चुका था और वह एक शूटिंग दुर्घटना में अपनी एक आँख गंवा चुके थे। अतः अन्तिम बार खेलते वक्त वह 39 रन ही बना सके।

उल्लेखनीय तथ्य

मार्च, 1907 में क्रिकेट से अलग वह नवानगर के महाराजा जाम साहब बन चुके थे। वह इस रूप में हर तरह से बहुत लोकप्रिय थे और दयालु शासक थे।

ह्यलीग ऑफ नेशन्स तथा चेम्बर ऑफ प्रिंसेज के लिए किया गया उनका कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा जो उन्होंने महायुद्ध के बाद किया। सर नेविल कार्डस ने रणजीत सिंह के बारे में लिखा- "जब रणजीत सिंह जी ने क्रिकेट छोड़ दिया, खेल से सारी चमक और रौनक ही हमेशा के लिए गायब हो गई।" 1897 में रणजीत सिंह ने एक पुस्तक लिखी- ह्यद जुबली ऑफ क्रिकेटह्ल। इस पुस्तक को क्रिकेट की दुनिया में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रचना माना जाता है। बाद में रणजीत सिंह के भतीजे के. एस. दलीप सिंह ने भी इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेला।

विज्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर

रणजीत सिंह ने कुल 15 टेस्ट मैच खेले और सभी मैच इंग्लैंड के लिए खेले। उन्होंने प्रायः ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेला और 44.95 की औसत से 989 रन बनाए, जिनमें 2 शतक तथा 6 अर्धशतक शामिल हैं। उन्हें 1897 में ह्यविज्डन क्रिकेटर ऑफ द ईयरह्ल चुना गया था। रणजीत सिंह क्रिकेट की दुनिया के जीनियस थे, जिन्होंने बल्लेबाजी की कला को नए आयाम दिए। उनसे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी फ्रंट फुट पर ही खेलते थे, परन्तु उन्होंने बैक फुट पर भी शानदार स्ट्रोक खेले और नए तरीके से कट लगाने की विधि से खेला।

कीर्तिमान

रणजी

रणजी ने अपने जीवनकाल में क्रिकेट के प्रथम श्रेणी मैचों में 72 शतक बनाये। अंग्रेज उन्हें रणजी के नाम से ही पुकारते थे। उन्होंने सन्‌ 1899 में 3,159 और 1900 में 3,069 रन बनाए थे। 1896 में मानचेस्टर में इंग्लैण्ड की ओर से आस्ट्रेलिया के विरुद्ध खेलते हुए इन्होंने पहले टेस्ट में ही अपना शतक पूरा करा लिया था। अपनी निराली बल्लेबाजी के कारण उन्होंने क्रिकेट के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। विश्व-विख्यात क्रिकेट समीक्षक नेविल कार्डस ने श्री रणजीतसिंह का खेल देखने के बाद लिखा था-

"ब्रिटेन के मैदानों में पहली बार पूर्व की किरण दिखाई दी। उन दिनों क्रिकेट का खेल बिल्कुल सीधा खेल माना जाता था। यानी वह गुड लेंग्थ का गेंद और सीधी बल्लेबाजी का खेल था। तब क्रिकेट के खेल को केवल अंगेजों का खेल ही माना जाता था। अचानक इंग्लैण्ड के मैदान में पूर्व के एक व्यक्ति ने ऐसा रंग जमाया कि सब ने एक मत होकर यह स्वीकार किया कि ऐसा खिलाड़ी तो आज तक इंग्लैण्ड में भी पैदा नहीं हुआ। इस व्यक्ति का खेल सचमुच ही अद्भुत था। अपनी निराली बल्लेबाजी के कारण वह सीधे बॉल को ऐसे घुमाता था देखने वाले देखते रह जाते थे और कहते- 'लो... वह बॉल आया और लो...वह बाउंड्री भी पार कर गया।' उस अद्भुत बल्लेबाजी का रहस्य कोई नहीं जान सका। गेंदबाज स्तब्ध खड़ा हो जाता और अपनी दोनों बांहों में बॉल को दबाकर यह सोचने लगता कि आखिर यह कैसे हो गया?"

ऐतिहासिक वर्ष

सन 1900 रणजी के जीवन का ऐतिहासिक और महत्त्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इसी वर्ष उन्होंने पाँच अवसरों पर 200 से अधिक (दोहरा शतक) और छह अवसरों पर सौ से अधिक रन बनाए। अपने जीवन में उन्होंने 500 पारियाँ खेलीं। इनमें से 62 बार वह आखिर तक आउट नहीं हुए। उन्होंने 56.27 की औसत से कुल 24,642 रन बनाए। रन बनाने की उनकी औसत रफ़्तार 50 रन प्रति घण्टा थी।

मृत्यु

रणजी की मृत्यु 2 अप्रॅल, 1933 को हुई। भारत में उनकी स्मृति में 'रणजी टॉफी' प्रतियोगिता शुरू की गई। इसे क्रिकेट की राष्ट्रीय प्रतियोगिता माना जाता है।

*प्रेम चिंतन व चिंतन प्रस्तुति *

प्रेमामृत पीकर हम सबको अतिशय
नैतिक बल व उत्साह मिल जाता है।
पीयूष प्यार का पाकर हर प्राणी,
जीवन में उड़ता पंछी बन जाता है।

प्यार नहीं, उत्साह नही, उत्साह नहीं,
तब सम्बल पाना कितना मुश्किल है।
आगे बढ़े तो बढ़े कैसे राहें कंटकमय,
जीवन अनमोल, निछावर क्यों कर दें।

साहिल पर बैठे तल कहाँ मिलता है,
गहिरे जा कर गोता लगाना पड़ता है।
प्यार न होने से कितनी कमी रहती है,
लाख मुसुकाये पर आँखे नम रहती हैं।

मजबूरी के चलते सीखना भी पड़ता है,
नही तो वक़्त के साथ बदलना पड़ता है।
प्रेम की भूख सबको बार बार लगती है,
प्रेमप्यास जितनी मिले उतनी बढ़ती है।

प्रेम से मजबूर मै एक गीत लिखूँगा,
हर एक शब्द को संगीतमय करूँगा।
प्रेम की धार बहेगी मन मेरा मचलेगा,
आदित्य के साथ मनमीत मचलेगा।

कर्नल आदि शंकर मिश्र, आदित्य
लखनऊ

महिलाओं के आर्थिक विकास में विशेष सहयोग की चर्चा

G20 आर्थिक पहलू से हटके मानवीय संदर्भ और दृष्टिकोण के साथ महिला सशक्तिकरण का नया क्षितिज'

दैनिक समाज जागरण

भारत g20 के सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए गौरवशाली मेजबानी कर रहा है 'यह पहला अवसर है जब विश्व के इतने शक्तिशाली राजनेता एक साथ भारत की राजधानी दिल्ली में एकत्र है' इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय शांति ,स्पेस रिसर्च, विज्ञान, शिक्षा,चिकित्सा, सामरिक विषयों के साथ-साथ विश्व बंधुत्व और मानवीय दृष्टिकोण के पहलुओं की बात तो होगी ही इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं मानवीय संवेदनाओं के विकास में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी चर्चा होगी' ˇ20 में निश्चित तौर पर मानवीय दृष्टिकोण और महिला सशक्तिकरण की जोर-जोर से भारत अपनी तरफ से पहल करेगा और ऐसा होना भी चाहिए' पूरे विश्व में भारत के साथ महिलाओं की राष्ट्र के प्रति आर्थिक विकास में बड़ी महती भूमिका रही है। हर रात की सुबह होती है, और सुबह चमकदार और उजाले से भरपूर होती है' भारत में महिलाओं की मुक्ति तथा सशक्तिकरण का प्रश्न स्वतंत्रता एवं भारत की मुक्ति के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ गया है' स्वतंत्र काल से जुड़ी हुई महिला सशक्तिकरण की यात्रा आज तक अनवरत जारी है' आज भी महिलाएं सामाजिक राजनीतिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सभी मोर्चों और सवालों पर पुरुषों के समकक्ष संघर्ष करती नजर आ रही है' आज राष्ट्र निर्माण में नारी अपनी भूमिका से न केवल परिचित है बल्कि उसकी गंभीर जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए भी तत्पर व सक्षम है' वर्तमान में भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है' भारत विकास की दर आज बड़ी से बड़ी वैश्विक शक्ति से टक्कर लेने की जद पर है' विकास की गाथा में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है' अनेक सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के बावजूद आज हर मोर्चे पर महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती दिखाई दे रही है' यह आत्मविश्वास उन्हें सदियों के संघर्ष के बाद हासिल हुआ है, प्राचीन काल में अपाला तथा गोसा जैसी विदुषी महिलाओं ने अपनी कीर्ति पताका फैलाई थी, भारतीय समाज में उन्हें सम्मान और बराबरी का दर्जा दिया गया है ,परंतु मध्यकाल में भारत अपनी संकुचित एवं संकट दृष्टि का शिकार हो गया था महिलाओं को घर की चार-दीवारी में क्या होना पड़ा था' इसी के साथ कैद हो गई थी उनकी योग्यता,ऊर्जा,शक्ति, आकांक्षाएं और व्यक्तित्व विकास की संभावनाएं' भारत एवं भारत के बाहर विदेशों में भारतीय मूल की ऐसे सैकड़ों महिलाएं हैं जिन्होंने भारत देश का नाम रोशन किया है उनके नाम की सूची बड़ी लंबी है उनका उल्लेख न करते हुए समग्र रूप से उनका नमन करते हुए यह बताना चाहूंगा कि महिलाएं निरंतर उच्च पदों पर आसीन हो रही है इन सब के साथ सबसे पुराने बजट तथा घर के अर्थशास्त्र को संभालने की भूमिका का भी कुशलतापूर्वक सदियों से प्रबंधन करती आ रही है' इसके साथ ही वे अपनी शैक्षणिक योग्यता में निरंतर सुधार कर रही है जनसंख्या गणना के आंकड़े भी इसकी पुष्टि करते हैं, महिलाएं जहां शिक्षा, प्रशासन,मेडिकल क्षेत्र, इंजीनियरिंग, स्पेस रिसर्च, विज्ञान टेक्नोलॉजी और उद्यानिकी ,एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर और तमाम क्षेत्रों में असाधारण रूप से शिक्षा प्राप्त कर प्रगति कर रही और उच्च पदस्थ होकर कार्यों का कुशलता से संपादन कर रही हैं' सामाजिक कुरीतियों के विरोध में समाज को आगाह करने और उसका विरोध करने में भी महिलाएं पीछे नहीं है, फिर चाहे वह शनि सिंगनापुर हाजी अली दरगाह या तीन तलाक के मामले में इनकी सजगता ने सामाजिक परिवर्तन लाया है। सरकार भी इनकी इस भूमिका को स्वीकार करते हुए थल जल और वायु सेना में युद्धक की भूमिका मैं इनकी नियुक्ति कर रही है। हम यदि राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा करें तो पंचायती स्तरों पर महिला प्रधानों ने गंभीर परिवर्तन के प्रयास किए, किंतु हमें यहां हमेशा स्मरण रखना चाहिए की देश के आर्थिक विकास में अभी भी महिलाओं को वह भागीदारी व सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसके लिए वह पूर्णरूपेण हकदार है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया की श्रम बल भागीदारी में महिलाओं की भागीदारी 25% से भी कम हो गई है। महिलाओं को अनेक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान पदों पर कार्यरत पुरुषों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है तथा अधिकांश शीर्ष पदों पर पुरुषों का कब्जा है के अलावा दुनिया की सबसे कम तनखा वाली नौकरियों में 60% महिलाएं ही हैं। महिलाओं द्वारा अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए कार्यस्थल पर कार्य करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन परिस्थितियों में महिलाओं द्वारा दिए गए सामाजिक आर्थिक विकास के योगदान को पहचानते हुए सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2016 तथा यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के माध्यम से अनुकूल वातावरण तथा महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने के कई अच्छे प्रावधान भी उपलब्ध कराए हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अपने आंकड़ों से स्पष्ट करता है की किस प्रकार महिलाओं की श्रमबल में अधिक भागीदारी जीडीपी में अप्रत्याशित वृद्धि करता है। पूरा विश्व इस बात से सहमत है की महिलाएं कोमल है पर कमजोर नहीं एवं शक्ति का नाम ही नारी है। हिंदुस्तान के विकास में सही मायने में यदि 50% भागीदारी महिलाओं की हो तो असाधारण क्षमता की धनी महिलाएं इस देश को विश्व के अन्य विकसित देशों में खड़ा कर सकती हैं, जरूरत इनकी शक्ति क्षमता एवं योग्यता को पहचानने की है। 21वीं सदी में विश्व शक्ति रूप भारत के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक विकास में महिलाओं का सर्वांगीण विकास को आधार बनाकर आर्थिक महाशक्ति के स्वप्न को साकार किया जा सकता है।

संजीव ठाकुर ,चिंतक, लेखक रायपुर छत्तीसगढ़

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर मनाया जाता है। आजकल लोगों में अवसाद लगातार बढ़ रहा है, इसी वजह से वे आत्महत्या कर लेते हैं। इस मामले में युवाओं की संख्या सर्वाधिक है, जिनके कंधों पर किसी भी देश का भविष्य टिका होता है। पिछले कुछ सालों में भारत ही नहीं दुनिया भर में खुदकुशी की घटनाएं तेजीसे बढ़ी हैं। कोरोना के संकट काल में आत्महत्या का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। लोगों में हताशा और निराशा बढ़ रही है। 'इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन' (IASP) हर साल 'विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस' का आयोजन करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। एक साल में करीब 8 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि सुसाइड की कोशिश करने वालों का आंकड़ा इससे भी ज्यादा है।

परिचय

जब कोई बहुत ज्यादा बुरी मानसिक स्थिति से गुजरता है तो एकदम अवसाद में चला जाता है, इसी अवसाद की वजह से लोग ज्यादातर युवा आत्महत्या कर लेते हैं। इससे उनके परिवार पर बहुत नकारात्मक असर पड़ता है। हर साल 10 सितंबर को 'वर्ल्ज सुसाइड प्रिवेंशन डे' (विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस) मनाया जाता है। इसे लोगों में मानसिक स्वास्थ के प्रति जागरुकता फैलाने और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मनाया जाता है। आत्महत्या के बढ़ते मामलो को रोकने के लिए इसे 2003 में शुरू किया गया था। इसकी शुरूआत आईएएसपी (इंटरनेशनल असोसिएशन ऑफ सुसाइड प्रिवेंशन) द्वारा की गई थी।

जीवन इस संसार में सबसे अनमोल माना गया है। हिन्दू पुराणों व शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि "जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। सभी इंसानों के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित है। लेकिन जब कोई इस निश्चित वक्त के विरुद्ध जाकर शरीर छोड़ने की सोचता है तो वह आत्महत्या कही जाती है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं।

थीम

आजकल हर उम्र के लोग आत्महत्या जैसे अपसाद की चपेट में आ रहे हैं। कई सारी चीजों से लोगों का मोह भंग हो रहा है। साल 2020 में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम वॉकिंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड यानी आत्महत्या की रोकथाम के लिए साथ काम करना है, रखी गई है।

लोगों की परेशानी

आंकड़ों के मुताबिक लोग पारिवारिक समस्याओं के चलते अपनी जिंदगी का सफर खत्म कर लेते हैं। कई सारे लोग अपनी नौकरी या फिर शादीशुदा समस्याओं की वजह से परेशान होकर ऐसा कदम उठाते हैं। वहीं परीक्षा और बेरोजगारी जैसी चीजें भी इस सूची में हैं। अकेलेपन का शिकार होने की वजह से व्यक्ति आत्महत्या जैसा बड़ा कदम उठा सकता है।

आँकड़े

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार हर 40 सेकेंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है। हर साल लगभग 8 लाख से ज्यादा लोग आत्महत्या कर लेते हैं। जबकि इससे भी अधिक संख्या में लोग आत्महत्या की कोशिश करते हैं। यह स्थिति बहुत डराने वाली है। इससे पता चलता है कि आज के समय में लोगों में कितना ज्यादा मानसिक तनाव है। इस डेटा के मुताबिक दुनिया भर में 79 फीसदी आत्महत्या निम्न और मध्य वर्ग वाले देशों के लोग करते हैं।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

जब कोई मानसिक तौर से परेशान रहता है तो ऐसे में उसके व्यवहार में कुछ समय से आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। ऐसे लोग अक्सर चीजों से और लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। साथ ही ऐसे लोग सोशल मीडिया से दूरी बना लेते हैं।



न्यूरो साइकोलॉजिस्ट डॉ. सोना कौशल गुप्ता कहती हैं कि जन्म हुआ तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन निर्धारित समय के खिलाफ जाने का प्रयास न करें, जीवन को आप दोबारा नहीं पा सकते। समझो कि आपकी सबसे प्यारी चीज आप खुद हैं। आपके स्वजन, मित्र, धन, प्रतिष्ठा या नौकरी जीवन में अहम है, लेकिन उतना नहीं जितना आपका खुद का

जीवन। जीवन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप दोबारा नहीं पा सकते। लिहाजा, हमेशा अपने आपको सबसे महत्वपूर्ण समझो। बदलाव प्रकृति और समाज का नियम है। आज दिन अगर बुरे हैं तो कल अच्छे भी होंगे। यह अलग बात है कि इसके लिए कोशिश करनी होगी और सकारात्मक रहना होगा। नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दें।

मनोवैज्ञानिक डॉ. मुकुल शर्मा बताते हैं कि किसी भी समस्या में विचलित नहीं होना चाहिए। समस्या को स्वीकार करें और फिर उस समस्या को हल करने का तरीका ढूंढें। खुद पर भरोसा रखकर ही हम समस्याओं से संघर्ष कर सकते हैं। अवसाद में किसी भी व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में परिवार व दोस्त किसी भी इंसान को बहुत मानसिक संबल दे सकते हैं। इस समय खुद को मोबाइल के साथ ही व्यस्त न रखें बल्कि अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। अगर आप अकेले बैठते हैं तो कई तरह के विचार मन में आते हैं। ऐसे वक्त में ध्यान बेहद जरूरी है।

कमजोर पड़ती संयम की डोर

बढ़ते तनाव के कारण हर वर्ग में संयम की डोर कमजोर पड़ती नजर आ रही है। छोटी-सी बात पर ही लोग मौत को गले लगा रहे हैं। इनमें किशोर, नौजवान से लेकर महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। लॉकडाउन के बाद देहरादून में आत्महत्या के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई। मार्च, 2020 में जहां आत्महत्या के सिर्फ छह मामले सामने आए थे, वह लॉकडाउन के दौरान अप्रैल, 2020 में ढाई गुना बढ़कर 14 हो गए। मई में इसका आंकड़ा 25 जबकि जून में 34 जा पहुंचा। भले ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी हो, लेकिन तनाव अब भी हावी है। अगस्त, 2020 में आत्महत्या के 25 मामले सामने आए। वर्ष 2020 में देहरादून में जनवरी, 2020 से अगस्त, 2020 तक कुल 176 व्यक्तियों ने मौत को गले लगाया। इसमें सर्वाधिक 126 मामले फांसी लगाकर जान देने के रहे। इसके अलावा 29 ने जहर खाकर, 12 ने पारिवारिक कलह और 09 ने अन्य कारणों पर आत्महत्या की। पुलिस जांच में नब्बे फीसद मामलों में तनाव वजह पाई गई।

कोरोना का असर

बात मौजूदा दौर की करें तो लोग एक साथ कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। पूरी दुनिया में फैले कोरोना संक्रमण के चलते आमजन के सामने कई दिक्कतें पैदा हो गई हैं। कोरोना ने इंसान को जितना शारीरिक रूप से बीमार किया है, उससे कहीं ज्यादा मानसिक तनाव दिया है। किसी को नौकरी और कॅरियर की चिंता सता रही है तो कोई वित्तीय संकट से जूझ रहा है। छात्र अपनी शिक्षा एवं भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। तनाव के दौर में निजी रिश्तों में भी खटास बढ़ी है। आमजन में नकारात्मक विचारों का प्रवाह बढ़ा है व यह चिंताएं कई मर्तबा अवसाद का रूप ले रही हैं। कुछ लोग तो आत्महत्या की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसलिए यदि कभी तनाव या किसी मानसिक बीमारी का अहसास हो तो बिना वक्त गंवाए तुरंत मनोचिकित्सक से मिलें व अपनी परेशानी के बारे में खुलकर बात करें।

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक रमन कुमार झा द्वारा सांई प्रिटिंग प्रेस बी-42 सेक्टर 07 नोएडा से मुद्रित कराकर नियर दुर्गा पब्लिक स्कूल श्याम लाल कॉलोनी बरौला सेक्टर 49 नोएडा 201304, गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।
संपर्क 9891706853, संपादक- रमन कुमार झा, समस्त विवादों का निपटारा गौतमबुद्धनगर न्यायालय मे होगा। Website: https://samajjagran.in/ Email: vatankiawaz@gmail.com UPHIN/2021/84200

भारत-मिडिल भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप कॉरिडोर का हुआ ऐलान, बढ़ाएगा चीन की टेंशन

पृष्ठ संख्या 1 का शेष भाग

'यह समझौता सचमुच में बहुत बड़ी बात'

वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा, ह्यायह बड़ा समझौता है. यह सचमुच बहुत बड़ी बात है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर यही G-20 शिखर सम्मेलन का फोकस है. और कई मायनों में यह इस साझेदारी का फोकस भी है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं.'

जो बाइडन ने इसके साथ ही कहा, 'टिकाऊ, स्थिति-स्थापक बुनियादी ढांचे का निर्माण, गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे में निवेश और बेहतर भविष्य का निर्माण. आज मैं उन प्रमुख तरीकों पर प्रकाश डालना चाहता हूं जिनसे संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे साझेदार इसे वास्तविकता बनाने के लिए काम कर रहे हैं...

उधर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, ह्यहम इस बैठक में आर्थिक परियोजना को लेकर की गई घोषणा और पहल के एकीकरण की आशा करते हैं. मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आर्थिक कॉरिडॉर की स्थापना के लिए इस संस्थापक कदम तक पहुंचने के लिए हमारे साथ काम किया.'

आधुनिक समय का मसाला मार्ग

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मकसद भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच व्यापार को बढ़ावा देना और वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग एक तिहाई हिस्सा रखने वाले क्षेत्रों को जोड़ने के लिए एक आधुनिक स्पाइस रूट स्थापित करना है.

समाचार एजेंसी एएफपी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि इस योजना में डेटा, रेल, बिजली और हाइड्रोजन पाइपलाइन परियोजनाएं शामिल होंगी. इसमें से एक प्रस्तावित परियोजना संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल सहित पूरे मध्य पूर्व में रेलवे और बंदरगाह सुविधाओं को जोड़ेगी- जिससे भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 40 प्रतिशत तक की तेजी आएगी.

एएफपी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को क्षेत्र के बंदरगाहों से शिपिंग लेन के जरिये जोड़ा जाएगा. इसके अलावा, खाड़ी के अरब देशों और भूमध्य सागर के बीच भूमि-व्यापार मार्गों में तेजी लाने के अमेरिका समर्थित प्रस्ताव पर भी इजराइल और खाड़ी देशों के बीच चर्चा हुई है.

एक गेम-चेंजर प्रोजेक्ट

यह योजना वैश्विक व्यापार के लिए एक संभावित गेम चेंजर होने की उम्मीद है, जो चीन के व्यापक रणनीतिक बुनियादी ढांचे के निवेश का विकल्प पेश करेगी. राष्ट्रपति जो बाइडन के राष्ट्रीय सुरक्षा उप सलाहकार जॉन फाइनर ने इसे लेकर पहले ही बताया था कि प्रस्तावित समझौता ज्ञापन में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूरोपीय संघ और कुछ अन्य देश शामिल हैं.

फाइनर ने कहा कि सबसे पहला यह कॉरोडोर ऊर्जा और डिजिटल संचार के प्रवाह को बढ़ाकर संबंधित देशों के बीच

समृद्धि बढ़ाएगा. दूसरा, यह परियोजना निम्न और मध्यम आय वाले देशों में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने में मदद करेगी. और तीसरा कि यह मध्य पूर्व में अशांति और असुरक्षा की भावना को कम करने में मदद कर सकता है.

चीन की बढ़ेगी चिंता

अमेरिका की तरफ से इस परियोजना को लेकर कोशिश ऐसे समय आई है, जब उसके पुराने सहयोगी देश सऊदी अरब और यूएई की चीन के साथ नजदीकी बढ़ती दिखी है. चीन ने हाल ही में मध्य पूर्व के साथ संबंधों को भी बढ़ावा दिया है, जिससे इस साल की शुरूआत में सऊदी अरब और ईरान के बीच तनाव दूर करने में मदद मिली है.

पिछले महीने तेल समृद्ध खाड़ी देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के अपने इरादे की घोषणा की थी, जहां चीन ने इस कदम में अग्रणी भूमिका निभाई.

ऐसे में इस भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारे को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने के लिए वाशिंगटन के एक महत्वाकांक्षी प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें दुनिया के और अधिक हिस्सों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की मांग की गई है.

इसकी घोषणा चीन के शी जिनपिंग द्वारा बीजिंग में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के लिए वैश्विक नेताओं की मेजबानी से ठीक एक महीने पहले की जा रही है. इस कार्यक्रम में रूस के व्लादिमीर पुतिन के भी शामिल होने की उम्मीद है.

हाल के वर्षों में अमेरिका ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा योजना का मुकाबला करने की कोशिश की है, जिसने उभरते बाजारों में सैकड़ों अरब डॉलर की परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है. हाल ही में, चीन के बीआरआई को बढ़ते ऋण चूक और निवेश में मंदी के कारण कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

राष्ट्रीय लोक अदालत में 476896 वादों का हुआ निस्तारण- जिला जज

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्राप्त निदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मुख्यालय व तहसील स्तर पर माननीय जनपद न्यायाधीश गौतमबुद्धनगर श्री अवनीश सक्सैना की अध्यक्षता एंव दिशा-निर्देशन में दिनांक 09.09.2023 को जनपद गौतमबुद्धनगर में किया गया। जिसमें जनपद न्यायालय में कार्यरत न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 258502 वाद तथा राजस्व न्यायालय द्वारा कुल 81871 वाद तथा प्री-लिटिगेशन स्तर पर बैकं द्वारा 230 मामलें, एन0पी0सी0एल0 द्वारा 15 मामलें व बी0एस0एन0एल0 द्वारा 47, तथा परिवहन विभाग द्वारा 21272. तथा यातायात विभाग द्वारा 100602 मामलों का निस्तारण हुआ। ऋचा उपाध्याय, अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 476896 वाद निस्तारित हुये।

राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयवार निस्तारित वादों का विवरण निम्न हैः- श्री अवनीश सक्सैना, जिला जज 34 आपराधिक अपील वादों का निस्तारण किया गया। श्री इंदर प्रीत सिंह जोश, पीठासीन अधिकारी वाणिज्य न्यायालय द्वारा 21 वाद व समझौता धनराशि 14356286 है। श्री उदय प्रताप सिंह, पीठासीन अधिकारी, अतिरिक्त वाणिज्य न्यायालय द्वारा 25 वाद व समझौता धनराशि 27410581 है। श्री नरेन्द्र कुमार पाण्डे, पीठासीन अधिकारी मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा 43 वाद व समझौता धनराशि 34610723 है। श्री प्रकाश नाथ श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 23 है। श्री प्रदीप कुमार अपर जिला जज प्रथम द्वारा 09 वाद हैं। श्रीमती प्रतिक्षा नागर, अपर जिला जज द्वितीय/विशेष न्यायाधीश/एस0सी0/एस0टी एक्ट द्वारा 20 वाद है। श्री विजय कुमार हिमांशु, अपर जिला जज-तृतीय द्वारा 03 है। श्रीमती मोना पवॉर अपर जिला जज-पंचम द्वारा 803 वाद व 5084098 रुपए जुमार्ना है। श्री राजेश कुमार मिश्रा, अपर जिला जज-षष्टम द्वारा 01 है। श्री विकास नागर, अपर जिला जज/पोक्सो कोर्ट प्रथम द्वारा 02वाद व जुमार्ना 1000 है। श्रीमती प्रियंका सिंह, अपर जिला जज/एफ0टी0सी-द्वितीय द्वारा 01 है। श्रीमती बुशरा आदिल रिजवी, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय द्वारा 04 वाद। श्री सुशील कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 103267 वाद एंव जुमार्ना धनराशि 1029000 है। श्री जयहिंद कुमार सिंह, सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग) द्वारा 32 वाद व जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्रों की धनराशि 32656260 है। श्रीमती शिवानी त्यागी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रैट-प्रथम द्वारा 24431 वाद व जुमार्ना धनराशि 352720 है। श्री प्रदीप कुमार सिविल जज (वरिष्ठ संवर्ग)/एफ0टी0सी द्वारा 32509 वाद व जुमार्ना धनराशि 801980 है। श्रीमती अर्पिता सिंह सिविल जज जू0डि द्वारा 09 वाद व समझौता धनराशि 2601 है। श्री नाजिम अकबर, सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग) जेवर द्वारा 225 वाद व जुमार्ना धनराशि 6410 है। सुश्री ऋचा शुक्ला (कनिष्ठ संवर्ग) प्रथम व वर्चुअल कोर्ट द्वारा 20451 वाद व जुमार्ना धनराशि 1441800 है। श्रीमती आर्किंत सिविल जज (कनिष्ठ संवर्ग)/एफ0टी0सी द्वितीय द्वारा 27298 वाद व जुमार्ना धनराशि 210130 है। श्रीमती नुपुर श्रीवास्तव अपर सिविल जज जू0डि द्वारा 27812 व जुमार्ना धनराशि 1125670 है। श्री राजेन्द्र कुमार-तृतीय, विशेष न्यायाधीश, धारा 138 एन0आई0 एक्ट द्वारा 16 वाद व समझौता धनराशि 22514714 है। श्री नलिन कॉत त्यागी अतिरिक्त न्यायालय संख्या-2 द्वारा 97 वाद व 134935 समझौता धनराशि है। श्री विजय कुमार अग्रवाल अतिरिक्त न्यायालय संख्या 253 द्वारा वाद व समझौता धनराशि 49600000 है। इस प्रकार जनपद स्थित न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण द्वारा कुल 258502 वादों का निस्तारण किया गया । राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 3380 मामलें, यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा 78मामलें कुल प्री-लिटीगेशन के 3458 मामलें निस्तारित हुये।

राष्ट्रीय लोक अदालत के अन्तर्गत जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व तहसीलदार आदि समस्त विभागों से प्राप्त विवरण के अनुसार राजस्व के 81871 वाद निस्तारित हुयें। उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 476896 मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें समझौता धनराशि 257611337 है।

इसके अतिरिक्त दिनांक 01.09.2023 से दिनांक 08.09.2023 तक जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में निरुद्ध बंदियों के लिये आयोजित जेल अदालत में विभिन्न न्यायिक मजिस्ट्रेटगण द्वारा 300 वादों का निस्तारण किया गया।

एसएसपी ने यातायात व्यवस्था को देखा

दैनिक समाज जागरण

शिकोहाबाद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा शनिवार को जिले के मुख्य चौराहा जैन मंदिर पर पहुंच कर यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधीनस्थों को निर्देश दिये कि वे रोडवेज बसों को उचित स्थान पर खड़ा करायें। जिससे चौराहे पर जाम की स्थित न हो। इस दौरान एसएसपी ने यातायात प्रभारी को भी निर्देश दिये। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा जनपद के मुख्य जैन मंदिर चौराहे पर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। यातायात व्यवस्था को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से यातायात नियमों का पालन न करने वाले एवं गलत जगह बस खडी कर जाम लगाने वाली रोडवेज बसों का यातायात प्रभारी से चालान करवाया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने सामने रोडवेज बसों और प्राइवेट बसों के चालान कटवाने से वाहन चालकों में खलबली मच गई। उन्होंने रोडवेज कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कोई भी बस चौराहे पर खड़ी नहीं होगी। सवारियां उतारने और चढ़ाने के लिए चौराहे से आगे-पीछे ही बस को खड़ा करें। जिससे चौराहे पर किसी प्रकार की यातायात व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने यातायात प्रभारी को भी निर्देश दिये कि चौराहे पर किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

गोसेवकों को मुख्यमंत्री का उपहार, अब मिलेंगे 50रुपये प्रति गोवंश

लंपी वायरस से बचाव के लिए एक्शन मोड में मुख्यमंत्री, टीकाकरण के लिए और तेज होगा अभियान

■ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शनिवार को पशुओं में लंपी वायरस से बचाव के प्रबंधन की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

■ हाल के दिनों में गोवंश पर लंपी वायरस का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। इस संक्रमण के कारण कई राज्यों में व्यापक पशुधन हानि हुई है। प्रदेश में इसके प्रसार को रोकने के लिए हमें मिशन मोड में काम करना होगा। स्थिति सामान्य होने तक प्रदेश में पशुमेलों का आयोजन स्थगित रखा जाए। अंतरराज्यीय पशु परिवहन पर रोक लगाई जाए। पशुपालकों को संक्रमण के लक्षण और उपचार के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। गोआश्रय स्थलों में अनावश्यक लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाए।

■ लंपी वायरस से सुरक्षा के लिए पशु टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जाना जरूरी है। टीके की उपलब्धता के लिए। यह मच्छर इत्यादि से फैलने वाला वायरस है, ऐसे में ग्राम्य विकास, नगर विकास और पशुपालन विभाग परस्पर समन्वय से गांव व शहरों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाए। किसी भी दशा में संक्रमण का प्रसार न हो।

■ लंपी वायरस से संक्रमित गोवंश, स्वस्थ हुए गोवंश और गैर संक्रमित गोवंश के लिए पृथक-पृथक बाड़े की व्यवस्था की जाए। निराश्रित गोवंश स्थलों/कान्हा उपवनों के साथ-साथ आम पशुपालकों को भी इस बारे में जागरूक किया जाए।

● निराश्रित गोवंश संरक्षण की दिशा में सतत प्रयासों के संतोषप्रद परिणाम मिल रहे हैं। वर्तमान में 6889 निराश्रित गोवंश स्थलों में 11.89 लाख गोवंश संरक्षित हैं। इनके साथ-साथ गोवंश संरक्षण के लिए संचालित मुख्यमंत्री सहभगिता योजना के भी आशातीत परिणाम मिले हैं। अब तक 01 लाख 85 हजार से अधिक गोवंश इस योजना के तहत गो-सेवकों को सुपुर्द किए गए हैं। निराश्रित गोवंश स्थलों तथा गोवंश की सेवा कर रहे सभी परिवारों को गोवंश के भरण-पोषण के लिए वर्तमान में 30रुपये प्रति गोवंश की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब इसे बढाकर 50रुपये प्रति गोवंश किया जाए। इस संबंध में कोई भी बकाया अवशेष न रहे।

● राज्य सरकार पशु संवर्धन, संरक्षण के लिए सेवाभाव के साथ सतत प्रयासरत है। गोवंश सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र लोगों को इसका लाभ मिलना सुनिश्चित कराया जाए।

जिले में अब तक 930.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज

बीते 24 घंटे में हुई 31.5 मिलीमीटर औसत वर्षा

रायसेन, 09 सितम्बर 2023 जिले में 01 जून 2023 से 09 सितम्बर 2023 तक 930.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है जो कि गत वर्ष इसी अवधि में हुई औसत वर्षा से 492 मिलीमीटर कम है। जिले की वर्षा ऋतु में सामान्य औसत वर्षा 1197.1 मिलीमीटर है। अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 01 जून 2023 से 09 सितम्बर 2023 तक जिले के वर्षामापी केन्द्र रायसेन में 732.6 मिलीमीटर, गैरतगंज में 1095, बेगमगंज में 990.8, सिलवानी में 815.6, गौहरगंज में 639, बरेली में 1246.4, उदयपुरा में 1163.8, बाड़ी में 786, सुल्तानपुर में 794.4 तथा वर्षामापी केन्द्र देवरी में 1042 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

बीते 24 घंटे में 31.5 मिलीमीटर औसत वर्षा

जिले में बीते 24 घंटे में 09 सितम्बर 2023 को प्रातः 08 बजे तक 31.5 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान वर्षामापी केन्द्र रायसेन में 70 मिलीमीटर, गैरतगंज में 84.4, बेगमगंज में 2.8, सिलवानी में 55, गौहरगंज में 15.9, बरेली में 2.8, उदयपुरा में 45.3, बाड़ी में 5.5, सुल्तानपुर में 30.4 तथा वर्षामापी केन्द्र देवरी में 3.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष में आयोजित हो रही प्रतियोगिता

प्रतिभाग करने के लिए हैंडबॉल एवं बास्केट बॉल खेल के लिए महिला टीम का किया गया चयन।

महिला टीम की चयन के लिए गोयनका इंटरनेशनल स्कूल एवं सावित्रीबाई फुले स्कूल ग्रेटर नोएडा में हुआ ट्रायल।

समाज जागरण

खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के निदेशों के क्रम में एवं डीएम मनीष कुमार वर्मा के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी के उपलक्ष में राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग कराने के उद्देश्य से जिला खेल कार्यालय गौतम बुद्ध नगर के द्वारा आज हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल खेल के लिए महिला टीम का चयन किया

गया। उप क्रीडा अधिकारी अनीता नगर ने जानकारी देते हुए बताया कि हैंडबॉल एवं बास्केटबॉल प्रतियोगिता में महिला टीम का चयन करने को लेकर 8 सितंबर को जीडी गोयंका इंटरनेशनल स्कूल तथा 9 सितंबर को सावित्रीबाई फुले स्कूल ग्रेटर नोएडा में प्रतियोगिता करते हुए महिला टीम का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि आज जो महिला टीम का चयन किया गया है, वह आगामी 11 से 12 सितंबर को कैलाश प्रकाश स्टेडियम मेरठ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगी और वहां से राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए टीम का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महिला टीम में कनिका राठी, गुड्डन, विधि, योगिता, पलक, साधना, मैग्नेश व शालिनी का चयन हुआ है। राकेश चौहान जिला सूचना

हर अस्पताल के लिए नियुक्त करें नोडल अधिकारी, हर शाम होगा निरीक्षण: मुख्यमंत्री

इस वर्ष 01 जनवरी से 07 सितंबर तक जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया व मलेरिया से एक भी मृत्यु नहीं

निजी अस्पतालों को अनिवार्य रूप से देनी होगी संचारी रोगों से प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी

मुख्यमंत्री ने की संचारी रोगों की स्थिति की समीक्षा, नियंत्रण के लिए दिए दिशा-निर्देश

हॉटस्पॉट की स्थिति हो तो स्वयं पहुंचे नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री का निर्देश, हर दिन सुबह सैनीटाइजेशन व शाम को हो फॉगिंग

● मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय अंतर्विभागीय बैठक में प्रदेश में संचारी रोगों की स्थिति की समीक्षा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए...

● प्रतिवर्ष अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अंतर्विभागीय समन्वय के साथ विशेष अभियान संचालित होता है। आगामी अक्टूबर माह से इसका नवीन चरण प्रारंभ होना है। इसमें सरकारी प्रयास के साथ-साथ जनसहभागिता भी महत्वपूर्ण है। हमारे सामने अपना इंसेफेलाइटिस नियंत्रण और कोविड प्रबंधन के दो सफल मॉडल हैं, जो संचारी रोग अभियान में हमारे लिए उपयोगी होंगे। आज हर जिले में डेंगू जांच की सुविधा है। 15 नवम्बर तक का समय संचारी रोगों की दृष्टि से हमारे लिए संवेदनशील है।

● हाल के दिनों में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, मेरठ, मुरादाबाद जनपद डेंगू से प्रभावित रहे हैं। बुलंदशहर व संबल में डेंगू आउटब्रेक की स्थिति भी देखी गई। जबकि बरेली, सीतापुर, शाहजहांपुर, हारदोई बदायूं, पीलीभीत और संभल में मलेरिया का असर रहा है। इसी तरह, प्रयागराज, कानपुर नगर, बाराबंकी, कुशीनगर, संत कबीरनगर, सहारनपुर व बस्ती में चिकनगुनिया की दृष्टि से संवेदनशील हैं। इन जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

● पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में इंसेफेलाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। 50 हजार बच्चों की मौत हुई। 2017 में हमने अंतर्विभागीय समिति बनाई, सभी विभागों ने मिलकर काम किया। अस्पताल बनवाये, पीकू बनवाये, चिकित्सक तैनात किये। साथ-साथ पीने के साफ पानी और शौचालय की व्यवस्था भी कराई। नतीजा इस वर्ष 01 जनवरी से 07 सितंबर तक जापानी इंसेफेलाइटिस, चिकनगुनिया व मलेरिया से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। 04 दशक तक कहर बनी रही बीमारी पर हमने 05 वर्ष में नियंत्रण पा लिया। नियंत्रण के बाद अब हमारा अगला लक्ष्य उन्मूलन है।

● कहीं भी हॉटस्पॉट की स्थिति न बनने पाए। यदि कहीं भी ऐसी स्थिति हो तो वहां संबंधित नगर आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी स्वयं पहुंच कर निरीक्षण करें। अस्पतालों में दवा की उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए।

● सभी सरकारी व निजी अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों में नए रोगियों की नियमित रिपोर्टिंग जरूर हो। प्रदेश के सभी पीएचसी/सीएचसी/जिला अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों के लिए जिलाधिकारी द्वारा एक-एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। यह नोडल अधिकारी हर दिन सायंकाल अपने प्रभार के अस्पतालों की जांच कर व्यवस्था सुचारू बनाए रखें।

● पीएचसी/सीएचसी व अन्य अस्पतालों में तैनात पैरामेडिक्स नियमित रूप से अपनी सेवाएं जरूर दें। चिकित्सा व स्वास्थ्य व्यवस्था में अराजकता व अव्यवस्था फैलाने की कुत्सित करने वालों से पूरी कठोरता से निपटा जाए।

● जनपदों में आउटब्रेक्स की स्थिति पर नियंत्रण हेतु ठोस प्रयास किये जाने आवश्यक है। नगर विकास, ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग मच्छरों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु फॉगिंग एवं लावीर्साइडल स्प्रे कराई जाए। सुबह सैनीटाइजेशन व शाम को फॉगिंग का कार्य निरंतरता के साथ कराएं। जल भराव का निस्तारण कराएं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई हाई रिस्क क्षेत्रों की सूची में उल्लिखित समस्त क्षेत्रों में सतत वैक्टर नियंत्रण एवं संवेदीकरण गतिविधियाँ से संचालित की जाएं।

● शिक्षा विभाग द्वारा जनपद के समस्त विद्यालयों में नोडल अध्यापकों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं अभिभावकों का संचारी रोगों के विषय में संवेदीकरण कराया जाए। संचारी रोगों से बचाव के उपाय यथा पूरी आस्तीन की कमीज, फुल लेंथ की पेंट इत्यादि का प्रयोग एवं मच्छरों के प्रजनन एवं काटने से बचाव के उपायों के विषय में संवेदीकरण किया जाना चाहिए। किसी क्षेत्र से बुखार प्रभावित छात्रों की सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय फ्रंट लाइन वर्कर अथवा चिकित्सा अधिकारी को तत्काल जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

पशुपालन विभाग द्वारा सभी पशु बाड़ों की नियमित सफाई कराई जाए। पशुओं के पीने हेतु प्रयोग किए जाने वाले पात्रो के पानी में मच्छरों के प्रजनन की संभावना को समाप्त करने हेतु नियमित रूप से इस पानी को बदलना की कार्यवाही आवश्यक है।

● संचारी रोग अभियान की सफलता के लिए अंतर्विभागीय समन्वय महत्वपूर्ण आधार है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, ग्राम्य विकास, नगर विकास, महिला बाल विकास, कृषि, बेसिक माध्यमिक शिक्षा द्वारा अंतर्विभागीय समन्वय के साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य सुरक्षा का ठोस प्रयास किया जाए।

● रोगियों के आवागमन के लिए एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता रहे। एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम न्यूनतम रखा जाए।

● कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को त्वरित आउटब्रेक रिस्पॉन्स के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। त्वरित आउटब्रेक रिस्पॉन्स के लिए डिजीज सर्विलांस डेटा तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाए।

● बरसात के दृष्टिगत नालों की सफाई करा ली जाए। सिल्ट जमा न हो, ताकि बारिश में जलभराव न हो। मलिन बस्तियों में साफ-सफाई की अत्यधिक आवश्यकता है। यहां नियमित फॉगिंग भी कराई जाए। सॉलिड वेस्ट प्रबंधन के लिए ठोस प्रयास करें।

● शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो। लोगों के सामने क्लोरीनेशन डेमो दिया जाए। पानी उबाल कर छान कर पीने की जानकारी दें। क्लोरीन की गोलियां वितरित की जाएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत का हुआ सफल आयोजन।

मोटर दुर्घटना वार्ड में 62 लख रुपए का हुआ कुल समझौता-जिला जज।

स्वास्थ्य जाँच शिविर के माध्यम से लोगो को मिला स्वास्थ्य का लाभ।

रिकॉर्ड वाद का हुआ निष्पादन दैनिक समाज जागरण सत्य प्रकाश नारायण सहायक विधि संवाददाता /धनंजय कुमार विधि संवाददाता बिहार झारखंड प्रदेश

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यवहार न्यायालय, औरंगाबाद में तथा अनुमण्डलीय व्यवहार न्यायालय, दाउदनगर में किया गया। इस राष्ट्रीय लोक का मुख्य उद्घाटन समारोह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, औरंगाबाद के सभागार में जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय श्री पुनीत कुमार गर्ग, प्रभारी जिला पदाधिकारी श्री मनोज कुमार, पुलिस अधीक्षक श्री हृदय कान्त, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के सचिव, प्रणव शंकर, जिला विधि संघ के अध्यक्ष श्री रसिक बिहारी सिंह, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में लोक अभियोजक श्री पुष्कर अग्रवाल, सहित काफी संख्या में न्यायिक पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण बैंक, बीमा के पदाधिकारीगण अन्य विभागों के पदाधिकारीगण तथा बहुत संख्या में वादकारीगण उपस्थित रहें। पुरे कार्यक्रम का संचालन श्रीमती निधि जायसवाल न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आगंतुको का स्वागत अभिभाषण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव श्री प्रणव शंकर द्वारा किया गया तथा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि जितने भी वादकारीगण यहां आये हैं आप सभी के सहयोग से ही राष्ट्रीय लोक अदालत एक मुकम्मल स्थान को पायेगा उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक अदालत के हर गतिविधि को जन-जन तक पहुचाने में मीडिया की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि आपके माध्यम से आज भी लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होते हैं तो उन्हें इसका उचित लाभ प्राप्त होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि अगर किसी का वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होता है तो इसका लाभ सिर्फ वादकारीगण को ही नहीं होता है बल्कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहित न्यायालय पर भी मुकादमों का बोझ कम होता है और यह कई तरह के विधि व्यवस्था को कायम रखने में सहायक होता है, साथ ही जिनका वाद समाप्त होता है दोनों पक्षों के बीच पूर्व से उत्पन्न तनाव खत्म हो जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग के लिए पुलिस अधीक्षक और प्रभारी जिला पदाधिकारी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा गया कि पुलिस प्रशासन के सहयोग से सत्रह हजार से अधिक नोटिस को ससमय तामिला कराने की कार्रवाई की गयी है जो इस जिला के लिए अपने आप में रिकार्ड है। इस अवसर पर इनके द्वारा उम्मीद जतायी गयी कि पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत से ज्यादा इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत का निस्तारण होगा।

अपने दूसरे संबोधन में जिला विधि संघ के अध्यक्ष श्री रसिक बिहारी द्वारा इस अवसर पर कहा गया कि पिछला राष्ट्रीय लोक अदालत तीन माह पूर्व लगा था और इस राष्ट्रीय लोक अदालत के समय देश में भी काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है। भारत द्वारा चन्द्रयान-3 के सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर पहुचने की बात करते ही पुरा परिसर तालियों से गुंज उठा। भारत ही एक मात्र ऐसा देश है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुचा। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत पर चर्चा करते हुए कहा कि असहमति को सहमति में बदलना ही राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य है और जिला विधिक सेवा प्राधिकार निरंतर यह कार्य कर रहा है। इस अवसर पर कहा गया कि दया करने वालो को हमेशा याद किया जाता है इसलिए करूणा का भाव होना आवश्यक है।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि अगर आज आपको राष्ट्रीय लोक अदालत में बुलाया गया है तो इसका उद्देश्य है कि न्यायालय आपको सजा देना नहीं चाहते और आपका वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से हो जाता है तो यह किसी की हार और किसी की जीत नहीं। प्रभारी जिला पदाधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा बताया जो मामले समझौते के माध्यम से हल किया जा सकता है उनके द्वारा कहा गया कि मैने स्तरो पर सेवा की है और पूर्व में भी लोग कहते थे कि हमारे वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत में भेज दिजीय आज के समय में राष्ट्रीय लोक अदालत का महत्व काफी बढ़ गया है और लोगो को इसका अधिका से अधिक लाभ लेना चाहिए। उनके द्वारा कहा गया कि अगर किसी तरह के सुलहनीय मामले न्यायालय में चलते हैं तो व्यक्ति कई तरह के परेशानियों का सामना करता है और राष्ट्रीय लोक अदालत उनके लिए एक उम्मीद है। जमीन के बढ़ते विवाद पर उनके द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने वादों के निस्तारण के लिए आगे आयें।

अपने सम्बोधन में पुलिस अधीक्षक श्री हृदयकान्त द्वारा कहा कि हमारे संविधान में जो त्वरित न्याय दिलाने की परिकल्पना की गयी है उसके परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां त्वरित न्याय मिलता है और इसका निस्तारण आपसी सामन्जस से किया जाता है इसलिए कोई भी पक्ष यहां से निराश होकर नहीं जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित होने वाले वादों में व्यक्ति को समय, उर्जा, पैसा के बचत के साथ-साथ कई स्तरों पर सहुलियत और सुकुन का अनुभूति करता है।

परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री पुनीत कुमार गर्ग द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते कहा गया कि यह कई स्तरो पर लोगो को त्वरित न्याय प्रदान करने और अपने सुलहनीय वादों का निस्तारण का एक सशक्त माध्यम है।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री सम्पूर्णानन्द तिवारी ने सभी विभागों के सहयोग के धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सभी गतिविधियों का आपके द्वारा प्रतिदिन महत्वपूर्ण स्थान देते हुए विगत एक माह से अधिक समय से राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व के बारे में प्रचारित-प्रसारित किया गया है जिसका व्यापक असर हुआ है। उन्होंने अपने सम्बोधन में यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में नोटिस तामिला कराने की कार्रवाई की गयी है जिसका प्रतिफल आज न्यायालय में इतनी भीड़ है। उन्होंने कहा कि संवाद से बढ़कर कुछ नहीं है और ज्यादातर अपने आप में संवाद स्थापित नहीं कर पाते और राष्ट्रीय लोक अदालत संवाद स्थापित करने का एक माध्यम है। न्यायिक प्रक्रिया तो अलग काम करता है परन्तु राष्ट्रीय लोक अदालत में संवाद स्थापित करते हुए वादों का निस्तारण कराया जाता है। उन्होंने भी अपने सम्बोधन में कहा कि कई तरह के छोटे-छोटे झगड़े होते हैं और न्यायालय में कई-कई दिनों तक लोग आते हैं परन्तु राष्ट्रीय लोक अदालत में संवाद स्थापित करते हुए इसका निस्तारण किया जाता है। उनके द्वारा कहा गया कि अगर एक अच्छा इंसान होता है तो उसमें कई तरह के गुण अपने-आप हो जातें है अगर वह अधिवक्ता के पेशा से जुड़ा हो तो उसमें एक अधिवक्ता का गुण स्वतः ही रहेगा अगर वह न्यायाधीश है, पिता है, पुत्र है, या किसी भी व्यवसाय में है हर जगह उसका मानवीय पक्ष दिख जायेगा।

इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापित अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी श्री योगेश कुमार मिश्र ने किया तथा अपने संबोधन में अतिथियों ने लोगों को लोक अदालत का महत्व एवं फायदे के विषय में लोगों को बताया और लोगों से अधिक से अधिक इस अवसर का लाभ उठाने हेतु अपील किया। अपने संबोधन में कहा कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जन कल्याण के लिए किया गया हैं क्योंकि लोक अदालत एक ऐसा माध्यम है जिसमें न तो किसी की हार होती हैं न ही किसी की जीत होती हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में सहयोग करने वाले सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

कई साल पुराने मामलें का भी हुआ निस्पादन।

यह राष्ट्रीय लोक अदालत कई मामलें में अविष्मरनीय रहा इस लोक अदालत में जहा अपने वाद के निष्पादन में अपने कई रिकार्ड को तोडते हुए एक नया मिल का पत्थर स्थापित किया वही जिला विधिक सेवा प्राधिकार, न्यायालय, अधिवक्तागण के प्रयास से दर्जनों ऐसे मामले का निष्पादन हुआ जो दसको पुराने थे जिनमें नगर थाना कांड सं0 395/2003 में सूचक रामजी सिंह द्वारा अभियुक्त सुर्यदेव यादव, विरेन्द्र यादव, ब्रह्मदेव यादव पर मारपीट करने तथा पैसा लेने का मामला 20 साल पुराना था जो बेहद ही छोटे अपराध का था को समाप्त किया गया इसी तरह टण्डवा थाना काण्ड संख्या 18/2007, नगर थाना काण्ड संख्या 513/2008 जैसे दर्जनों वाद जो वर्षो पुराने मामले इस लोक अदालत में निष्पादन कराया गया राष्ट्रीय लोक अदालत में 2619 वाद का निष्पादन के साथ कुल 05 करोड़ का समझौता कराया गया एवं मोटर दुर्घटना में 62 लख रुपए के समझौते पर विवाद को निपटाया गया

राष्ट्रीय लोक अदालत में आज मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित 04 वादों में कुल 62 लाख रुपए का समझौता कराया गयो पारिवारिक मामलें से सम्बन्धित 04 वाद, आपराधिक सुलहनीय मामलें से सम्बन्धित 446 वाद, एन आई एक्ट के 08, मामलों में 21 लाख का समझौता, टेलीफोन के 08 मामलों में, माप तौल इसके साथ साथ अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से सबन्धित 655 वाद तथा बैंक ऋण से सम्बन्धित 1482 मामलें का निस्तारण करते हुए कुल 04.5-करोड़ रुपए पक्षकारो को राहत दिया गया इस तरह कुल 2619 मामलों का निस्तारण करते हुए कुल लगभग 05 करोड़ रुपए का समझौता कराया गया जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ो के मामले में न्यायालय से जुड़े मामलों में ज्यादा वादों का निष्पादन का रिकॉर्ड है पिछला रिकॉर्ड 397 व्यवहार न्यायालय से जुड़े वादों के निष्पादन का था जो बढ़ कर 466 वादों का निष्पादन हुओ

लोक अदालत में रिकार्ड वादों के निष्पादन पर प्राधिकार के सचिव प्रणव शंकर ने कहा कि पिछले रिकार्ड को तोड़ते हुए 466 सिर्फ न्यायालय के लंबित वाद को निष्पादित होना एक बहुत बडी उपलब्धि हैं जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री संपूणानंद तिवारी, का मार्गदर्शन और सभी न्यायिक पदाधिकारियों, वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं लोक अदालत से जुडें समस्त लोगों के सहयोग से संभव हुआ है इसके लिये सभी को बहुत- बहुत बधाई एवं धन्यवाद।

इस पुरे राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को सफल बनाने में प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता अभिनन्दन कुमार, कर्मी श्री सुनील कुमार सिंह, परसुराम कुमार सिंह, संजय कुमार, टेक्निकल स्टाफ अर्पणा सहाय, सुनील कुमार सिन्हा, और सहयोगी श्री नवरतन कुमार, गीता कुमारी, कुंदन कुमार सहित सभी अर्धविधिक स्वयं सेवकों की भूमिका भी सराहनीय रही

स्वास्थ्य जाँच शिविर के माध्यम से लोगो को मिला स्वास्थ्य का लाभ।

राष्ट्रीय लोक अदालत की मुख्य विशेषता यह रहा की राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ साथ स्वास्थ जाँच शिविर का आयोजन विधिक सेवा सदन में किया गया था जिसमे सुगर, विपी, के साथ साथ चिकित्सीय जाँच और दवा का वितरण,इत्यादि प्रमुख सुविधावों से वादकारियों के साथ साथ सभी उपस्थित लोगो ने लाभ उठाया

प्रखंड विकास पदाधिकारी नें किया बैटरी चालित रिक्शा का वितरण

दैनिक समाज जागरण, विजय कुमार सिंह संवाददाता कुटुंबा प्रखंड

औरंगाबाद (बिहार) 9 सितंबर 2023 :- मुख्यमंत्री दिव्यांग साइकिल योजना के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने शनिवार को तीन बैटरी चालित रिक्शा का वितरण किया। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 60% से अधिक दिव्यांग लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। तय मानक के अनुसार लाभुको का चयन किया गया है। इस दौरान जगदीशपुर पंचायत निवासी विमलेश सिंह, वर्मा पंचायत निवासी इरफान नट तथा पिपरा बगाही निवासी मुरली सिंह को बैटरी चालित साइकिल दी गई है। इस अवसर पर जदयू के युवा प्रखंड अध्यक्ष संतन कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री के द्वारा दिव्यांग लोगों के लिए उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। बैटरी चालित रिक्शा से दिव्यांग जनों को रोजगार एवं दैनिक जीवन के कार्यकलाप में सहूलियत होगी।

शराब की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार

दैनिक समाज जागरण, विजय कुमार सिंह संवाददाता कुटुंबा प्रखंड

औरंगाबाद (बिहार) 9 सितंबर 2023 :- बिहार में शराबबंदी के बावजूद तस्कर शराब तस्करी को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। इधर मद्य निषेध विभाग और पुलिस की टीम तस्करों पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। तू डाल डाल मैं पात-पात कहावत को चरितार्थ करते हुए अंबा थाना की पुलिस ने मद्य निषेध इकाई पटना के टीम के सहयोग से शुक्रवार की रात्रि दो बजे शराब की खेप के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर की पहचान राजस्थान के हनुमान नगर जिला अंतर्गत सन्दरिया गांव निवासी गुरजीत सिंह के रूप में हुई है। तस्कर ट्रक के अंदर शराब छुपा कर हरिहरगंज की तरफ से आ रहा था। उसी क्रम में अंबा थाना की पुलिस ने उसे दबोच लिया। जांच के क्रम में ट्रक के अंदर छुपा कर रखी गई 750 एमएल की 780 बोतल इंपीरियल ब्लू , 180एमएल की 6096 बोतल इंपीरियल ब्लू तथा 375 एमएल की 3240 बोतल इंपीरियल ब्लू की कुल 10222 बोतल में 2918.7 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि इसमें अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के शामिल होने की आशंका है।तस्कर से पूछताछ की जा रही है।

बीएलओ ने दिया सामूहिक इस्तीफा, कार्य अवधि के बाद नहीं करेंगे काम

दैनिक समाज जागरण, विजय कुमार सिंह संवाददाता कुटुंबा प्रखंड

औरंगाबाद (बिहार) 9 सितंबर 2023 :- प्रखंड क्षेत्र में बी.एल.ओ. के पद पर कार्यरत शिक्षकों ने शनिवार को सामुहिक रूप से बी.एल.ओ. के पद से इस्तीफा दे दिया। इस संदर्भ में बी.एल.ओ. के पचपन सदस्यीय समूह ने

सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया है। उन्होंने बताया कि 9 सितंबर 2023 को चार बजे के बाद से बी.एल.ओ. का काम नहीं करेंगे। अपर सचिव का आदेश है कि शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराना है। परंतु निर्वाचन विभाग के द्वारा शिक्षकों को बी.एल.ओ. के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है और उनसे कार्यालय अवधि के बाद कार्य लिया जाता है। इसी के विरुद्ध हम लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन विभाग को शिक्षकों से काम लेना है तो विद्यालय कार्य अवधि के अंतर्गत काम ले। हम लोग कार्यालय अवधि से पहले और बाद में काम नहीं करेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं निर्वाचन पदाधिकारी को दिए गए आवेदन में प्रखंड क्षेत्र के पचपन बी.एल.ओ.ने हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर करने वालों में शंभू ठाकुर, मार्कंडेय मेहता, गोपी प्रसाद, सुनील कुमार, प्रेम कुमार ठाकुर, संपूणानंद चौहान, मोहम्मद आजाद आलम, कुमार बिजेंदर, नरेंद्र प्रसाद, संजय कुमार, दिनेश कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, मनोज कुमार सिंह, सुनील कुमार आदि लोग शामिल हैं।

औरंगाबाद में शत प्रतिशत साक्षरता दर हासिल करने का पारित किया गया प्रस्ताव:

दैनिक समाज जागरण अविनाश कुमार जिला संवाददाता औरंगाबाद बिहार

इसके लिए जन-जागरूकता चलाने का लिया गया संकल्प-----

उक्त संकल्प हिन्दी सप्ताह समारोह के अन्तर्गत विश्व साक्षरता दिवस समारोह के उद्घाटनके अवसर पर लिया गया । इसका उद्घाटन आज संस्कृत कॉलेज औरंगाबाद में दीप प्रज्जवलित कर मुख्य अतिथि डॉ सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य सूरजपत सिंह ,प्रो रामाधार सिंह, संस्था के सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी,प्रो संजीव रंजन,कवि राम किशोर सिंह, विश्व हिंदू परिषद के नेता जयनंदन पांडेय ,संस्था के अध्यक्ष राम जी सिंह ने किया। तत्पश्चात 'वर्तमान समय में साक्षरता की प्रासंगिकता' विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी कीअध्यक्षता सूरजपत सिंह और संचालन साहित्य संवाद के अध्यक्ष लालदेव प्रसाद ने किया ।सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने बताया की संगोष्ठी का विषय प्रवेश कवि और साक्षरता कर्मी कालिका सिंह ने कराया और बताया कि आजादी के समय इस देश की साक्षरता दर 18% थी जो बढ़कर अब 74% हो गया । वहीं बिहार की साक्षरता दर 64% और औरंगाबाद भी 73 प्रतिशत हो गया है । साक्षरता अभियान के कारण ही यह हो पाया है ।इसके बाद मुख्य अतिथि डॉक्टर

सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ,रामकिशोर सिंह ,रामाधार सिंह , रेड क्रॉस के पूर्व सचिव मनोज कुमार सिंह ,वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रो संजीव रंजन, जयनंदन पांडेय ने अपने संबोधन में साक्षरता अभियान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए बताया की साक्षरता सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की जागरूकता पैदा करती है और समाज के विकास में योगदान देने और बुराइयों को मिटाने की प्रेरणा देती है ।इन सभी कार्यों में साक्षरता से लाभ हुआ है । वस्तुतः साक्षरता शिक्षा की प्राथमिक सिढीं है , नैतिक मूल्यों वाली शिक्षा से एक स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है ।साक्षरता को और आम जन से जोड़ने की जरूरत है। इसके साथ ही इस विषय पर कवि लवकुश सिंह, शिक्षक सुरेश सिंह, बैद्यनाथ सिंह, अरुण कुमार सिंह आदि ने प्रकाश डाला और साक्षरता को पूरे देश में चलाने की जरूरत बताया। सचिव सिद्धेश्वर विद्यार्थी ने प्रस्ताव रखा कि औरंगाबाद जिले की साक्षरता दर राष्ट्रीय मानक 80 प्रतिशत तक बढ़कर शत-प्रतिशत करने की जरूरत है। इसके लिए जन जागरुकता अभियान चलाया जाये ,जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया । अंत में अध्यक्ष सरजपत सिंह ने सभी के विचारों का समर्थन करते हुए औरंगाबाद जिले की शैक्षिक प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और साक्षरता अभियान पुनः चलाने की वकालत की ।संगोष्ठी में शिव शिष्य पुरुषोत्तम पाठक, पूर्व अध्यापक राम सुरेश सिं,जनेश्वर यादव ,डॉक्टर महेंद्र ,इंजीनियर अखिलेश सिंह, पूर्व सचिव रेड क्रॉस मनोज कुमार सिंह ,प्रमोद सिंह ,विनोद सिंह सहित दर्जनों लोग उपस्थित है

गोह में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रतिमा का किया अनावरण, मंत्री श्रवण कुमार

'संविधान के पहले अनुच्छेद में है कि इंडिया जिसको भारत कहते हैं,यह राज्यों का संघ होगा,

दैनिक समाज जागरण कुमारी जिज्ञासा , प्रखंड संवाददाता गोह

औरंगाबाद (बिहार)गोह प्रखंड मुख्यालय स्थित गांधी मैदान के समीप शनिवार को पोखरा पर अवस्थित छत्रपति शिवाजी महाराज के आदमकद प्रतिमा का अनावरण बिहार सरकार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार व काराकाट क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद महाबली सिंह एवं कई गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पैक्स अध्यक्ष दिलीप कुमार उर्फ लड्डू सिंह तथा संचालन पूर्व मुखिया भगवान सिंह ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, सांसद महाबली सिंह एवं विशिष्ट अतिथि गजाधर बाबू , श्रीनिवास सिंह, रघुवंश सिंह, विश्वनाथ सिंह को क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि डॉ आर यू कुमार,अमरेश पटेल व रुपेश कुशवाह ने सभी गणमान्य लोगों को अंग वस्त्र व मोमेंट देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि आज हमलोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह एक भारतीय शासन के तौर पर बहादुर , बुद्धिमान और निडर शासक बनने की जरूरत है। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमारे देश में इंडिया और भारत को लेकर छिड़े विवाद पर सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां भाजपा देश का नाम भारत बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल केंद्र सरकार पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को बदलने का आरोप लगा रही है। इसलिए मंत्री ने कहा हम लोगों को बाबा साहब के संविधान को एकजुट होकर बचाना है। और देश से भाजपा को 2024 में भगाना है। क्योंकि जो हमारे देश की जुमले वाली सरकार है, वह सारी संपत्ति पूंजीपतियों के हाथों बेच दे रही है। तो ऐसी निकम्मी सरकार जो धर्म की आड़ में राजनीति करे और देश की आम जनता महंगाई और बेरोजगारी की मार झेले तो ऐसी सरकार को इस देश से इस बार उखाड़ फेंकने की जरूरत है। इसी कड़ी में काराकाट सांसद महाबली सिंह ने कहा कि जब से विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा तब से भाजपा वाले डरे हुए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना चाहते हुए कहा कि देश का नाम कहां-कहां से बदलेंगे पहले पीएम मोदी के हर भाषण में वोट फॉर इंडिया रहता था कई योजनाओं में इंडिया का जिक्र है। पीएम मोदी उन सब का क्या करेंगे आज भी वह विदेश जाएंगे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ही कहलाएंगे। देश के पीएम मोदी गठबंधन से कितना डरे हुए हैं। यह बताने की जरूरत नहीं है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। इस मौके पर बृजमोहन वर्मा, विनय पटेल, जितेंद्र पटेल,राजू वर्मा,सौरभ वर्मा, राहुल चंद्रवंशी,मधु सिंह,अजय आर्य, सीताराम दुखारी, आत्मा श्री वैष्णव सहित सैंकड़ों लोग मौजूद थे।

गोह में शिक्षक सम्मान समारोह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, मौके पर पहुंचे भाजपा नेता प्रमोद चंद्रवंशी।

दैनिक समाज जागरण कुमारी जिज्ञासा , प्रखंड संवाददाता गोह

औरंगाबाद (बिहार)गुरु और शिष्य की परंपरा भारत की संस्कृति का एक अहम और पवित्र हिस्सा है इस अवसर पर शनिवार को गोह प्रखंड मुख्यालय स्थित टी सी पी एजुकेशन हब सह कम्प्यूटर क्लासेस के बच्चों ने विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन संस्था के डायरेक्टर

अरविंद कुमार ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में आए पूर्व अतिपछडा वर्ग आयोग के सदस्य सह भाजपा नेता प्रमोद चंद्रवंशी, उपहारा थानाध्यक्ष किरण कुमारी व सुनील शर्मा सहित कई गण्यमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद आए हुए अतिथियों, शिक्षकों व बुद्धजीवियों को माला व मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। उपहारा थानाध्यक्ष किरण कुमारी ने छात्र छात्राओं को शिक्षा पर बल देते हुए कहा कि पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना है। और मोबाइल से हो रही घटनाओं से बचना जरूरी है। पढ़ लिखकर माता पिता एवं गुरु जनों का नाम के साथ साथ संस्थान का भी नाम रोशन करना अति आवश्यक है। वहीं भाजपा नेता प्रमोद चंद्रवंशी ने शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि गोह के छात्र- छात्रा पढ़ने में काफी मेहनती हैं, जिसके वजह से प्रदेश स्तर पर हर वर्ष परचम लहराने में सफल होते आए हैं। उन्होंने आगे कहा की शिक्षा एक ऐसी पूंजी है जिसकी तुलना पूंजी से नही किया जा सकता है। आज के बच्चे ही कल के उज्जवल भारत के भविष्य हैं मौक पर समाजसेवी कार्यकर्ता इंदल चंद्रवंशी , दिनेश चंद्रवंशी,उत्तम कुमार, शिक्षक दीपक कुमार, सोशल वर्कर सह पत्रकार कुमारी जिज्ञासा सहित कई अन्य गण्यमान लोग मौजूद रहे।

देव में पोल खोल मसाल जुलुस निकाला गया।

दैनिक समाज जागरण वीरेंद्र यादव जिला संवाददाता औरंगाबाद (बिहार) 9 सितंबर 2023: औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के जदयू प्रखंड अध्यक्ष बृजेश सिंह के अध्यक्षता मे पोल खोल मसाल जुलुस निकाला गया जिसमे मुख्य अतिथि के रूप मे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव औरंगाबाद प्रभारी प्रमिला सिंह जनता दल यूनाइटेड जिला बरिये जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह चंद्रवंशी देव प्रखंड प्रभारी ,, जिसमे शामिल ऐरोरा ग्राम पंचायत के पंचायत अध्यक्ष बैजनाथ मेहता बेढ़नी पंचायत के अध्यक्ष श्यामसुंदर मिस्त्री पवई पंचायत के पंचायत अध्यक्ष क्रम देवराम दुलारे पंचायत के पंचायत अध्यक्ष अशोक राम बेदाना पंचायत के पंचायत अध्यक्ष नागमती देवी बनवा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष सबीना खातून

और और सभी पंचायत के पंचायत अध्यक्ष शामिल रहे तथा ग्रामीण जनता अजय सिंह नवनीत सिंह अस्मित सिंह अमन सिंह प्रभाश कुमार रजनीश सिंह अभिषेक कुमार रौशन कुमार और सैकड़ो लोग शामिल रहे।

नबीनगर रेलवे स्टेशन के समीप से सिर कटी लाश बरामद जांच मे जुटी रेल पुलिस

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद)

नबीनगर (बिहार) 9 सितंबर 2023 औरंगाबाद जिले के नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन के समीप रेल लाइन के किनारे से अहले सुबह एक युवक का सिर कटी लाश बरामद किया गया है। रेलवे फाटक सुरजन बीघा के समीप रेल लाइन के किनारे लगभग 32 वर्षीय युवक का शव का सिर धड़ से अलग था।शव की पहचान नहीं हो सका है और न ही आस पास कुछ मिल सका है ।शव को देखकर लोगो के बीच आशंका जताई जा रही है कि युवक का सिर रेल से नहीं

कटा है बल्कि यह मामला हत्या या आत्महत्या की भी हो सकती है क्योंकि सिर या बॉडी पर किसी भी प्रकार का कोई खरोच नही है।

मामले मे जी आर पी नबीनगर रोड के इंस्पेक्टर ने बताया कि शव के आस पास कुछ भी नही मिला हैं मृत युवक के पास से एक रेल टिकट मिला है जो फतुहा से पटना का है । उनके द्वारा यह भी आशंका जताया गया कि या तो युवक आत्महत्या किया है या फिर हत्या की गई हो।फिलहाल शव को कब्जे मे लेकर आगे की कर्रवाई के लिए शव को रेल थाना सोन नगर भेज दिया या गया है।

एक शराब कारोबारी को भेजा गया जेल।

दैनिक समाज जागरण, वीरेंद्र यादव जिला संवाददाता औरंगाबाद

औरंगाबाद जिले के देव थाना के पुलिस ने 2 लीटर महुआ शराब के साथ एक शराब कारोबारी को धर दबोचा है और उसे जेल भेज दिया है शराब कारोबारी को पहचान

राजू भुईया उम्र 30 वर्ष पिता रामस्वरूप भुईयां ग्राम कीर्तिपुरम केताकी के रूप की गई हैं देव थाना प्रभारी राजगृह प्रसाद ने बताया कि देव केताकी बैंक मोड़ से 02 लीटर महुआ देसी शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

नबीनगर के रघुनाथ गंज से एक शराबी गिरफ्तार भेजा गया जेल

दैनिक समाज जागरण अनील कुमार संवाददाता नबीनगर (औरंगाबाद) नबीनगर (बिहार) 9 सितंबर 2023 औरंगाबाद जिले के नबीनगर थाना क्षेत्र के रघुनाथ गंज गांव के समीप से एक शराबी को पुलिस गश्ती दल ने गिरफ्तार किया है।पुलिस गश्ती दल मे पी एस आई शबनम खातून एवम सशस्त्र बल के जवान

शामिल थे । गिरफ्तार किया गया शराबी अरुण ठाकुर पिता सत्येंद्र ठाकुर ग्राम रघुनाथगंज थाना नबीनगर जिला औरंगाबाद का निवासी है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार पाण्डेय ने बताया कि नबीनगर रेफरल अस्पताल में शराब पीने की पुष्टि के बाद मद्यनिषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उक्त व्यक्ति को जेल भेज दिया गया।

प्रधानाध्यापक पद की रिक्ति की गणना हेतु जिला शिक्षा कार्यालय, किशनगंज सक्रिय

दैनिक समाज जागरण संवाददाता, ठाकुरगंज (किशनगंज)

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार के पत्रांक 1548 दिनांक 05 सितंबर 2023 में अंकित आदेशालोक में जिला शिक्षा कार्यालय, किशनगंज अनुपालन करने हेतु सक्रिय हुआ। श्री कुंदन कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, किशनगंज ने अपने कार्यालय पत्रांक 777 दिनांक 08 सितंबर 2023 के मार्फत प्रोन्नति का बाट जोह रहे उत्तर स्नातक प्रशिक्षित, स्नातक प्रशिक्षित के विभिन्न संकाय यथा कला, विज्ञान व वाणिज्य के साथ मैट्रिक प्रशिक्षित व 34540 कोटि के जिला संवर्ग के शिक्षकों की सूची जिले के सभी प्रखंडों से मांग की है। निर्गत आदेश के अनुसार विभिन्न मध्य विद्यालयों में पदस्थापित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित और स्नातक प्रशिक्षित जिला संवर्ग के शिक्षक-शिक्षिकाओं को अपने ही वेतनमान में पूर्णकालिक रूप से बगैर किसी वित्तीय लाभ के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर पदस्थापित किया जाना है।

उक्त आदेश के अनुपालन हेतु प्रधानाध्यापक एवं स्नातक प्रशिक्षित (कला/विज्ञान) पदों के रिक्ति की गणना का अपरिहार्यता के मद्देनजर सभी प्रखण्ड के चिन्हित मध्य विद्यालयों के प्रधानों से 09 सितंबर 2023 के संध्या 05 बजे तक निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी है। अन्यथा की स्थिति में स्पष्ट किया गया है कि इसकी समस्त जवाबदेही सम्बंधित प्रधानों पर तय की जा सकेगी।

ज्ञात हो कि विभागीय निदेशानुसार आगामी 10 सितंबर 2023 तक प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध पदस्थापना अनिवार्य रूप से किया जाना है। इसके उपरांत 20 सितंबर 2023 तक स्नातक (कला/विज्ञान) के रिक्त पदों के विरुद्ध जिला संवर्ग के मैट्रिक प्रशिक्षित और 34540 कोटि के योग्य शिक्षक-शिक्षिकाओं से भरा जाना है।

विभागीय लक्ष्य शत प्रतिशत प्राप्त करने हेतु खनन और परिवहन के पदाधिकारी लगातार चलाए छापामारी अभियान - एडीएम

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

अपर जिला दंडाधिकारी,अनुज कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स और परिवहन टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय स्थित उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित की गयी. बैठक में एडीएम के द्वारा 2023 -24 में राजस्व संग्रह के लिए एजेंडावार समीक्षा की गई.

जिलांतर्गत सभी बालूघाट संचालन व अवैध उत्खनन, अवैध परिवहन, ईट भट्ठा संचालन व अवैध संचालकों पर कार्रवाई, रॉयल्टी संग्रहण, माइनिंग ईनफोर्समेंट हेतु वन के अधिकारियों से समन्वय आदि के बिन्दु पर गहन समीक्षा हुई. वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध राजस्व संग्रह की समीक्षा की गई.

खनिज विकास पदाधिकारी और खान निरीक्षक को निदेश दिया कि लगातार क्षेत्र भ्रमण कर अवैध खनन के विरुद्ध छापामारी करें तथा विभागीय पत्र के आलोक में बालू घाट बंद रखना और ससमय खनन प्रारंभ करने समेत अन्य कार्य कराना सुनिश्चित करें.

बालू घाट नियमानुसार संचालन हेतु कार्रवाई, खनन राजस्व संग्रहण,

अवैध इट- भट्ठा पर नियमानुसार कार्रवाई की समीक्षा की गई। एडीएम ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित कराएं कि खनन कार्य विभागीय प्रावधान के अनुसार ही बंद और चालू रहे। ईट भट्ठा की जांच संबंधित अंचल के अंचलाधिकारी से कराने का निर्देश दिया गया.

यह भी निदेश दिया गया कि वैद्य तरीके से एवं स-समय रॉयल्टी भुगतान कर रहे हैं, उन्हें किसी तरह का कठिनाई का सामना ना करना पड़े तथा सभी कार्य विभाग को एतद निदेश दिए गए है. जिला परिवहन टास्क फोर्स के कार्यो की समीक्षा के क्रम में इस वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्य 751.26 लाख के विरुद्ध वसूली की समीक्षा की गई. समीक्षा के क्रम में नियमानुसार राजस्व संग्रह में तेजी लाने का निर्देश दिया गया. नियमित रूप से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सघन छापामारी /चेकिंग का निदेश दिया गया. इस बैठक में अनुमंडलाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक(मुख्यालय), खनिज विकास पदाधिकारी, जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं इससे संबंधित अन्य अभियंता व पदाधिकारीगण उपस्थित थे.

रिश्वत नहीं देने पर इन्टरमीडिएट मार्कशीट में अंग्रेजी विषय को कर दिया पेंडिंग

अभ्यर्थी ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित मुख्यमंत्री को आवेदन देकर लगाई गुहार

बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड, बी बोस (BBOSE) पटना ने मांगा था पांच हजार रुपये

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

बिहार के कार्यालय में कार्य के एवज में खुलेआम रिश्वतखोरी होती हैं। रिश्वत नहीं देने पर कोई कार्य नहीं होता। पटना में इइडरए परीक्षा बोर्ड कार्यालय हैं,जहां रिश्वत दिए बिना कोई कार्य नहीं होता। जमावड़ा लगा रहता है। पेंडिंग हटाने के लिए जो रिश्वत दे देते हैं उसका पेंडिंग हटा दिया जाता हैं। यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

यह आरोप अभ्यर्थी प्रिया कुमारी ने शिक्षा विभाग के अधिकारी सहित मुख्यमंत्री को आवेदन देकर लगाई गुहार। प्रिया, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड पटना बी बोस (BBOSE) की जून 2022 परीक्षा में शामिल हुई थी। प्रिया का इनरोलमेन्ट संख्या CWDO1717000722AB000

BIHAR BOARD OF OPEN SCHOOLING AND EXAMINATION,PATNA
FIRST EXAMINATION-JUNE 2022
MARKS OBTAINED FOR SR. SECONDARY(XII)

ENROLLMENT NO : CWDO1717000722AB0005
ROLL NO : 2212013988
NAME : PRIYA KUMARI
F/H NAME : BIRENDRA CHOUHAN
MOTHERS NAME : SULEKHA DEVI
STUDY CENTRE : PROJECT UCHH VIDYALAYA,THAKURGANJ(CW17170007)
Date of Birth : 24-01-2003

MARKS DETAILS

SUBJECT	THEORY	PRACTICAL	TOTAL	REMARKS
HINDI (301)	61		61	PASS
ENGLISH (302)			0	PENDING
PHYSICS (311)*	31	19	50	PASS
CHEMISTRY (312)*	38	19	57	PASS
BIOLOGY (313)*	36	19	55	PASS
		GRAND TOTAL	223	

5 एवं रोल नंबर 2212013988 है।अभ्यर्थी प्रिया कुमारी, मोती बाग किशनगंज की हैं। प्लस टू नेशनल हाई स्कूल किशनगंज से इंटरमीडिएट की परीक्षा जून 2022 में दी थीं। इसी दौरान परीक्षा समाप्त होने के उपरांत शिक्षक संजय यादव जो अभ्यर्थी का फॉर्म भरवा कर परीक्षा दिलवाए थे, वे फोन पर बच्ची को बोले की मार्कशीट के लिए बी बोस (BBOSE)पटना में पांच हजार रुपए मांग रहा है। अभ्यर्थी के अभिभावक रुपये का इंतजाम नहीं कर सके और रुपये नहीं देने के कारण बोर्ड के द्वारा एक विषय अंग्रेजी में मार्कशीट में पेंडिंग कर दिया गया है। इसके बाद अभ्यर्थी

प्रिया के अभिभावक कई बार बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड बी बोस (BBOSE) चाणक्य लॉ कॉलेज मीठापुर पटना जाकर आवेदन दिए एवं आरटीआई के द्वारा जानकारी भी मांगी परंतु वह आज तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सहित मुख्यमंत्री को आवेदन प्रिया देकर गुहार लगा चुकी है। लेकिन आज तक बोर्ड द्वारा अंग्रेजी विषय में मार्कशीट से पेंडिंग नहीं हटाया गया ना कोई कार्रवाई की गई।

सिलीगुड़ी में तस्करी से पहले चोरी की चारपहिया वाहन के साथ तीन गिरफ्तार

उत्तम सिंह :संवाददाता: दैनिक समाज जागरण:ब्यूरोचीफ: सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग):

एनजेपी थाने की पुलिस ने तस्करी से पहले चोरी के चार पहिया वाहन के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम गणेश कुमार, रंजीत कुमार और राहुल कुमार राय हैं। सभी लोग बिहार के रहने वाले हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि बिहार से चुराई गई एक स्कॉर्पियो कार सिलीगुड़ी के रास्ते असम ले जाई जा रही हैं।

इसी के आधार पर शुक्रवार शाम पुलिस ने नौकाघाट मोड़ पर छापेमारी कर कार को रोका। कार के कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया। बताया गया है कार में इस्तेमाल किया गया नंबर भी नकली है। आज सभी आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया है।

राजस्व वसूली में तेजी लाएं , पंचायतों में साप्ताहिक लगान वसूली शिविर लगाकर चलाएं अभियान: एडीएम

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

अपर समाहर्त्ता,किशनगंज अनुज कुमार के द्वारा समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सभी अंचलाधिकारी के कार्यों,राजस्व संग्रहण एवम नीलाम पत्र वाद से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। सभी अंचलाधिकारी के कार्यों

की समीक्षा बैठक में ऑनलाइन दाखिल खारिज, भू लगान वसूली, सेस, दखल देहानी, अभियान बसेरा, बासगीत पर्चा वितरण,एलपीसी निर्गत करने की अद्यतन स्थिति,गैर मजरूआ आम भूमि तथा गैर मजरूआ मालिक भूमि बंदोबस्ती ,लोक भूमि अतिक्रमण ,जल संचयन का अतिक्रमण,न्यायालय वाद, भू हदबंदी,भू-दान, सरजमीं सेवा एवम अन्य बिन्दु पर गहन समीक्षा करते हुए पिछले बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की गई।

राजस्व संग्रहण कार्य की समीक्षा उपरांत सभी अंचलाधिकारियो को ऑनलाइन दाखिल - खारिज वाद सहित परिमार्जन पोर्टल पर डाटा एंट्री कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। 75 दिन से अधिक समयावधि तक लंबित म्यूटेशन को शीघ्रातिशीघ्र निष्पादित करने तथा ऑपरेशन अभियान बसेरा अंतर्गत पूर्ण नए सर्वे आधार पर भूमिहीन को जमीन बंदोबस्त पर्चा का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। वासगीत हेतु चिन्हित भूमिहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने का निर्देश हुआ। ऑनलाइन म्यूटेशन के मामले के निष्पादन के धीमी गति एवम अस्वीकृत करने की प्रवृति पर सभी सीओ के कार्यों पर अपर समाहर्त्ता ने नाराजगी प्रकट कर उन्हे सुधार का निर्देश दिया परिमार्जन के तहत प्राप्त आवेदन का निष्पादन उत्कृष्ट रहा।

लगान वसूली में प्रायः सभी अंचल की स्थिति ठीक नहीं रही,इसे गंभीरता से लेते हुए सभी अंचलाधिकारी को लगान वसूली में वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया।एडीएम के द्वारा उन्हे प्रत्येक बुधवार को अपने अंचल अंतर्गत एक पंचायत में साप्ताहिक शिविर लगाकर लगान वसूली का निर्देश दिया गया। लगान वसूली में तेजी लाने हेतु अपर समाहर्त्ता ने सभी सीओ को निदेशित किया कि बड़े बकायादारो का सूची तैयार करें और उन्हें लगान राशि जमा करने का नोटिस जारी करें ,तत्पश्चात राशि लंबित रहने पर उनपर सर्टिफिकेट केस कराकर लगान वसूली सुनिश्चित करवाएं ।सरकारी भूमि के अतिक्रमण पर अपर समाहर्त्ता ने लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के आलोक में सख्त कार्रवाई करने का निर्देश सभी सीओ को दिया गया। भूमि विवाद, आरओआर डिजिटाइजेशन और राजस्व संग्रहण को लेकर अपर समाहर्त्ता ने कड़े निर्देश दिए।

सिलीगुड़ी में बहुमूल्य कैटरपिलर कवक के साथ दो गिरफ्तार

उत्तम सिंहः संवाददाताःब्यूरोचीफःदैनिक समाज जागरणः सिलीगुड़ी (दार्जिलिंग)ः

आमबाड़ी रेंज के वन कर्मियों ने बहुमूल्य कैटरपिलर कवक के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के नाम देंदुप तमांग और गोविंद छेत्री हैं। देंदुप तमांग कलिम्पोंग के निवासी है और गोविंद छेत्री नेपाल के निवासी हैं।

शुक्रवार रात को राजगंज के आमबाड़ी के रेंजर आलमगीर हक के नेतृत्व में वनकर्मियों ने सबसे पहले सिलीगुड़ी के समरनगर इलाके में अभियान चलाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से करीब 13 ग्राम कैटरपिलर कवक बरामद किया गया। उससे पूछताछ के बाद वन कर्मियों ने मल्लागुड़ी से एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया। वन विभाग को गुप्त सूत्रों से खबर मिली थी कि भारी मात्रा में कैटरपिलर कवक की तस्करी विदेश में करने की योजना है।

इसी के आधार पर आमबाड़ी रेंज ऑफिस के वनकर्मियों ने अभियान चलाया। वनकर्मियों ने खरीदार के रूप में सिलीगुड़ी के समरनगर में तस्करों से मोलभाव करना शुरू कर दिया। 1 किलो कैटरपिलर कवक की कीमत 10 लाख रुपये तय की गई है। इसके बाद वनकर्मियों ने तस्करों को घेर लिया। एक को तो पकड़ लिया गया, लेकिन बाकी लोग वहां से भाग निकले। उससे पूछताछ के बाद एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

बताया गया है कि यह कैटरपिलर कवक मुख्य रूप से पहाड़ के जंगलों में पाया जाता है। इस कैटरपिलर कवक का उपयोग विभिन्न जटिल रोगों की दवा बनाने में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी काफी मांग है। एक किलो करीब 15 लाख रुपये की कीमत पर बिकता है।

सिलीगुड़ी में हैंडओवर के बाद तस्करों ने इन कैटरपिलर कवक को नेपाल के रास्ते चीन में तस्करी करने की योजना बनाई थी। वन विभाग ने आरोपियों को जलपाईगुड़ी जिला अदालत में पेश किया है। वनकर्मी पूरी घटना की जांच शुरू कर दी।

जिले में सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के पहले चरण की शुरुआत सोमवार से , तैयारी पूरी

नियमित टीकाकरण अभियान के अंतर्गत दो वर्ष तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं का होगा टीकाकरण

अभियान की सफलता के लिए मिडिया कार्यशाला का आयोजन

जिले में 843 चिह्नित स्थलों पर कुल 10744 बच्चों एवं 2156 गर्भवती माता के टीकाकरण का लक्ष्य है

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

जिले में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का पहला चरण आगामी सोमवार 11 सितम्बर से शुरू होगा। नियमित टीकाकरण को गति देने एवं वंचित बच्चों को सात प्रकार के वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज दी जाएगी। इस अभियान की सफलता को लेकर विभागीय स्तर से जरूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। इसी क्रम में कार्यक्रम की सफलता के लिए शनिवार को जिला प्रतिरक्षण कार्यलय में मिडिया कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि अभियान के सफल संचालन को लेकर क्षेत्र में सघन जागरूकता अभियान संचालित करने में जनजागरूकता के लिऐ मिडिया से आवश्यक सहयोग अपेक्षिते है। उन्होंने बताया कि जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोरे के दिशा निर्देश में मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम की सफलता को लेकर सभी स्वास्थ्य अधिकारी व सहयोगी संस्था के प्रतिनिधियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये गये हैं। कहा कि सत्रवार सर्वे के आधार पर लाभार्थियों की ड्यू लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। प्रखंडवार अभियान की शुरूआत संबंधित बीडीओ, सीडीपीओ व अन्य प्रखंडस्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी की जानी है। हर स्तर पर अभियान के निगरानी व अनुश्रवण के लिये कर्मियों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। सेशनवार सभी जरूरी लॉजिस्टिक की उपलब्धता सुनिश्चित कराने व टीकाकरण सत्रों की साज-सज्जा को लेकर संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिये गये हैं।

मिशन इंद्रधनुष 7 बीमारियों से बचाने में सहायक-

मिशन इंद्रधनुष से बच्चों में होने वाली 7 प्रमुख बीमारियों तपेदिक , पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस और खसरा का खतरा कम होगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टीकों की संख्या 12 होती है। इसमें खसरा रुबैला, रोटावायरस, हिमोफिलस इन्फ्लूएंजा टाइप-बी और पोलियो के खिलाफ टीकों को शामिल करने के बाद इन टीकों की संख्या 12 हो गई है।

--कुल 843 स्थानों पर टीकाकरण सत्र होंगे संचालित :

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम की सफलता को ले केंद्र सरकार के स्तर से जरूरी दिशा-निर्देश दिये गये हैं ।यु झ विन पोर्टल के माध्यम से ट-

ीकाकरण अभियान संचालित किया जायेगा। जिले के सातों प्रखंड में कुल 843 चिह्नित स्थलों पर मिशन इन्द्रधनुष के तहत कुल 10744 बच्चों एवं 2156 गर्भवती माता के टीकाकरण का लक्ष्य है। उक्त कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु 280 एएनएम, 1518 आशा एवं 1744 आंगनबाड़ी सेविका का सहयोग लिया जायेगा। साथ ही जीविका दीदी,शिक्षा विभाग , एवं जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग लिया जायेगा। ताकि शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की जा सके।

नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देना अभियान का उद्देश्य :

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकरी डॉ. कुमारे ने बताया कि वैश्विक महामारी के इस दौर में नियमित टीकाकरण की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। इसमें सुधार के लिये विशेष प्रयास की जरूरत है। मिशन इन्द्रधनुष कार्यक्रम नियमित टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि मिशन इन्द्रधनुष 5.0 के तहत जिला भर में पहला चक्र 11 से 16 सितंबर, दूसरा चरण 09 से 14 अक्टूबर व तीसरा चरण 27 नवंबर 02 दिसंबर के बीच संचालित किया जाना है। 02 वर्ष उम्र तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं को मिशन इंद्रधनुष अभियान के तहत इसे 100 फीसद तक ले जाने का प्रयास किया जायेगा।

कई जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा के लिहाज से टीकाकरण जरूरी

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकरी डॉ. कुमारे ने बताया कि गर्भवती महिलाएं व दो वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न प्रकार की जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिये नियमित टीकाकरण बेहद जरूरी है। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत जिला के सभी 7 प्रखंडों के चयनित स्थलों पर गर्भवती महिलाएं व बच्चों के टीकाकरण का इंतजाम सुनिश्चित कराया जायेगा। यहां दो वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बीसीजी, ओपीवी, पेंटावेलेंट, रोटा वैक्सीन, आईपीवी मिजल्स, विटामीन-ए, डीपीटी बूस्टर डोज व बूस्टर ओपीवी के टीके लगाये जायेंगे। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को अभियान के क्रम में टेटनेस-डिप्थेरिया के टीके लगाए जायेंगे।

व्यवहार न्यायलय परिसर, किशनगंज में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार,नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के निदेर्शानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार,किशनगंज के

तत्वावधान में व्यवहार न्यायालय, किशनगंज परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।उक्त लोक अदालत में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह, वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय पटना, न्यायमूर्ति पुर्नेंदु सिंह, न्यायाधीश , उच्च न्यायालय पटना एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार,पटना के सदस्य सचिव आर.एन. एस. पाण्डेय के साथ अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण ने राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान भ्रमण किया एवं उपस्थित पक्षकारों से वार्ता किया। उक्त लोक अदालत में कुल सात पीठ का गठन किया गया था जिसमें न्यायिक पदाधिकारीगण बिपिन कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय किशनगंज ,विवेक भारद्वाज, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ किशनगंज , राघवेन्द्र नारायण सिंह, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, ओम शंकर अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय, अमृत कुमार सिंह मुंसिफ प्रथम, इंजमामुल हक न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, श्री रंधीर कुमार , न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी किशनगंज सम्मिलित थे। इन सात पीठों में पैनल अधिवक्तागण क्रमशः रामानन्द गणेश , गाँधी लाल सिंह, पंकज कुमार, सत्य प्रकाश , डॉ बलराम साह , जयदेव समाजदार, एवं राज कुमार साह की प्रतिनियुक्ति की गई थी । राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय के कुल 244 मामले जिसमें दावा वाद के 05 मामले, अपराधिक शमनीय 164 मामले , परिवार न्यायालय के 03 मामले एवं विधुत विभाग के 72 मामले सम्मिलित हैं, 05 दावा वादों में कुल- 31,25,000/- रुपया का समझौता हुआ । बैंक ऋण के कुल 781 मामले में समझौता राशी कुल 3,32,69,241/- रुपया का तथा 18 टेलीफोन बिल से संबंधित मामलों में कुल 1,30,226/- रुपया का समझौता हुआ। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों का उत्साह देखा गया। पक्षकारों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो इसके लिए जगह-जगह सहायता केंद्र पर साथ ही प्रत्येक पीठ में एक झएक पारा विधिक स्वंय सेवकों की प्रतिनियुक्ति की गई थी ।

गर्भवती माताओं की जरूरी स्वास्थ्य जांच के लिये चला अभियान

प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित

सुरक्षित मातृत्व व मातृ-शिशु मृत्यु दर में कमी लाना अभियान का उद्देश्य

राहुल, दैनिक समाज जागरण किशनगंज

जिले में मातृत्व स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने व जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जरूरी प्रयास किये जा रहे हैं। ताकि मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लायी जा सके।जिले में सभी को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार विशेष अभियान चलाकरे टीकाकरण अभियान को और भी सरल और सुविधाजनक बना रहा है। जिले के सभी पीएचसी, सीएचसी, रेफरल एवं अनुमंडलीय व जिला अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व (एएनसी) जाँच की गई।प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत शनिवारे को जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में विशेष शिविर आयोजित किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं की जरूरी चिकित्सकीय जांच के साथ उन्हें जरूरी दवा व परामर्श निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। अभियान के तहत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, हेल्थ सब सेंटर सहित अन्य संस्थानों में विशेष इंतजाम किये गये थे। आशा, एएनएम व आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से संबंधित पोषक क्षेत्र में अभियान से पूर्व ही गर्भवती महिलाओं को चिह्नित किया गया था। ताकि शत प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की जांच संभव हो सके।

प्रसव पूर्व चार जांच जरूरी -

सिविल सर्जन डॉ कौशल किशोरे ने बताया कि सुरक्षित मातृत्व व जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए प्रसव पूर्व चार जांच जरूरी है। जांच गर्भवती महिला व उनके गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी है। इससे गर्भावस्था के दौरान होने वाली जोखिमों का आसानी से पता लगा कर इसे प्रबंधित किया जा सकता है। विभिन्न संक्रामक व जेनेटिक रोग से बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से भी ये जरूरी है। इससे हाई रिस्क प्रेग्नेंसी को चिह्नित कर सुरक्षित व संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना अभियान का मुख्य उद्देश्य है।

जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के लिये प्रसव पूर्व जांच जरूरी--

सिविल सर्जन डॉ किशोरे ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान मुख्य रूप से खून, रक्तचाप, एचआईवी संबंधी जांच जरूरी है। गर्भस्थ बच्चे की सही स्थिति, एनीमिया, एचआईवी सहित अन्य रोगों से बचाव ही नहीं, प्रसव संबंधी जटिल मामलों को चिह्नित करने के लिहाज से ये महत्वपूर्ण है। इसलिये सभी गर्भवती माताओं को गर्भधारण के तुरंत बाद, प्रथम तिमाही के दौरन प्रथम जांच की सलाह दी जाती है। इसके बाद गर्भावस्था के चौथे या छठे महीने में दूसरी, छठे या आठवें महीने में तीसरी व नौवें महीने में चौथी जांच करानी चाहिये ।

- शिशु-मृत्यु दर में कमी लाने की है बेहतर व्यवस्थाः-

सदर अस्पताल में कार्यरत महिला चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शबनम यास्मिन ने बताया कि प्रसव अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर तुरंत जाँच करानी

चाहिए। दरअसल, समय पर जाँच कराने से किसी भी प्रकार की परेशानी का शुरूआती दौर में ही पता चल जाता और पता लगने पर ही उसे आसानी से दूर किया जा सकता है। इससे प्रसव के दौरान गर्भवती महिलाओं को किसी प्रकार की अनावश्यक शारीरिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े । साथ ही सुरक्षित और सामान्य प्रसव को बढ़ावा देने के लिऐ गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व 04 जाँच कराना जरूरी है। महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच के लिए की गई यह व्यवस्था शिशु-मृत्यु दर में कमी लाने की बेहतर व्यवस्था है। सरकार की यह व्यवस्था मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने की दिशा में अच्छी पहल है। इससे ना सिर्फ सुरक्षित प्रसव होगा, बल्कि शिशु-मृत्यु दर पर विराम लगेगा। इसके साथ ही जच्चा-बच्चा दोनों को अनावश्यक परेशानियाँ का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन एवं कैल्सियम की गोली का उचित मात्रा में सेवन करना जरूरी है। तभी गर्भावस्था के दौरान महिलाओं व उनके गर्भस्थ बच्चे का उचित शारीरिक व मानसिक विकास होता है।

संस्थागत प्रसव को किया जा रहा प्रोत्साहित :

सदर अस्पताल उपाधीक्षक डॉ अनवर आलमे ने बताया कि पीएमएसएमए अभियान के तहत हाई रिस्क प्रेग्नेंसी के मामले चिह्नित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न स्तरों पर जरूरी प्रयास कर रहा है। इसमें जननी सुरक्षा योजना बेहद महत्वपूर्ण है। योजना के तहत सरकारी अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये व शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है। सुरक्षित प्रसव के लिये समय पर घर से अस्पताल व प्रसव के उपरांत घर पहुंचाने के लिये एंबुलेंस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

नगर परिषद बिक्रमगंज उपसभापति प्रतिनिधि सह वार्ड पार्षद ने दही-हांडी मटका फोड़ प्रतियोगिता का किया उद्घाटन

दैनिक समाज जागरण प्रहलाद तिवारी,बिक्रमगंज रोहतास

नगर परिषद बिक्रमगंज क्षेत्र अंतर्गत धारूपुर वार्ड संख्या 21 में अवस्थित श्री राधा-कृष्ण मंदिर ठाकुरबाड़ी के प्रांगण में शुक्रवार की देर रात करीब 8 बजे श्रीकृष्ण- जन्माष्टमी के पावन अवसर पर दही-हांडी मटका फोड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई।जिस-ाकी अध्यक्षता पूजा कमेटी के अध्यक्ष विशाल सिंह ने की। जिस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर परिषद बिक्रमगंज के उपसभापति प्रतिनिधि सह वार्ड संख्या 14 के वार्ड पार्षद प्रविंद्र कुमार सिंह उर्फ मिंटू सिंह ने फीता काटकर की। तत्पश्चात पूजा कमेटी अध्यक्ष सिंह के नेतृत्व ने स्थानीय गांव के राधा सिंह के द्वारा आए हुए आगत अतिथियों को अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। उसके उपरांत मुख्य अतिथि सिंह ने

कार्यक्रम में शामिल सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं व बधाई दी। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाि-हए। किसी भी खेल में जीत और हार होती है। जो एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि खेल में किसी की हार होती है तो किसी की जीत। लेकिन किसी भी खेल में अगर कोई जीत हासिल करता है तो कभी हार का भी सामना करता है। वहीं हारने वाले प्रतिभागी भी किसी खेल में जीत हासिल कर लेते हैं। इसलिए किसी भी खेल में द्वेष की भावना नहीं होना चाहिए। आपको बताते चलें कि मटका फोड़ प्रतियोगिता में कुल 7 टीमें शामिल हुई थी। कमेटी की ओर से सभी टीमों को 5-5 मिनट का समय दिया गया। जिसमें सभी टीम अपने निर्धारित समय में अपना-अपना भाग्य आजमाया। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हजारों- हजार की संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की भारी भरकम भीड़ देखी गई।

बाबा गणिनाथ जयंती समारोह सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

दैनिक समाज जागरण प्रहलाद तिवारी बिक्रमगंज रोहतास

स्थानीय बिक्रमगंज शहर के अंजबित सिंह महाविद्यालय के समीप बाबा गणिनाथ मंदिर के प्रांगण में वैश्य प-रवार के कुलदेवता श्री-श्री 1008 परम पूज्य बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज की जयंती समारोह पर स-ांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई। शनिवार की सुबह करीब 8:30 बजे बाबा गणिनाथ की वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्यों के द्वारा वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर्षोल्लास एवं आस्था के साथ विधिवत पूजन-अर्चन किया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में आए हुए हजारों-हजार की संख्या में श्रद्धालुओं को महाप्रसाद प्रदान किया गया। उसके बाद जयंती समा-रोह के पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ विजय गुप्ता सहित अन्य गणमान्य

लोगों ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़ एवं फीता काटकर किया। तत्पश्चात पूजा कमेटी के अध्यक्ष एवं सक्रिय सदस्यों के द्वारा कार्यक्रम के दौरान आए हुए आगत अतिथियों एवं स्थानीय पत्रकारों को फूल-माला एवं अंग-वस्त्र से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर विजय गुप्ता ने बाबा गणिनाथ के जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने बाबा गणिनाथ के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश पर सभी श्रद्धालुओं को चलने को कहा। कार्यक्रम की श-रूआत गणेश वंदना घर में पधारो गजानंद जी.. मेरे घर में पधारो से की गई । उसके उपरांत काशी का गौरव झांकी परिवार संस्था वाराणसी उत्तर प्रदेश एवं विजय बाल्मीकि इवेंट ग्रुप के कलाकारों के द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई।

गर्भवती महिलाओं के हेल्थ चेकअप का लगा कैंप

दैनिक समाज जागरण नसीम साह नोखा रोहतास

प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत आज रोहतास जिले के नोखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाओ के हेल्थ जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमे गर्भवती महिलाओ के गर्भावस्था के दौरान होनेवाली आवश्यक जांच जैसे हीमोग्लोबिन, शुगर, वजन, टीबी, हिव, यूरिन टेस्ट बिपी सहित कई जांच किया गया , ताकि जांच से जच्चा बच्चा दोनो सुरक्षित रहे, और उस दौरान होने

वाली बीमारी और परेशानियां के समय इलाज हो सके। वही प्रभारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने बताया की सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत इस कैंप में हमलोग को ज्यादा प्राथमिकता जटिल प्रसव को दिया जाता है। ताकि वैसे महिलाओ का सुरक्षित प्रसव कराया जा सके। वही इस कार्यक्रम के माध्यम से आज लगभग दो सौ महिलाओ का स्वस्थ जांच किया गया और उनको उचित सलाह और दवाओ के साथ साथ पोष्टिक अल्पाहार की जानकारी भी दी गयी। मौके पर प्रभारी अजय प्रताप सिंह, इद्रीश अंसारी, मुकेश कुमार, धन जी, इरफान एवं सभी कर्मी उपस्थित थे।

दो दिवसीय विभाग स्तरीय प्रश्नमंच सह विज्ञान व गणित प्रदर्शनी का हुआ उद्घाटन

दैनिक समाज जागरण लाल बिहारी गुप्ता,तिलौथू रोहतास

सरस्वती विद्या मंदिर तिलौथू के प-रसर में शनिवार को दो दिवसीय विभाग स्तरीय प्रश्नमंच सह विज्ञान गणित प्रदर्शनी का उद्घाटन वंदना सत्र में हुआ। यह प्रश्नमंच कार्यक्रम रोहतास विभाग के विभाग निरीक्षक उमाशंकर पोद्दार के नेतृत्व में हुआ। जहां विभिन्न शिशु मंदिर, विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य , आचार्य अपने विद्यालय के शिशु वर्ग, बाल वर्ग, किशोर वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ विभिन्न विषयों के प्रश्नमंच प्रतियोगिता जैसे वैदिक गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सस्कृविज्ञान , संस्कृत तथा संगणक में भाग लिया। इसके अलावा विभिन्न विषयों में पत्रवाचन में छात्र छात्राओं तथा

आचार्य की सहभागिता रही। इस कार्यक्रम के उद्घाटन में विभाग प्रमुख रोहतास देवेन्द्र नारायण सिंह, विद्यालय सचिव लालबिहारी गुप्ता, पूर्व प्रधानाचार्य जंगलेश प्रसाद चौरसिया, राधे श्याम तिवारी, विद्धवत परिषद सदस्य श्याम लाल पांडेय, श्याम बिहारी तिवारी, शशिभूषण प्रसाद, महेन्द्र ओझा, सत्येन्द्र सिंह, रविन्द्र सिंह , सुजीत कुमार के साथ समिति के अन्य सम्मानित सदस्य प्रधानाचार्य धनन्जय शर्मा, विद्यालय के सभी पुरूष व महिला आचार्य, शहर के प्रमुख आमंत्रित सज्जन वृंद एवं अभिभावक उपस्थित हुए। वहीं विद्यालय को बच्चों द्वारा दुल्हन की तरह सजाया गया। विद्यालय को दुल्हन की तरह सजाने में छात्र छात्राओं की भूमिका सराहनीय रही। विद्यालय में रविवार को विज्ञान और गणित में प्रदर्श की प्रदर्शनी लगायी जायेगी।

बाबा गणिनाथ गोविन्दजी जयंती समारोह का हुआ आयोजन, श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना,भक्तिमय रहा पूरा माहौल

दैनिक समाज जागरण संवाददाता के०के०दूबे, दिनारा रोहतास

रोहतास जिले में दिनारा प्रखंड के पौराणिक धार्मिक स्थल सिद्धपीठ मां यक्षिणी भवानी भलुनीधाम में शनिवार को मध्यदेशीय वैश्य समाज के कुल गुरु बाबा गणिनाथ गोविंद जी महा-राज की जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई।जयंती समारोह का ये कार्यक्रम बाबा गणिनाथ सेवा संस्थान द्वारा आयोजित किया गया। जहां आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व मंत्री जयकुमार सिंह,भोजपुर बक्सर क्षेत्र के एमएलसी राधा चरण सेठ,एमएलसी अशोक कुमार पांडेय,विधायक विजय कुमार मंडल द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। जयंती समारोह कार्यक्रम की अध्यक्षता उमेश कुमार गुप्ता जबकि मंच संचालन संतोष कुमार उप मुखिया पंचायत तेनुअज ने किया। विशिष्ट अतिथियों ने मौके पर मौजूद मध्यदेशीय वैश्य समाज के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा गणिनाथ के आदर्शों को जीवन में आत्मसात करें। उक्त वक्ताओं ने बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज के कृतित्व व व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि वैश्य समाज के उत्थान और समुचित विकास के लिए हमें बाबा गणिनाथ के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा।बाबा गणिनाथ जी के बताए मार्ग पर चलकर ही समाज का सर्वांगीण विकास और उत्थान सम्भव है। वहीं आयोजित समारोह में उपस्थित भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने कहा कि मध्यदेशीय समाज के कुलगुरु श्री-श्री 1008 संत शिरोमणि बाबा गणिनाथ जी महाराज भगवान शिव के अवतार थे। जिनका अवतार इस भूलोक में धर्म की रक्षा, मानवता का संदेश देने व मानवों के बीच बढ़ रही वैमनस्यता को दूर करने के लिए हुआ था।बाबा गणिनाथ वसुधैव

कुटुम्बकम के सिद्धांत के समर्थक थे। समाज में प्रेम, सद्भाव, सेवा, त्याग तथा परोपकार का संदेश देते थे। उक्त बातें दिल्ली से चलकर कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची किरण प्रभाकर ने कही। उन्होंने कहा कि मदिरा, मांस, व्यभिचार से बचने का संदेश देते थे।जयंती समारोह कार्यक्रम में पहुंचे सभी आगत-अतिथियों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित भी किया गया।

वहीं बाबा गणिनाथ सेवा संस्थान भलुनीधाम के द्वारा बाबा गणिनाथ गोविन्दजी का वैदिक मंत्रों द्वारा पूरे विधि विधान के साथ वैश्य समाज के लोगों द्वारा कुलगुरु की पूजा अर्चना की गई।पूजनोत्सव के बाद आरती की गई और गणिनाथ बाबा का जयघोष किया गया। तदोपरांत पूजा के बाद यहां प्रसाद के रूप में खीर का वितरण शुरू किया गया। जहां प्रखंड क्षेत्र के बाहर से व आसपास के इलाके से यहां जुटे सैकड़ों की संख्या में पुरुष व महिला श्रद्धालुओं ने भी बाबा गणिनाथ गो-विंद जी महाराज की विधिवत पूजा अर्चना की व समा-रोह में आये सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया। आयोजित समारोह में मौके पर चंद्रमा मुनिम, श्री भगवान साह, सिपाही साह, राजेश्वर साह, नेपाली साह, सत्यनारायण साह, वकील साह, गणेश साह, कामेश्वर गुप्ता, राजेंद्र साह, रामएकबाल साह, चंद्रमा प्रसाद, भारत साह, हरिद्वार साह,अजय महाजन सहित कई अन्य लोग उपस्थित थे।

वैश्य समाज द्वारा बाबा गणिनाथ की पूजा का आयोजन

दैनिक समाज जागरण साहिल राज, दावथ रोहतास

रोहतास जिले के दावथ प्रखंड अंतर्गत बभनौल अड्डा के समीप वैश्य समाज द्वारा बाबा गणीनाथ की पूजा का आयोजन किया गया। पूजा में दूर-दूर से श्रद्धालुओं का भींड देखने को मिला साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। मंच का उद्घाटन दिनारा विधान सभा के विधायक विजय कुमार मंडल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में विधान परिषद सदस्य अशोक कुमार पाण्डेय, बिहार अल्प संख्यक आयोग के सदस्य काबुल खाँ, बिहार बेश्य महासम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष सरोज कुमार गुप्ता

के साथ साथ दावथ प्रखंड के सभी प्रखंडस्तरीय एवं पंचायत स्तरीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।साथ ही इनका भव्य स्वागत कमीटी के अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता कोशा अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता व सभी सक्रिय सदस्य के द्वारा किया गया। मंच संचालन विवेक राज द्वारा किया गया।

धूमधाम से मनाई गई बाबा गणिनाथ की 31वा जयंती

दैनिक समाज जागरण। कमलेश कुमार मिश्र डेहरी आन सोन रोहतास

बाबा गणिनाथ जी चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में बड़े ही धूमधाम के साथ बाबा गणिनाथ जयंती 31 वां पूजन उत्सव मनाया गया। चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संदीप गुप्ता के साथ सैकड़ो लोगों ने बाबा गणिनाथ की विधवत पूजा याचना ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। उस-के बाद भव्य श्रृंगार हवन आरती किया गया इसके बाद सभी भक्तों में महाप्रसाद का वितरण हुआ ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बताया कि प्रतिवर्ष हमारे मद्धेशिया वैश्य हलवाई समाज के कुल देवता की पूजा की जाती है। जिसमें सैकड़ो लोग डेहरी

विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। मेला का भी आयोजन इस मौके पर होता है। इस बार प्रशासन द्वारा साउंड पर प्रतिबंध था, इसलिए हम लोगों ने शांतिपूर्ण सद्भाव माहौल में जयंती मनाई। इस मौके पर वैश्य समाज के युवा नेता राजू गुप्ता, अरविंद गुप्ता, गोपाल प्रसाद, उदय कुमार,भोला प्रसाद, प्रदीप कुमार, अनूप कुमार व कुंदन कुमार आदि लोग कार्यक्रम में शामिल हुए।

बिहार राज्य पाल महासंघ की आयोजित की गई बैठक, विभिन्न मुद्दों पर की गई परिचर्चा

दैनिक समाज जागरण अजय कुमार सोनी करगहर रोहतास

रोहतास जिले के करगहर प्रखंड अंतर्गत बिहार राज्य पाल महासंघ ईकाइ के तत्वधान में शनिवार को नन्दी लॉज सहुआर (करगहर)मे स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता राम ध्यान पाल व संचालन महेश पाल ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगो ने एक दूसरे के साथ परिचय कराया गया। मुख्य अतिथि अध्यक्ष बिहार राज्य पाल महासंघ चंद्र मोहन पाल व विशिष्ट अतिथि उपाध्यक्ष पाल महासंघ बिहार राज्य पाल महासंघ सूरजदेव पाल मौजूद रहे। पाल महासंघ के अध्यक्ष चंद्र मोहन पाल के द्वारा पाल समाज के एकजुटता एवं शिक्षा पर जोर दिया

गया । उन्होंने कहा कि एकजुटता से समाज में एक नई पहल का कार्य हो सकता है। जिसमें शिक्षा से बेहतर कुछ नही हो सकता ,जिसमें हम सब की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान सभी आगंतुक अतिथियों व आये हुए सभी सम्मानित लोगों का स्वागत अंग वस्त्र व पुष्पहार से किया गया । मौके पर शशी पाल, राम गहन पाल, सत्यनारायण पाल ,रामायण पाल, राजेंद्र पाल, उमा पाल, पलटु पाल, धीरेन्द्र पाल, परमहंस पाल, दिनेश पाल, कलेन्द्र पाल,जसवंत पाल (वार्ड प्रतिनिधि) सुर्य देव पाल, चन्द्र मोहन पाल ,केशव पाल , राजकिशोर पाल, सोनु पाल, श्रीराम पाल जगनरायण पाल , गुड्डू पाल, राजु पाल, विनोद पाल सहित कई अन्य पाल समाज के लोग मौजुद रहे।

पुलिस ने चलाया बाइक चेकिंग अभियान, 18 बाईक को काटा चालान

दैनिक समाज जागरण नसीम साह नोखा रोहतास

रोहतास जिला अंर्तगत नोखा थाना क्षेत्र के नहर डग पर स्थित बजाज एजेंसी के पास शनिवार को दोपहर में पुलिस ने मुख्य सड़क पर उतरकर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाइक चोरी, दुर्घटना व सडक सुरक्षा को लेकर भी पुलिस काफी सक्रिय दिखाई दी। जहां पर नोखा थाना के एसआई निशांत कुमार, बसंत कुमार, आशू माला, राम वृक्ष

अन्य उपस्थित रहे। वाहन जांच के उपरांत कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। कई लोग वाहन लेकर भागते फिरते नजर आए। मौके पर पुलिस ने वाहन चालक को समझाया कि पुलिस आपकी स-रक्षा में सदैव तत्पर है। इसलिए लिए घर से जब भी निकले अपनी वाहन के साथ हेलमेट पहनकर सड़क पर निकले। साथ ही बाइक की डॉकमेंट व ड्राइवरी लाइसेंस लेकर चले। वही पुलिस ने बिना हेलमेट तथा गाड़ी की डॉकमेंट नहीं रहने कारण 18 वाहन मालिकों को चालान काटा गया।

फागिंग मशीन से दवा छिड़काव कराने की नगर परिषद से की मांग

दैनिक समाज जागरण कमलेश कुमार मिश्र, डेहरी आन सोन रोहतास

रोहतास जिला अंर्तगत डेहरी डालमियानगर क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में हालत चिंताजनक हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष संजय गुप्ता ने दूरभाष पर सिटी मैनेजर एवं चेयरमैन प्रतिनिधि गुड्डू चंद्रवंशी से बात कर सभी वार्डों में फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव करवाने की मांग। तथा शहर की नालियों मे जहां जल जमाव है उसकी यथा शीघ्र सफाई एवं सभी नालियों में डेंगू कीटनाशक दवा का छिड़काव प्रतिदिन सुनिश्चित कराया जाए एवं जहां से डेंगू के मरीज निकल रहे हैं उस वार्ड में विशेष ध्यान देकर फागिंग मशीन द्वारा दवा का छिड़काव कराया जाए।

आहार में डूबने से छात्र की हुई मौत, परिजनों में मातम

दैनिक समाज जागरण मनोज कुमार व्यूरो रोहतास

रोहतास जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शनिवार को मलांव गांव निवासी सुनील यादव के बारह वर्षीय पुत्र अमित कुमार कुमार के आहर में डुबने से मौत हो गई। अमित कुमार वर्ग छः के छात्र था जिसकी मौत गांव के आहार में डूबने से मौत हो गई।इस आशय की जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष मोहन कुमार ने बताया कि मामले में यूडी के तहत प्राथमिकी

दर्ज की गई है। पुलिस को मिले आवेदन में मृतक के पिता ने बताया है कि उनका पुत्र शौच करने हेतु गया था। जहां आहार में पानी छूने के दौरान पैर फिसल जाने से गहरे खाई में चला गया। जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दी है। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है।

मच्छर के बढ़ते प्रकोप को लेकर नगर पंचायत ने वार्डों में कराई फॉगिंग

दैनिक समाज जागरण अमन गुप्ता रोहतास

रोहतास प्रखंड के रोहतास नगर पंचायत मे मच्छर के बढ़ते प्रकोप को लेकर नगरपंचायत के द्वारा फागिग कराई। इन दिनों रोहतास नगर पंचायत में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। कई मुहल्लों के लोगो में बुखार व अन्य बीमारियों के मरीज भी बढ़ रहे हैं। मौसमी बुखार,वायरल, ईफैक्शन, खांसी, सर्दी बुखार के मरीजों में तेजी आई है।चिकित्सकों द्वारा इसका कारण बदलते मौसम और मच्छरों का प्रकोप बताया जा रहा है। इसी

को देखते हुए नगर पंचायत ने सभी 13 वार्ड में मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक वाली दवाई का छिड़काव कराया है। रोहतास नगर पंचायत मुख्य पार्षद सिम्बुल आरा ने कहा की आज से सभी वार्ड मे फॉगिंग की जा रही है,सभी भीड़ भाड़ वाले इलाको मे विशेष रूप से कराई जावेगी, जहां पर मच्छरों के पैदा होने की संभावना नजर आ रही है। फॉगिंग कार्य का निरीक्षण नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधी तोराब नेयाजी के द्वारा किया गया।

अनियंत्रित होने से बाईक सवार हुआ घायल।

दैनिक समाज जागरण लालबिहारी गुप्ता,तिलौथू रोहतास

तिलौथू-सासाराम पथ पर सोनौरा गाँव के समीप अनियंत्रित होने से एक बाइक सवार व्यक्ति गभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने मोबाइल के माध्यम से एंबुलेंस को बुलाकर आन-फानन में घायल व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तिलौथू में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार कर सासा-राम सदर अस्पताल में भेज दिया। इस संबंध में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुमित कुमार ने बताया कि चेनारी थाना क्षेत्र के हाटा गांव

निवासी गुप्त पाल के 32 वर्षीय पुत्र सनी कुमार को प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए सासाराम हेतू सदर अस्पताल भेज दिया गया।

जनता दरबार में दो मामले निष्पादन

दैनिक समाज जागरण नोखा रोहतास

रोहतास जिला अंर्तगत नोखा थाना परिसर में अंचलाधिकारी सुमन कुमार व थाना अध्यक्ष उमेश कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जहां पर जनता दरबार में जमीन विवाद का निपटारा किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से सीओ ने आवेदन मांगा। जहां पर तीन लोगों ने आवेदन दिया। इसमें दो मामले का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। शेष एक मामले को अगली तिथि को बुलाया गया है। मौके पर कई फरियादी पहुंचे हुए थे।

पालिगंज ब्यवहार न्यायालय परिसर में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

समाज जागरण संवाददाता:- वेद प्रकाश पालीगंज अनुमण्डल

पालीगंज/ शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। जानकारी के अनुसार शनिवार को पालीगंज स्थित व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यायिक सदस्य रौशन कुमार छपोलिया, गैर न्यायिक सदस्य हृषिकेश, क्लर्क निशांत कुमार, चंदन कांत चंद्रा, आदेशपाल मनोज कुमार सिंह, कोर्ट कर्मी दीपक कुमार के उपस्थिति में पंजाब नैशनल बैंक महाबलिपुर के 27 ऋण वाद का समझौता 230300 रुपये में किया गया जिसमे 191500 रुपया प्राप्त हुआ। पंजाब नैशनल बैंक भरतपुरा का 7 वादों का समझौता 72000 रुपये में हुआ जिसमें 20500 रुपया प्राप्त हुआ। पालीगंज का 14 वादों का समझौता 152300 रुपये में हुआ जिसमें 95341रुपया प्राप्त हुआ। कनपा का 10 वादों का समझौता 112500 रुपये में हुआ जिसमें 82500 रुपया प्राप्त हुआ, इमामगंज का 35 वादों का समझौता 188300 रुपया में हुआ जिसमें 152000 रुपया प्राप्त हुआ। कोरैया का 27 वादों का समझौता 409584 रुपया हुआ जिसमें 219082 रुपया प्राप्त हुआ। लालगंज का 8 वादो का समझौता

149783 रुपये में हुआ जिसमें 68983 रुपया प्राप्त हुआ। दतियाना का 17 वादों का समझौता 250448 रुपये में हुआ जिसमें 178868 रुपया प्राप्त हुआ, पटुत का 39 वादों का समझौता 554949 रुपये में हुआ जिसमें 217281रुपया प्राप्त हुआ। बिक्रम का 9 विवादों का समझौता 211500 रुपया में हुआ जिसमें 85000 रुपया प्राप्त हुआ। पालीगंज का 20 वादों का समझौता 216288 रुपया में हुआ जिसमें 196858 रुपया प्राप्त हुआ। बी एस एन एल का 8 वादों का समझौता 96708 रुपया में हुआ जिसमें 49295 रुपया प्राप्त हुआ, दक्षिण बिहार मध्य ग्रामीण बैंक पालीगंज, दुलहीन बाजार, सिकरिया का 64 वादों का समझौता 1803825 रुपया में हुआ जिसमें 367805 रुपया प्राप्त हुआ। एसबीआई पालीगंज, अख्तियारपुर व लई का कुल 27 वादों का समझौता 1600132 रुपये में हुआ जिसमें 1153645 रुपया प्राप्त हुआ। वही एक क्रिमिनल वाद का निबटारा 4000 का कंपौंडिग शुल्क में समझौता कर वाद समाप्त किया गया इस मामले में राष्ट्रीय लोक अदालत में मौजूद गैर न्यायायिक सदस्य हृषिकेश पाठक ने बताया कि आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 312 वादों का समझौता 6078617 रूपए में किया गया जिसमें 3078865 रूपए प्राप्त हुआ है।

पालीगंज में अज्ञात ब्यक्ति का शव हुआ बरामद

समाज जागरण संवाददाता:- वेद प्रकाश पालीगंज अनुमण्डल

पालीगंज/ शनिवार को थाना क्षेत्र के रामपुर नगमा गांव के पास आहर किनारे से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार पालीगंज अनुमंडल में बीते दिनों पूर्व पेड़ से लटका हुआ एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। अभी तक इस मामले का पुलिस ने खुलासा भी नहीं किया कि दूसरी घटना सामने आई है। दरअसल, पालीगंज थाना क्षेत्र के नगवां गांव के बधार में शनिवार को अज्ञात युवक का शव मिला। जिसके बाद भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। जिसे कुछ लोगों ने दो-तीन दिन पूर्व इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पालीगंज में भर्ती करवाया था। लेकिन, वहां से डाक्टरों की नजरों से बचकर भाग निकला व गांव के पास आहर किनारे जाकर छीप गया था। शनिवार को खेत में काम करने आए लोगों ने मृत अवस्था में युवक को देखा। जिसके बाद घटना की जानकारी लोगों को दी गई। वही मौत कैसे हुई है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि होगी। इस सम्बंध में पालीगंज थाने के एसआई राजेश कुमार ने कहा कि मृत युवक की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स भेज दिया गया है। पहचान के लिए शव को शवगृह में रखा जाएगा।

साँप काटने से युवक की मौत

दैनिक समाज जागरण संवाददाता के०के०दूबे, दिनारा रोहतास

रोहतास जिला अन्तर्गत दिनारा प्रखंड क्षेत्र के बसडीहां गांव के यादव टोला पर शुक्रवार के रात साँप काटने से एक युवक की मौत हो गई। सुत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बसडीहां यादव टोला निवासी राजेश यादव के 14 वर्षीय पुत्र मुकेश कुमार शाम घर पर पढ़ाई करने के बाद खाना खाकर अपने बाबा लाल मोहर यादव के साथ बिस्तर पर सो गया। रात में उसे कुछ काटने का आभास होते ही बाबा से बताया। युवक के बाबा जब बिस्तर को हटाकर देखने लगे तब उसमें से विषैला सांप निकलकर भागने लगा जहां उन्होंने सांप को मार वहीं दिया। कुछ देर बाद युवक की तबीयत बिगड़ने लगी।परिजनों ने बगल के गांव अरंग में ले जाकर झाड़ फूंक करवाई,लेकिन स्थिति में सुधार नहीं होने पर उपचार हेतु सदर अस्पताल सासाराम ले गये जहां अस्पताल पहुंचने पर डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद मृत युवक के परिजनों का रो-रोकर बूरा हाल है।

दो नाली देशी कट्टा के साथ एक गिरफ्तार

दैनिक समाज जागरण संवाददाता के०के०दूबे, दिनारा रोहतास

रोहतास जिला अन्तर्गत दिनारा प्रखंड क्षेत्र के भानस पुलिस ओपी गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार के रात्रि में एक देशी दो नाली कट्टा के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सम्बन्धित मामले में जानकारी देते हुए ओपीध्यक्ष गुड़िया कुमारी ने बताया कि ओपी थाना क्षेत्र के विश्रामपुर निवासी उमाशंकर सिंह के पुत्र लल्टू कुमार को दो नाली देशी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया गया।आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस मामले की छानबीन कर रही है

जनता दरबार में दो मामले निष्पादन

दैनिक समाज जागरण नोखा रोहतास

रोहतास जिला अंर्तगत नोखा थाना परिसर में अंचलाधिकारी सुमन कुमार व थाना अध्यक्ष उमेश कुमार की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। जहां पर जनता दरबार में जमीन विवाद का निपटारा किया गया। मौके पर उपस्थित लोगों से सीओ ने आवेदन मांगा। जहां पर तीन लोगों ने आवेदन दिया। इसमें दो मामले का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। शेष एक मामले को अगली तिथि को बुलाया गया है। मौके पर कई फरियादी पहुंचे हुए थे।

भूमि संबंधित मामले के निपटारे को लेकर सदर थाना में लगाया गया जनता दरबार दो मामलों का हुआ निष्पादन

समाज जागरण सुमित कुमार

बांका (बिहार)भूमि संबंधित मामले के निपटारे को लेकर शनिवार को सदर थाना में लगा जनता दरबार का आयोजन किया गया जनता दरबार में सी ओ अमित कुमार रंजन फरियादियों के मामले की जांच की और इस दौरान चार पुराने मामलों में दो मामलों का निष्पादन दोनों

पक्षों के समक्ष किया गया को C.O ने बताया कि जनता दरबार में दो मामलों का निष्पादन किया गया जबकि एक भी नया मामला दर्ज नहीं किया गया !

जमीनी विवाद को लेकर बच्चों के प्राइवेट पार्ट पर तीन लोगों ने ब्लेड से किया हमला

समाज जागरण जिला संवादाता विवेक कुमार

भागलपुर (बिहार)जिले में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ते जा रहा है ताजा मामला भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के खरमनचक स्थित आबकारी गोदाम के निकट का है जहां आरोपियों के द्वारा 30 अगस्त की संध्या लाजपत पार्क में खेलने जाने के दौरान 12 वर्षीय करण कुमार का लिंग काट दिया गया जिसकी जानकारी पर पीड़ित कारण के पिता रमेश दास खरमनचक निवासी सुमित कुमार पिता टुनटुन मंडल,गौतम कुमार विकास कुमार मंडल पिता मुन्ना मंडल के पास जब बोलने गए उन लोगों के द्वारा पीड़ित बच्चे के पिता के साथ भी गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार भी किया गया और पॉकेट से ₹5000 भी जबरदस्ती निकाल कर यह कहा गया शिकायत लेकर जहां जाना है जाओ हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हालांकि मामले को लेकर पीड़ित करण कुमार के पिता रमेश दास जोगसर थाने में भी आवेदन दिया और एस एस कार्यालय में भी आरोपी के खिलाफ शिकायत की पर कहीं से कोई न्याय की आप नहीं दिखाई दे रही तब तक हर कर आज पीड़ित के पिता ने पत्रकारों से न्याय की गुहार लगाई

भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को लेकर नगर निगम ने कसी कमर

समाज जागरण जिला ब्यूरो चीफ प्रभात कुमार मिश्रा

भागलपुर(बिहार) डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहासा वृद्धि हो रही है ,21 दिनों के अंदर डेंगू पीड़ितों की संख्या 137 के पार हो गई है जहां तीन की मौत भी हो गई इसको लेकर नगर निगम काफी सकते में आ गई है और चार रोस्टर बनाकर सफाई कर्मियों को फागिंग मशीन और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रही है ताकि डेंगू से बचाव किया जा सके वही मे और डॉक्टर

वसुंधरा लाल खुद इसकी मॉनेटरीग कर रही है वहीं मेयर ने शहर वासियों से अपील की है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें इसमें नगर निगम भी सहयोग करेगी साथसाथ ही उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को बाहर फुल कपड़े पहन कर ही भेजें आसपास पानी को जमने ना दें और जब भी सोए तो मच्छरदानी लगाकर सोए तभी डेंगू से बचाव किया जा सकता है।

यूनाइटेड द्वारा आयोजित की गई कपूर्री ठाकुर संवाद कार्यक्रम को लेकर भागलपुर पहुंचे समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन साहनी

समाज जागरण जिला ब्यूरो चीफ प्रभात कुमार मिश्रा

भागलपुर (बिहार (जनता दल यूनाइटेड के समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी आज भागलपुर पहुंचे उनका जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों ने फूल माला देकर एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया उन्होंने आज भागलपुर सुल्तानगंज में होने वाले कपूर्री ठाकुर संवाद कार्यक्रम को लेकर एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाति आधारित

जनगणना पर रोक लगाने की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे, उन्होंने कहा आज के कपूर्री ठाकुर संवाद कार्यक्रम मैं कई विषयों पर जनता के बीच सीधे वार्ता होगी किस समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में अनेकों काम किए गए हैं लेकिन केंद्र सरकार कई योजनाओं पर पाबंदी लगा रही है उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा साथ ही मुख्यमंत्री से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो योजना चलाई गई है चाहे वह पंचायत स्तर की बात हो या नगर निकाय स्तर की बात हो उस पर जो केंद्र सरकार कटौती कर रही है उसे पर विस्तार से वार्ता की जाएगी और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना परिवहन योजना बालक बालिका साइकिल योजना जैसे कई अन्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी वहीं उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना में रोधका का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सनी भागलपुर सांसद अजय मंडल सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल लक्ष्मीकांत मंडल भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी भागलपुर जदयू शाखा के प्रवक्ता शह मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती के अलावे जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे।

शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर भाजपा का हमला

समाज जागरण बिहार सरकार में आरजेडी कोटे से शिक्षा मंत्री बने चंद्रशेखर ने जन्माष्टमी के मंच से इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद साहब को मयार्दा पुरुषोत्तम बताया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार ने कहा की वोट बैंक का उद्योग' बताते हुए महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा है
शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आपत्ति जताई है और कहा है कि बिहार का कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं है।जिसके मन में जो आता है वह बयान देता है। श्री राम भगवान सामाजिक मयार्दा के जितने भी मापदंड हैं उसे उन्होंने स्थापित करने का काम किया। एक बेटे के रूप में, एक पति के और एक राजा के रूप में उन्होंने राम राज की परिकल्पना को जमीन पर उतारा। जिला प्रवक्ता पंकज सिंह ने कहा की उनका बयान समाज को बांटने वाला है और यह राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टी की संस्कृति रही है कि कैसे समाज को धर्म की राजनीति कर बांटा जाए. यह पूरी तरह से वोटबैंक के लिए तुष्टीकरण की राजनीति है. जिला मीडिया प्रभारी प्राणिक बाजपेई ने कहा की शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा इस प्रकार की बयान दिया जाना बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर उसके सरकार की कार्यों पर प्रश्न चिन्ह के साथ ही सरकार को कलंकित करने वाला कृत्य है।

विश्वविद्यालय में एबीवीपी के प्रदर्शन के सामने झुका विश्वविद्यालय, कहा -UG एवं PG सभी वर्गों की छात्राओं एवं एससी एसटी छात्र का होगा शुल्क वापस

समाज जागरण
कार्यालय प्रभारी आनंद कुमार

भागलपुर (बिहार) विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में घोषित एससी एसटी छात्र एवं सभी वर्गों की छात्राओं का निःशुल्क नामांकन होना सभी वर्तमान सत्र में तय हुआ था लेकिन विश्वविद्यालय की छात्र विरोधी नीतियों के तहत वैसे छात्र एवं छात्राओं से शुल्क लेने के विरोध में आज महादेव सिंह एवं टीएनबी महाविद्यालय सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय एवं pg विभाग में एससी एसटी छात्र एवं सभी वर्गों की छात्रा का बीते दिनों जो नामांकन हुआ उसमें लिया गया जो की 2016 से ही तय है कि वैसे छात्रों का शुल्क नहीं लेना है फिर भी विश्वविद्यालय ने एससी एसटी छात्र एवं सभी वर्गों की छात्रा का शुल्क लिया इसके विरोध आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभाग सह सयोजक कुणाल पाण्डेय एवं जिला सयोजिक रोहित राज ने कॉलेज में विरोध करते-करते विश्वविद्यालय पहुंचे तभी वहां विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति एवं वर्तमान में प्रति कुलपति से मिलकर अपनी मांगों को रखा और ug एवं पीजी में सभी सत्र एससी एसटी छात्र

एवं सभी वर्गों की छात्रा से लिए गए शुल्क वापसी को लेकर मिला और अभिलंब शुल्क वापसी की मांग की उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि जिन छात्रों का शुल्क वापस होना है उसे वापस किया जाएगा। वही कुणाल और रोहित ने बताया कि जब 2016 से एससी एसटी छात्र एवं सभी वर्गों की छात्राओं का निशुल्क नामांकन होना तय हुआ था तो विश्वविद्यालय क्यों इसमें नाकाम रही जब बिहार सरकार से 3 करोड रुपैया विश्वविद्यालय को पूर्व के सत्र का पैसा लौटाने का शुल्क मिल चुका है तो जिन छात्रों का वापस होना था शुल्क उनको वापस क्यों नहीं लौटाया गया विश्वविद्यालय अभिलंब 2016 से 2022 तक के वैसे छात्र जिनका शुल्क वापस होना है वैसे तमाम छात्रों का शुल्क लौटाए अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। वहीं प्रदर्शन में टीएनबी महाविद्यालय अध्यक्ष गौतम साहू, आनंद राज, सत्येंद्र, लक्ष्मण,आनंद, सोहम शुभम,आदि मौजूद थे।

शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर दो सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बांका में किया हल्ला बोल , फूका पुतला !!

समाज जागरण जिला संवादाता
लक्ष्मण पासवान

बांका (बिहार) शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राज्यव्यापी आह्वान पर दो सूत्री मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बांका में टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और उप मुख्य
मंत्री का पुतला फूका ! पुतला दहन में शामिल सभी शिक्षक मुख्यमंत्री मुदार्बाद उपमुख्यमंत्री मुदार्बाद, राज्य कर्मी का दर्जा देना होगा , आदि नारे लगा रहे थे
नियोजित शिक्षक बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा देने , एवं शिक्षकों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई और अविलंब वापस लेने की मांग कर रहे थे , पुतला दहन कार्यक्रम से पूर्व सभी शिक्षकों ने बांका प्रखंड कार्यालय के सामने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए टीईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष दिव्य प्रकाश आर्य और जिला महासचिव अभिषेक कुमार पांडे ने कहा कि सरकार और उनके अधिकारी शिक्षकों का विश्वास जीत करें उनसे सत प्रतिशत कार्य ले सकते

हैं ! उनके न्यायोचित मांगों को पूरा करने की बजाय
भाई का माहौल बनाने से कभी भी गुणवत्ता शिक्षा के संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता है ! जहां एक और विद्यालय में संसाधनों का घोर अभाव है 50% से ज्यादा बच्चे होने पर ना तो बैठने की जगह उपलब्ध है और ना ही शिक्षक , लेकिन इसे पूरा करने की जगह विभागीय अधिकारी शिक्षकों को डरा धमका कर काम करना चाहती है जो कहीं से भी उचित नहीं है ! शिक्षा के अधिकार लागू होने के 13 वर्ष बाद भी आज तक छात्र शिक्षक अनुपात करीब दुगुना है वहीं दूसरी तरफ विभागीय अधिकारी वह कमी भ्रष्टाचार का डंक मारते हैं इन सब के मध्य नजर शिक्षा का अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर काफी चिंतित है ! कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे दिव्य प्रकाश आर्य और अभिषेक कुमार पांडे ने कहा कि शिक्षकों का वर्षों से बकाया एरियर भुगतान शिक्षक शिक्षिकाओं एवं दिव्यांगों का स्थानांतरण जैसी समस्याओं को किनारे कर केवल भैया दोहन के प्रयासों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है ? सरकार को अविलंब सभी शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने की घोषणा करनी होगी होगी !
वरीय जिला उपाध्यक्ष सह राज्य कार्यकारिणी सदस्य भारत भूषण ने कहा कि शिक्षकों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई को विभाग यथाशीघ्र वापस लेते हुए शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए ! सरकार का या दमनकारी और तानाशाही रवैया यदि इसी तरह जारी रहा तो शिक्षक बड़े आंदोलन के लिए दिवस होंगे और जो और अव्यवथा की स्थिति बनेगी शैक्षणिक कार्य बाधित होगा उसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार की होगी ! आज के कार्यक्रम में संगठन के नेता प्रताप भानु भास्कर आलोक कुमार वत्स अभिषेक रंजन राजेश कुमार सिंह अमरजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित थे !

कोरोना से बड़ा संकट बनता जा रहा है डेंगू बीमारी, बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की उदासीनता पर उठाए सवाल -सैयद शाहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी

समाज जागरण जिला ब्यूरो चीफ
प्रभात कुमार मिश्रा

भागलपु(र बिहार) डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार सरकार के नगर विकास विभाग की उदासीनता पर जमकर करारा प्रहार किया, उन्होंने कहा भागलपुर डेंगू बीमारी को लेकर हॉटस्पॉट बन गया है वही हर दिन दर्जनों केस सामने आ रहे हैं फिर भी जिला प्रशासन इस पर सख्त कदम नहीं उठा पा रही है जिसके चलते

लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, डेंगू बीमारी से कई लोगों की शहर में जान भी चली गई है, वहीं उन्होंने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल की जर्जर व्यवस्था पर कहा कि जितने भी मरीज जा रहे हैं उसमें लगभग लोगों को जमीन पर बिना चादर के सुला दिया जा रहा है और अस्त-व्यस्त स्थिति में उसका इलाज किया जा रहा है यह कहीं से सही नहीं है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भागलपुर के लिए यह संकट का विषय है, कोरोना महामारी से भी बड़ा संकट डेंगू भागलपुर में पांव पसार रहा है इससे निपटने के लिए बिहार सरकार के नगर विकास विभाग को और जिला प्रशासन को सख्त कदम उठाने की जरूरत है।
एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारी मुकम्मल रखने की बात कर रही है वही सैयद शाहनवाज हुसैन मायागंज अस्पताल पहुंचकर डेंगू के मरीज से मिलने पहुंचे और डेंगू के मरीजों से अस्पताल की सुविधा के बारे में जानकारी ली शहनवाज हुसैन ने कहा जल्द स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त हो वरना होगी पदाधिकारी पर कार्रवाई।

चांदन प्रखंड में सामूहिक रूप से एक सौ चार बीएलओ ने सहायक निर्वाचन सह प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन को दिया इस्तीफा !

समाज जागरण जिला संवाददाता लक्ष्मण पासवान

बांका (बिहार) जिले के चांदन प्रखंड अंतर्गत कार्यरत शिक्षक एवं एक सौ चार बीएलओ ने सामूहिक रूप से निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी चांदन को लिखित रूप से बीएलओ पद से इस्तीफा देने का मामला प्रकाश में आया है
उपरोक्त संबंध में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश सचिव हीरालाल प्रकाश यादव ने बताया कि बताया कि निदेशक सह अपर सचिव शिक्षा विभाग के पत्रांक 1175 दिनांक 4 जुलाई 2008 एवं पत्रांक 1165 दिनांक 31 जुलाई 2023 द्वारा जारी पत्र में निदेशक किया गया है कि शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में ना लगाया जाए ,, फिर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के ज्ञापांक 21 12 दिनांक 29 अगस्त 2023 के द्वारा जारी किए गए पत्र में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत पठन-पाठन में

कठिनाई होने के कारण शिक्षकों का छुट्टी की कटौती भी की गई है ! ऐसी स्थिति को देखते हुए सभी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से जो बीएलओ बनाकर कार्य कर रहे थे लिखित रूप से सभी बीएलओ ने इस्तीफा दे दिया है ! चुनाव कार्य आपदा कार्य , और जनगणना कार्य को छोड़कर गैर शैक्षणिक कार्य में लगाए जाने पर शिक्षक बीएलओ को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ! दूर दराज से विद्यालय आवागमन करना , वीसी से जुडना, विद्यालय में रहकर कार्य करने पर भी कार्यालय द्वारा फोन कर बुलाना और बीएलओ का कार्य करवाना बहुत सारे स्कूल में एक ही शिक्षक विद्यालय का संचालन करते हैं , विभाग द्वारा भी तरह-तरह का रिपोर्ट मांगा जा रहा है ! ऐसी स्थिति में बहुत सारे शिक्षक अपने बूढ़े माता-पिता की सेवा नहीं कर पाते हैं , विद्यालय के कार्य में भी बाधा होती है उपरोक्त सभी कार्यों से परेशान होकर सभी शिक्षकों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है !

*कहलगांव के राष्ट्रीय लोक अदालत में हूआ 478 मामलों का निष्पादन

समाज जागरण अनुमंडल
संवादाता कन्हैया खंडेलवाल

कहलगांव (बिहार)आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यवहार न्यायालय कहलगांव के न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा एवं मुंशीफ शिल्पा प्रशांत मिश्रा महोदय तथा संबंधित न्यायालयीक कर्मचारियों के सहयोग से और अनुमंडल क्षेत्र में स्थित विभिन्न बैंकों के लचीले और सहयोगात्मक व्यवहार से बहुत ही बेहतर और सराहनीय कार्य करते हुए सैकड़ो मामलों का त्वरित निष्पादन करते हुए करोड रुपए की वसूली की गई, साथ ही बेहतर काम करने वाले पांच शाखा प्रबंधक को सम्मानित भी किया गया, यह सम्मान अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा ओर मुंसिफ श्रीमती शिल्पा प्रशांत मिश्रा के द्वारा दिया गया ।
विदित हो की ईस वर्ष का तीसरा लोक अदालत का आयोजन कल नौ सितंबर को हुआ और लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी और कुल 8624 नोटीस निर्गत किया गया था। इस अवसर पर प्राधिकार के अध्यक्ष अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा ने बताया कि इस बार के लोक अदालत में बैंकर्स और उनके ऋणकर्ता के सहयोग से हुए मामले

के निष्पादन से संतुष्ट हैं एवं पूर्व की भांति इस बार भी अच्छा काम करने वाले शाखा प्रबंधक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मनित किया गया है। जिसमे यूको बैंक फौजदारी के अमित कुमार मिश्र, स्टेट बैंक आफ इंडिया, कहलगांव के धनंजय कुमार, स्टेट बैंक शिवनारायणपुर के परमानंद यादव, यूको बैंक सनोखर के सदानंद मंडल, यूको बैंक बुद्धुचक के ऋतुराज कुमार सिंह और यूको बैंक पीरपैंती के मणिकांत शामिल हैं। इन लोगों ने मात्र सांकेतिक राशी में अत्यन्त गरीब ऋणधारको को ऋण मुक्त कर अच्छा काम किया है। लोक अदालत में प्रथम बेंच में अवर न्यायाधीश श्री अमित कुमार शर्मा के साथ अधिवक्ता भावेश सिंह और बेंच क्लर्क अखिलेश कुमार थे जिसमें स्टेट बैंक के कुल 84 यूनियन बैंक के कुल 63 ग्रामीण बैंक के कुल 128, आरोहन के कुल 8, बीएसएनएल के कुल 6 मामलो का निस्पादन किया गया। दुसरे बैंच में मुंसिफ श्रीमती शिल्पा प्रशांत मिश्रा के साथ अधिवक्ता जय शंकर सिंह, बैंच क्लर्क प्रवीण रजक थे जिसमे यूको बैंक के 171, इंडियन बैंक के 2, पीएनबी के 3, बैंक ऑफ बड़ौदा के 9, आदी से जुड़े मामलों का निष्पादन किया गया। वही बेहतर काम करने वाले पांच शाखा प्रबंधक किए गए सम्मानित थे जिसमे यूको बैंक के ही चार शाखा प्रबंधक को सम्मानित किया गया, कहलगांव अनुमंडल में यूको बैंक का अभूतपूर्व सराहनीय प्रयास रहा इसलिए यूको बैंक के बेहतर कार्य करने पर यूको बैंक के अंचल उप प्रबंधक श्री मनोज गोस्वामी लोन अधिकारी संजय सिंह एवं कहलगांव के ब्रांच मैनेजर आशीष अग्रवाल ने पूरे यूको बैंक टीम को दी बधाई दी है, इस अवसर पर मुंसिफ श्रीमती शिल्पा प्रशांत मिश्रा ने बताया की इस बार लोक अदालत में हुए निस्पादन से वे संतुष्ट हैं और अब आगे दिसंबर माह में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों में जुट जाना है। इस अवसर पर प्राधिकार के मनीष पांडेय के अलावा सिरिस्तेदार सन्तोष पांडेय, वरीय सहायक चंदननाथ चौधरी, नाजिर अरबिंद कुमार के अलावा PLV ऋषिकेश तिवारी, अविकाष कुमार, सुभाष कुमार, उत्तम कुमार के अलावा विभाष कुमार भी मौजूद थे।

पुलिस की दोहरी नीति से मदरौनी मुखिया की पत्नी एवं बेटी परेशान, पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की लगा रही है गुहार

समाज जागरण कार्यालय संवादाता दिलीप कुमार साह

भागलपुर (बिहार)लोकपाल कार्यालय मे हुए मारपीट मामले मे पुलिस की दोहरी नीति देखने को मिल रही है... दरअसल 2 सितंबर को भागलपुर लोकपाल कार्यालय मे नवगछिया के रंगरा प्रखंड के मदरौनी मुखिया अजित कुमार सिंह एवं दूसरा पक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह एवं ब्रजेश कुमार सिंह के बिच लोकपाल कार्यालय मे मारपीट हो गई थी जिसमे दोनों पक्ष के लोग घायल हो गए थे.. दोनों पक्षो का इंज्योरी रिपोर्ट बनाया गया.. और दोनों पक्षो की तरफ से जोगसर थाना मे

मामला दर्ज कराया गया... दोनों के ऊपर लगभग लगभग सेम धारायें लगाकर पुलिस ने मामला दर्ज किया पर पुलिस ने मुखिया अजित सिंह को जेल भेज दिया जबकि दूसरा पक्ष अमरेंद्र एवं उसके बेटे ब्रजेश को घर भेज दिया गया.. पुलिस की इस दोहरी नीति से मुखिया के घर वाले काफी दहशत मे है... मुखिया की पत्नी एवं बेटी ने बताया की अमरेंद्र एवं ब्रजेश कभी भी इनके ऊपर हमला कर सकते है... मुखिया की बेटी ने कहा की डर से वो अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी है... वहीं मुखिया के घर वालों का ये भी कहना है की जब सेम केस सेम दफा है तो एक पक्ष जेल मे और दूसरा पक्ष बाहर कैसे है... वही इस पुरे मामले पर भागलपुर के एसएसपी ने बताया की पुरे मामले की जांच की जा रही है... जो दोसी होगा सजा उनको जरूर मिलेगी'

जी 20 के भारत मंडपम में अतिथियों का जमकर हो रहा स्वागत, भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर, अब अपना देश पुरी दुनिया का करेगी नेतृत्व

समाज जागरण जिला संवादाता विवेक कुमार

भागलपुर (बिहार) भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन आज भागलपुर पहुंचे, भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकताओं ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका भव्य स्वागत किया उसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जमकर इंडियन एलाइंस को कोसा ,उन्होंने कहा अपने मन से कोई भी कुछ भी नाम रख लेने से वह व्यक्ति या पार्टी वही नहीं बन जाता। साथ ही उन्होंने जी-20 कार्यक्रम को लेकर कहां की अपने देश

में 20 कार्यक्रम के तहत सभी देशों से अतिथि भारत पहुंचे हैं उसे भारत मंडपम में आकर सभी अतिथि काफी खुश हैं भारत अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगी भारत विश्व गुरु बनेगा, साथ ही उन्होंने इंडियन एलाइंस को लेकर कहा जब भी बैठक इन लोगों की होती है तब कोई मुख्यमंत्री रूठ जाते हैं कभी केजरीवाल रूठ जाते हैं तो कभी ममता तो कभी नितिश कुमार ,इसका मतलब है इन लोगों में आपसी द्वंद्व चल रहा है यह जनता को बरगलाने का काम कर रही है लेकिन जनता समझदार है वह सब कुछ देख रही है जनता उन्हें लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जवाब देगी साथ ही उन्होंने कहा कि जगदानंद को तिलकधारी से काफी ऐतराज है वह बीजेपी से लेकर हिंदू धर्म और सनातन धर्म से काफी चिढ़ते हैं वह तिलकधारी से काफी चिढ़ते हैं यह कहीं से सही नहीं है, वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन में नीतीश कुमार को सिर्फ ठगने का काम कर रही है उन्हें सिर्फ सपना दिखाने का काम कर रही है साथ ही उन्होंने कहां की किस जगह से किन्हे सीट मिलना है चुनाव लड़ने के लिए यह पार्टी तय करती है अभी पार्टी कहीं से भी उम्मीदवार खड़ा नहीं की है हर पार्टी चाहती है हर सीट पर हर जाति व पार्टी से उम्मीदवार हो, शाहनवाज हुसैन ने साफ तौर पर कहां की 2024 और 2025 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इसबार हर सीट पर कमल खिलेगा और कमल ही राज करेगा।

बिहपुर में 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना में दलित, महादलित

दैनिक समाज जागरण श्याम कुमार ठाकुर

बिहपुर (बिहार) शनिवार को बिहपुर प्रखंड कार्यालय के समक्ष 11 सूत्री मांगों को लेकर सामाजिक भ्रष्टाचार उन्मूलन संघर्ष समिति के बैनर तले धरना दिया गया। जिसकी अध्यक्षता मो.जाहिद अंसारी व संचालन जेपी सेनानी नरेश कुमार साह ने किया।रूक रूक कर हो रही बारिश के बावजूद इस धरना में काफी संख्या में दलित,महादलित व कोसी कटाव विस्थापित पहुंचे थे।धरना को संबोधित करते हुए कामरेड बिंदेश्वरी मंडल,माले नेता सुधीर यादव,भाकपा कामरेड हिमांशु कुमार व जेपी सेनानी शंकर रजक आदि ने कहा कि वर्ष 19 से ही कोसी कटाव का दंश झेलकर विस्थापित की नरकीय जीवन जी रहे हरियो पंचायत के गोविंदपुर व कहारपुर के लोगों के पुर्नवास का मुद्दा उठाया।झंडापुर बाजार से एनएच जाने वाली सड़क पर जलजमाव व बिहपुर सरकारी अस्पताल में

महिला डाक्टर की पदस्थापना नहीं होने समेत बिहपुर बाजार से थाना तक की बदहाल हो चुकी सड़के को जलजमाव से मुक्त कर सड़क को दुरूस्त किया जाए।सर्वोदय स्कूल मैदान से पश्चिम सरकारी अस्पताल जाने वाली पांच सौ गज शेष बचे कच्ची सड़क को पक्की कराया जाए।सोनवर्षा दुमुंही चौक से बीरबन्ना तक की बदहाल सड़क को दुरस्त कर इसे स्टेट हाईवे का दर्जा दिया जाए।जल-नल योजना में व्याप्त गड़बड़ी को दूर कर इसे शुद्ध किया जाए।विद्यालय शिक्षा समिति को कागजी व फर्जी बैठकों से बाहर निकालकर इसे वास्तविक स्थिति में लाया जाए।गरीब भूमिहीन को अविलंब भूमि व आवास मुहैया कराया जाए।भूमिगत व अन्य धाराओं में जेल गए जेपी सेनानियों को सम्मान पेंशन दिया जाए।स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर किया जाए।जीविका समूह की बैठक के लिए जीविका भवन पंचायतस्तर पर मुहैया कराई जाए।बिहपुर प्रखंड,अंचल कार्यालय व थाना को भ्रष्टाचार व बिचौलियों से मुक्त किया जाए।धरना को अखिलेश रमण,आहुति,अधिवक्ता कलीम,रघनंदन त्रृषिदेव,रविप्रकाश भारती, राजनीति तांती व रामविलाश यादव आदि ने कई महिला कामरेडों ने भी संबोधित किया।वहीं जाहिद अंसारी द्वारा कहा गया कि हमारी उर्पयुक्त मांगों पर ध्यान देकर साकारात्मक पहल जल्द नहीं हुआ तो अगला आंदोलन उग्र होगा। धरना के उपरांत 11 सूत्री मांगों का पत्र प्रखंड कार्यालय में दिया गया।इस धरना में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से बड़ी संख्या में पुरूष व महिलाऐ कि भागीदारी देखी गई।

बिहार बॉल बैडमिंटन संघ का चुनाव आज पटना में

दैनिक समाज जागरण श्याम कुमार ठाकुर

बिहपुर- (बिहार) भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ के निदेर्शानुसार बिहार बॉल बैडमिंटन संघ का विशेष आम सभा की बैठक 10 सितंबर को होटल मैत्रेया इन,बोरिंग रोड,पटना में आयोजित किया जायेगा जिसमें सत्र-2023-27 के लिए कार्यकारिणी समिति का चुनाव होगा। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के प्रवक्ता ज्ञानदेव कुमार ने बताया कि चुनाव पदाधिकारी-सह-अधिवक्ता,पटना उच्च न्यायालय मनोज कुमार सिन्हा के देखरेख में चुनाव कराया जायेगा। चार वर्षीय इस चुनाव में बिहार बॉल बैडमिंटन संघ से मान्यता/पंजीकृत 30 जिलों व संस्थाओं के अध्यक्ष व सचिव सहित राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को मतदान करने की अनुमति दी जायेगी। बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष-सह-बिहार विधान परिषद के वरिष्ठ सदस्य प्रो.नवल किशोर यादव व सचिव गौरीशंकर ने बताया कि बिहार बॉल बैडमिंटन संघ के चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराने के लिए भारतीय बॉल बैडमिंटन महासंघ एवं कला,संस्कृति एवं युवा विभाग,बिहार सरकार के पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे।

टॉप 10 के फरार अपराधी मुन्ना सोनी ने न्यायालय में किया आत्मसमर्पण

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज। किशनगंज थाना काण्ड में कई धाराओं के अपराधी मुन्ना सोनी पिता- सुगरा सोनार उर्फ सुरेन्द्र प्रसाद, निवासी कनहेरिया, थाना- डगरूआ, जिला पूर्णियाँ जो टॉप-10 के अपराधी हैं और ये विगत तीन वर्षो से फरार थे। फरार रहने की स्थिति में इनके विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट एवं इस्तेहार न्यायालय से निर्गत था। उक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गौतम कुमार एसडीपीओ किशनगंज के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा लगातार छापामारी अभियान चलायी जा रही थी। इसी क्रम में टॉप-10 अपराधी मुन्ना सोनी 08 सितम्बर को पुलिस गिरफ्तारी के भय से न्यायालय किशनगंज में आत्मसमर्पण किया।

अररिया जिला अंतर्गत सोहन्दर हाट प्रखंड पलासी में गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण कार्य पूर्ण

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

अररिया जिला अंतर्गत सोहन्दर हाट प्रखंड पलासी की पावन धरती पर गायत्री शक्तिपीठ का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत प्राण प्रतिष्ठा एवं 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ सह विराट संस्कार महोत्सव 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 2023 तक की जोर-दार तैयारी चल रही है। इस महती आध्यात्मिक एवं धार्मिक कार्य को संपन्न करने हेतु धर्मनाथ झा जी के संरक्षण में 17 परिजनों की टोली पांच दिवसीय प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने हेतु ब्रह्म वर्चस्व शांतिकुंज हरिद्वार किशनगंज स्टेशन से प्रस्थान किया। इस पुनीत अवसर पर श्यामानंद झा वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्र सेवानिवृत प्रधानाध्यापक राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त एवं कमलेश कुमार अधिवक्ता ने स्टेशन पर पहुंचकर रॉली मॉली से सम्मानित कर भावभीनी विदाई देते हुए मंगलमय यात्रा की शुभकामना दी।शांतिकुंज ऊर्जा केंद्र के संबंध में विस्तार से चर्चा करते हुए श्यामानंद ने कहा आप सब परिजन जीवन दर्शन प्राप्त करने वहां जा रहे हैं इसलिए वहां की सारी गतिविधियां में भाग लेकर अपना व्यक्तित्व परिष्कार करेंगे तथा उस परिसर से अन्यत्र कहीं भी नहीं जायेंगे क्योंकि अन्यत्र वातावरण में जाकर जीवन ऊर्जा का क्षरण हो जाएगा। अपना लक्ष्य लगन और उत्साह के साथ पुरुषार्थ पूर्वक करते हुए शक्ति कलश लेकर वहां से यज्ञ स्थल अपने क्षेत्र में आ जाएंगे। वही सत्र में भाग लेने वाले मुख्य परिजन विकास जायसवाल, दीपक जायसवाल, धर्मनाथ मंडल, राजेंद्र प्रसाद यादव, राजकुमार सिंह, आनंदी यादव, घनेश्वर मंडल, भूतनाथ मंडल, राजेंद्र मंडल, गंगाधर मंडल, लाडली केसरी, कुंदन केसरी, राजू मंडल ,लक्ष्मी प्रसाद मंडल, भोला मंडल, रेशम लाल गम, लाल ,बबीता देवी, रानी देवी, आदि का भावभीनी विदाई देकर गाड़ी से प्रस्थान किया।

धार्मिक अनुष्ठान : गणेश चतुर्थी महोत्सव आयोजन को लेकर जुटे कार्यकर्ता

2013 से स्टूडेंट यूथ क्लब कर रही है महोत्सव का आयोजन

दैनिक समाज जागरण
संवाददाता
ठाकुरगंज(किशनगंज)।

"वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा"! किसी भी कार्य के शुभारंभ से पूर्व गणपति बप्पा का स्मरण अवश्य किया जाता है। वे प्रथम पूज्य हैं। लेकिन, शुभ और लाभ की कामना से सर्वप्रथम गणपति का ही नाम लिया जाता है। शिवपुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव गणपति बप्पा को समस्त देवी-देवताओं में प्रथम बताया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद दिया है।
देवताओ के ईष्ट भगवान गणेश के सबसे बड़े पर्वो में से एक गणेश चतुर्थी महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। देश के कई हिस्सों में गणपति पंडाल लगते हैं। लोग देवताओं में प्रथम पूजनीय देवता के रूप में गणेश जी की प्रतिमा को गणपति पंडाल या फिर अपने घर में स्थापित करते हैं। लोग सिद्धि विनायक के लिए श्रद्धानुसार उपवास भी करते हैं। उसके बाद गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश जी की आरती भजनों से माहौल खुशनुमा बना रहता है । मद्देनजर शुक्रवार की संध्या गणपति भक्त की बैठक हुई।

ठाकुरगंज नेताजी डीडीसी मार्केट में भी प्रथम आराध्य देव की पूजा अर्चना 2013 से महोत्सव के रूप में गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इस वर्ष भी आगामी 19 सितंबर से 21 सितंबर तक 03 दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।

स्टूडेंट यूथ क्लब द्वारा तैयारी को लेकर बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और महोत्सव मनाने को लेकर कम समय में तैयारी पूर्ण करने पर जोर दिया गया।
तीन दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक सुनिश्चित है। जिसे ठ-ाकुरगंज में महोत्सव के रूप में मनाया जाता रहा है। कमिटी के पदेन के विस्तार भी किया गया एवम इस वर्ष के आयोजन में सदस्यों को जिम्मेदारी भी सौपी गई। जिसमें अध्यक्ष सुमित राज यादव, उपाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह, सचिव राजीव कुमार झा, कोषाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, मुख्य संरक्षक के रूप में कौशल किशोर यादव, संयोजक श्रीकृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल, संरक्षक देवकी अग्रवाल, संरक्षक सोहेल रहमानी, संयोजक अमित कुमार सिन्हा, सक्रिय सदस्य सालीम अहमद, वरिष्ट सदस्य प्रदीप कुमार साह, सदस्य सोनू कुमार गुप्ता, सदस्य विजय कुमार मिश्रा सहित अन्य कई सदस्य शामिल हैं।

03 दिवसीय कार्यक्रमः-

प्रथम दिवस गणपति वंदना एवं विधिवत वैदिक मंत्रोंच्चारण के साथ पूजा अर्चना, संध्या आरती व मनोकामना पूर्ण प्रतिमा दर्शन होंगे। द्वितीय दिवस में विधिवत पूजा-अर्चना तत्पश्चात मुफ्त जांच शिविर जो कि दिशान हॉस्पिटल, सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल की डॉक्टर की टीम एवम केयर हेल्थ इंश्योरेंस की स्थानीय टीम संयुक्त रूप में 02 बजे तक आयोजन करेंगी। वही, आरती के तत्पश्चात पश्चिम बंगाल के कानकी धाम के सुप्रसिद्ध गायक सुधीर सिंह और गायक टीम के द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी। भजन संध्या पूरे महोत्सव का आकर्षण केंद्र रहता है। तृतीय एवं अंतिम दिवस में प्रतिमा विसर्जन हवन महाप्रसाद का भोग वितरण शामिल है।

पुरोहित सुनील मिश्रा बताते हैं कि पिछले वर्ष का संयोग बुधवार को मिली थी और इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी महोत्सव बुधवार के देवता बुधवार को संयोग में आ रहा है। जो काफी शुभ माना जाता है। भगवान गणेश बुधवार के देवता हैं बुधवार के दिन गणेश पूजा का विशेष महत्व होता है।

बैठक में मुख्य रूप से गणेश चतुर्थी महोत्सव 2023 के नवगठित कमिटी में संरक्षक देवकी अग्रवाल, संरक्षक बिजली प्रसाद सिंह, अध्यक्ष सुमित राज यादव, उपाध्यक्ष अतुल कुमार सिंह, सचिव राजीव कुमार झा, कोषाध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, सक्रिय सदस्य अशोक भारती, सक्रिय सदस्य अमित सुल्तानिया, सक्रिय सदस्य मिथलेश झा अन्य सदस्यों में अभिषेक कुमार पोद्दार, प्रह्लाद झा, ललित अग्रवाल, अमित लाल श्राफ, गोपेश यादव उपस्थित रहें।

बीएसएफ ने भारी मात्रा में जप्त की प्रतिबंधित कफ सिरप

वीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज।

दिनांक :- 08/09/2023 को सेक्टर मुख्यालय किशनगंज व 152 वीं वाहिनी द्वारा। गुप्त सूचना के आधार पर भारत बांग्लादेश सीमा के नजदीक सीमा सुरक्षा बल द्वारा भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ वाहन चालक को दबोचा गया, जो कि प्रतिबंधित

कफ सिरप को ट्रक में बनारस से सिलीगुड़ी की ओर ले जा रहा था। प्रतिबंधित कफ सिरप की मात्रा 10400 बोतल पाई गई जिसकी अगुवाई इंस्पेक्टर आशीष कुमार व इंस्पेक्टर पदम लोचन बास्की व अन्य के द्वारा बाबा बालक नाथ लाइन होटल नियर इस्लामपुर में की गई। पूछताछ के दौरान चालक का नाम राम नरेश गोस्वामी जो कि बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है पता चला । जप्त किया गया ट्रक , कफ सिरप ,चालक को इस्लामपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पनोरमा स्टार सीजन -06

ई होम्स पूर्णियां में अनुराधा पौडवाल म्यूजिकल शो को लेकर तैयारियां शुरू : संजीव मिश्रा

26 नवंबर को होना है रंगारंग कार्यक्रम

पूर्णियां। सीमांचल इंफ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड(पनोरमा ग्रुप)के द्वारा आयोजित पनोरमा स्टार सीजन -06 के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई है। पनोरमा ग्रुप के प्रबंध निदेशक संजीव मिश्रा ने बताया कि हर वर्ष के तरह इस वर्ष भी पनोरमा ग्रुप द्वारा आयोजित पनोरमा स्टार सीजन -06 का आयोजन काफी भव्य रूप से किया जाना है। जिनका आगाज माह

अक्टूबर से पनोरमा ग्रुप के ई होम्स पनोरमा परिसर में होगा। इसी कड़ी में 26 नवंबर को पनोरमा स्टार सीजन 6 के अवसर पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका पद्मश्री अनुराधा पौडवाल जी का आगमन होने जा रहा। कार्यक्रम में आने की उनकी स्वीकृति पत्र मिल गई है। संजीव मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। फ्रेंड्स ऑफ संजीव की टीम सांस्कृतिक कार्यक्रम को भव्य बनाने में लग गए हैं।

एआईएमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष मिन्हाज आलम ने चलाया सदस्यता आभियान

ओबैसी की पार्टी से जुड़े जोकीहाट के कई लोग

जोकीहाट । एआईएमआईएम के प्रखंड अध्यक्ष जनाब मिन्हाज आलम के नेतृत्व में चलाई जा रही सदस्यता आभियान में विभिन्न दलों से जुड़े लोगों ने ओबैसी साहब की पार्टी पर आस्था रख एआईएमआईएम की सदस्यता ली

मिन्हाज आलम साहब ने कहा कि पार्टी को पूरा भरोसा है कि आप पूरी निष्ठा के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के विचारों को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करेगें । मेरी तरफ से आप सबों को दिली मुबारकबाद।

अमरकथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की कालजयी रचना मैला आँचल के जीवंत पात्र थे बाबू रामलाल भगतनहीं रहे : के.एन.विश्वास

कथाकार रेणु जी ने अपनी कथा चरित्र में रामलाल को रामरेड से चित्रण क्या है

फारबिसगंज/डा. रूद्र किंकर वर्मा। फारबिसगंज प्रखंड के रेणुगाँव धमदाहा निवासी 100 वर्षीय रामलाल भगत जी का हृदयगति रुकने से शुक्रवार को निधन हो गया। रामलाल भगत विश्वविख्यात अमरकथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु की कालजयी रचना मैला आँचल के जीवंत पात्र थे।इनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुये वरिष्ठ राजद नेता सह पूर्व लोक अभियोजक के.एन.विश्वास ने कहा कि रामलाल भाई मेरे काफी करीबी ,सहृदयी, हँसमुख और मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे।वे हमेशा अपनी बातों में आधा हिन्दी और आधा इंगलिश बोला करते थे,इससे प्रभावित होकर कथाकार रेणु जी ने अपने कथा चरित्र में रामलाल को रामरेड से चित्रण क्या है।रेणु जी इन्हें हमेशा राम-रेड कहा करते थे।उन्होंने इस दुःख की घड़ी में परिवार के लोगों को सांत्वना दी।स्व. रामलाल के पुत्र कृष्णदेव भगत पूर्व उपमुख्यपार्षद रहे हैं तो वही दो पुत्र शंकर भगत और उमाशंकर भगत व्यवसायी हैं।वे अपने पीछे दो पीढ़ी का भरा पूरा परिवार छोड़ गये। इनके निधन पर राजद युवा नेता अविनाश आनन्द,मुखिया प्रतिनिधि अफताब आलम चुन्ना,पैक्स अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद गुप्ता, पूर्व मुखिया अरविंद विश्वास,नीलोत्पल राय,शिक्षक पीताम्बर विश्वास,अभिषेक रंजन,विनय गुप्ता,पूर्व पैक्स अध्यक्ष यशपाल राय,संजीव विश्वास,उमेश मंडल,सुरेंद्र मंडल ने शोक व्यक्त किया है।

शहीद नीरज छेत्री के सम्मान में दिनांक 30 सितम्बर से 02 अक्टूबर तक होगा वॉलीबॉल टूनार्मेंट का अयोजन

52वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अररिया द्वारा की जा रही है तैयारी

केन्द्रीय संचार ब्यूरो पटना, जिला प्रशासन अररिया, नेहरु युवा केंद्र अररिया व सशस्त्र सीमा बल अररिया द्वारा खेल के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के कैंप भी लगाये जायेंगे

सिकटी। 52वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अररिया द्वारा बल के शहीद नीरज छेत्री के सम्मान में दिनांक 30/09/2023 से 02/10/2023 तक ह्लशहीद नीरज छेत्री वॉलीबॉल टूनार्मेंटह्व का आयोजन सिकटी प्रखंड अंतर्गत खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है । यह टूनार्मेंट नॉकआउट आधार पर खेला जायेगा जिसमें कुल 10 टीमें प्रतिभाग करेंगी, पहला मैच सशस्त्र सीमा बल और ए पी एफ नेपाल के बीच खेला जायेगा । इस टूनार्मेंट में यदि कोई क्लब या टीम प्रतिभाग करना चाहती है तो वह दिनांक 20/09/2023 तक वाहिनी के संपर्क सूत्र 9431821422 में अपने प्रतिभाग करने की सूचना दे सकती हैं। इस तीन दिवसीय टूनार्मेंट के दौरान खेल मैदान सिकटी में केन्द्रीय संचार ब्यूरो पटना, जिला प्रशासन अररिया, नेहरु युवा केंद्र अररिया व सशस्त्र सीमा बल अररिया द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के कैंप लगाये जायेंगे जिसका सीधा फायदा स्थानीय जनता को मिलेगी ।इस संबंध में अररिया जिले की सम्मानित जनता से अनुरोध है कि दिनांक 30/09/2023 से 02/10/2023 तक खेल मैदान सिकटी में पधारकर ह्लशहीद नीरज छेत्री वॉलीबॉल टूनार्मेंटह्व की शोभा बढ़ाएं तथा सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें । हमारा उद्देश्य खेल कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती जनता को सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित कराना है

सिमरिया पंचायत में डीडीसी ने हरी झंडी दिखाकर कचरा प्रबंधन वाहन को किया रवाना

जोकीहाट । लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत शुक्रवार को सिमरिया पंचायत भवन में डीडीसी संजय कुमार ने ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु सामग्री का वितरण किया।

इस दौरान डीडीसी संजय कुमार डोर टू डोर कचरा उठाव वाहन व ठेलाको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर जिला समन्वयक विनय कुमार झा, प्र-खंड समन्वयक सौरभ कुमार, वैड्स फाउंडेशन यूनिसेफ के भारत भूषण तिवारी, सुबोध कुमार,स्वच्छता पर्यवेक्षक मंजूर आलम, पंसस फिरोज आलम, पूर्व पंसस प्रतिनिधिप्रभात कुमार सहित सभी वार्ड सदस्यगण उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुखिया गजाला प्रवीण ने की। जबकि धन्यवाद ज्ञापन मुखिया प्रतिनिधि अख्तर आलम ने किया।

नकली मोबिल बेचने वाले आरोपी को 158 लीटर मोबिल के साथ गिरफ्तार

फारबिसगंज । फारबिसगंज थाना अंतर्गत रानीगंज रोड़ स्थित राजा मोटर्स & सर्विस सेंटर नाम के दुकान में केस्टरोल कंपनी के नाम से नकली मोबिल बेचने वाले आरोपी को 158 लीटर मोबिल (कई कंपनियों के नकली मोबिल) के साथ फारबिसगंज थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत अररिया भेज दिया गया।

बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता हरि सहनी का उदाकिशुनगंज आगमन आज

उदाकिशुनगंज ।

रविवार को भाजपा बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय हरि सहनी जी का आगमन उ-दाकिशुनगंज अनुमंडल के अतिथि गृह (गेस्ट हाउस) में होना सुनिश्चित हुआ है।
भाजपा के सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकताओं से आग्रह है कि कल 11 बजे दिन में भारी से भारी संख्या में गेस्ट हाउस में पहूंचकर प्रतिपक्ष के नेता के आगमन की साक्षी बनें तथा कार्यक्रम में सहभागी बनें।
इस अवसर पर भाजपा की आगे की रणनीति पर चर्चा-परिचर्चा, विचार सहित सांगठनिक कार्यशाला में निश्चित रूप से भाग लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें।

सेंट्रल जेल में जल्द लगेगा जैमर बंदी नहीं कर पाएंगे मोबाइल यूज

दैनिक समाज जागरण

पूर्णियां । पूर्णियां सेंट्रल जेल समेत राज्य के 15 जेलों के बंदी निकट भविष्य में मोबाइल पर बात नहीं कर पायेंगे. पूर्णियां का सेंट्रल जेल जल्द ही उच्च तकनीक के जैमर से लैस किया जायेगा. इस तकनीक को हारमोनियस कॉल ब्लॉकिंग सिस्टम या टी-एचसीबीएस कहा जाता है. टी एचसीबीएस सिस्टम जेलों में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन सिग्नल को ब्लॉक कर देगा. ऐसे में जेल के अंदर मोबाइल से बाहर न कोई कॉल होगा और न ही बाहर से कोई कॉल बंदियों तक आयेगा. इस व्यवस्था से लैस हो जाने के बाद जेल के अंदर निश्चित परिधि में मोबाइल नेटवर्क को ड्रॉप किया जा सकेगा. यह टी एचसीबीएस तकनीक 2 जी से लेकर 5जी सिग्नल को पूरी तरह ब्लॉक करने में सक्षम है. टीएचसीबीएस तकनीक पूर्णिया सेंट्रल जेल के अलावा राज्य के बेउर जेल पटना, सेंट्रल जेल बक्सर, सेंट्रल जेल मोतीहारी, शहीद खुदीराम बोस सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर, शहीद जुब्बा सहनी सेंट्रल जेल भागलपुर, विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर, सेंट्रल जेल गया, छपरा जेल, दरभंगा जेल, सहरसा मंडल कारा, मुंगेर जेल, फुलवार-ीशरीफ जेल, उपकारा दानापुर एव पटना सिटी में लगने जा रहा है. जेल में इस प्रणाली को लगाने के लिए गृह विभाग (कारा) द्वारा चयनित जेलों के अधीक्षकों को टैंडर निकालने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में पूर्णिया सेंट्रल जेल के अधीक्षक राजीव कुमार झा ने बताया कि जेल में टी एचसीबीएस प्रणाली लगाने के लिए निविदा निकाली गयी है. इस प्रणाली से लैस हो जाने से जेल के बंदी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पायेंगे.

बिहार में कराये जा रहे जाति गणना का विरोध व साजिश कर अपना असली चेहरा उजागर कर रही है भाजपा: अविनाश आनंद

समाज जागरण

अररिया। बिहार में हो रहे जाति गणना का फिर भाजपा कर रही है विरोध।भाजपा की यह विरोधनीति दलित व अतिपिछड़ा का हक विरोधी है।केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार बिहार में कराये जा रहे जाति गणना का विरोध व साजिश कर अपना असली चेहरा उजागर कर रही है।उक्त बातें अररिया जिला के राजद युवा नेता अविनाश आनन्द ने कही।

पिछड़ा और अतिपिछड़ा विरोधी बीजेपी ने फिर से बिहार में हो रहे जाति गणना सर्वे का विरोध कर रही है।उन्हें इस बात का डर है कि जाति गणना के प्रकाशन के बाद बहुसंख्यक वंचित,अतिपिछड़ा जाति की संख्या सार्वजनिक हो जायेगी,जिससे अबतक इस समाज की हकमारी कर रही केंद्र सरकार घबरा गयी है कि अब उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में समाजिक,विकास के अवसर,स-रकारी सेवा के अवसर और राजनीतिक भागीदारी देनी होगी,जो अबतक वह नहीं कर रही थी।

गरीब और पिछड़ा विरोधी भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर बिहार सरकार द्वारा गरीबों और वंचितों के उत्थान एवं जनकल्याणकारी योजनाएँ बनाने के लिए जुटाए जा रहे सटीक,वैज्ञानिक और विश्वसनीय आँकड़ों के जातीय सर्वे का विरोध किया है।जबकि बिहार के नीतीश-तेजस्वी की महागठबंधन सरकार जातीय गणना करवाकर इन्हें इनकी संख्या के आधार पर सभी सरकारी योजना का क्रियान्वयन,सरकारी सेवा का लाभ व राजनीति में अवसर देना चाह रही है।इसी से बौखलाकर बेचैनी में भाजपा इन बहुसंख्यक वंचित,अतिपिछड़ा के हक पर कु-ठाराघात करने जे उद्देश्य से जाति गणना को रोकवाने की साजिश कर रही है।

किशनगंज शहर - रमजान नदी में सड़ता रहा 24 घंटे तक अशोक पासवान का शव, पुलिसिया दायित्व हुआ तार तार

सड़क पर उतरे लोग तो पुलिस भी शव उठाने पहुंची, शहरी क्षेत्र से पार्षद भाजपा नेता सुशांत गोप ने पुलिस की संवेदनहीनता पर खड़ा किया सवाल, शव सड जाएगा तो बेटा भी नहीं कर सकेगा पहचान

बीरेंद्र चौहान, समाज जागरण ब्यूरो किशनगंज ।09 सितंबर किशनगंज। 24 घंटे से अधिक समय तक अशोक पासवान का शव किशनगंज शहरी क्षेत्र में स्थित रमजान नदी में सड़ता रहा। सदर पुलिस शव को कब्जे में नहीं ली। पुलिसिंग असंवेनहीनता के विरोध में जब लोग सड़क पर उतर आए तो पुलिस भी जाग गई और शव लेने पहुंची जिसका शहरी क्षेत्र से पार्षद भाजपा नेता सुशांत गोप ने यह कहकर विरोध किया कि सदर थानाध्यक्ष अथवा सीओ के आने के बाद ही शव को उठाने दिया जाएगा। शव सड़ रहा है। बेटा भी नहीं पहचान कर सकेगा।

उल्लेखनीय है कि भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप शनिवार को सुबह टहलने के क्रम में नदी के किनारे कुत्तों को मंडराते देखा। निकट गए तो शव पड़ा हुआ था।
उन्होंने तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी , अंचल अधिकारी, जिला पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को इसकी सूचना दी।
फिलहाल दो घंटे तक किसी भी तरह की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने पर आक्रोशित शहर-वासियों ने देवघाट पर सड़क जाम कर विरोध प्र-कट करना आरंभ किया।
प्रशासन की संवेदनहीनता पर शहरी क्षेत्र से पार्सद भाजपा जिला अध्यक्ष सुशांत गोप ने कहा
पुलिस प्रशासन की इस तरह की निष्क्रियता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यह शासन प्रशासन की अकर्मण्यता है। गौरतलब है कि शव की पहचान खगड़ा निवासी अशोक पासवान के रूप में हुई है।

मिशन इंद्रधनुष : टीकाकृत बच्चों को उपलब्ध कराया जायेगा डिजिटल आरआई कार्ड

जिले में 11 से 16 सितंबर के बीच संचालित होगा अभियान का पहला चरण

दुर्गम पहुंच वाले 499 स्थान सहित जिले में कुल 1040 स्थानों पर होंगे सत्र संचालित

अररिया । जिले में मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का पहला चरण आगामी सोमवार से संचालित है। इसे लेकर सभी विभागीय तैयारियां पूरी हो चुकी है। अभियान की सफलता को लेकर सर्वे के आधार टीकाकरण से वंचित पांच साल तक के बच्चे व गर्भवती महिलाओं की ड्यू लिस्ट तैयार की गयी है। निर्धारित माइक्रोप्लान के आधार पर सर्वेक्षित लाभुकों का शत प्रतिशत टीकाकरण अभियान की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसे लेकर सिविल सर्जन कार्यालय में प्रेस बीफ्रिंग कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। इसमें वरीय अधिकारियों ने अभियान के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। मौके पर सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह, एसीएमओ डॉ राजेश कुमार, डब्ल्यूएचओ के एसएमओ डॉ शुभान अली, डीएमएनई पंकज कुमार, यूएनडीपी के वीसीसीएम शकील आजम सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद थे।
सिविल सर्जन डॉ विधानचंद्र सिंह ने बताया कि अभियान से

जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अभियान का पहला चरण 11 से 16 सितंबर के बीच संचालित होगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के मजबूत इम्युनिटी व अच्छी सेहत के लिये नियमित टीकाकरण अभियान में शामिल सभी टीका लगाना जरूरी है। सघन टीकाकरण अभियान आईएमआई 5.0 अभियान के क्रम में टीकाकरण सेवाओं का लाभ अधिक से अधिक बच्चे व गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना अभियान की प्राथमिकता व महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल है।
लाभार्थी को उपलब्ध कराया जायेगा डिजटिल आरआई कार्ड -
जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ मोईज ने बताया कि अभियान के क्रम में जिले में कुल 1040 स्थानों पर टीकाकरण सत्र संचालित होंगे। इसमें कठिन व दुर्गम पहुंच वाले 499 चिह्नित स्थलों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिला व बच्चों के टीकाकरण के लिये यू-विन डिजिटल प्लेटफॉर्म लांच किया गया है। अभियान के क्रम में टीकाकरण संबंधी रिकार्ड व रिपोर्टिंग के लिये यू विन पोर्टल व्यवहार में लाया जायेगा। इस पोर्टल की मदद से लाभार्थियों को डिजिटल आरआई कार्ड उपलब्ध कराया जायेगा। इसमें बच्चों को सात साल तक लगने वाले टीकों की पूरी सूची उपलब्ध होगी। निर्धारित समय पर टीकाकरण के लिये पंजीकृत मोबाइल पर लाभार्थी को मैसेज प्राप्त होगा। ताकि बच्चों को समय पर टीका लगाया जा सके। इससे लेफ्ट आउट व ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या को नियंत्रित करना संभव हो सकेगा।

आज मै अपने गुरू की प्रतिमा का अनावरण कर धन्य हो गया-एल जी मनोज सिन्हा

बिकास राय ब्यूरो चीफ गाजीपुर दैनिक समाज जागरण

गाजीपुर जनपद के बाराचवर ब्लाक मुख्यालय के समीप अमर नाथ पुर्वाचल इण्टर कालेज सहजतपुर बाराचवर के प्रांगण मे काफी दिनो से बनकर तैयार पुर्व ब्लाक प्रमुख स्व.रामनाथ यादव की आदमकद प्रतिमा का अनावरण जम्मू कश्मीर के एल.जी.मनोज सिन्हा ने राज्य सभा सांसद नीरज शेखर की उपस्थिति मे शनिवार के दिन मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा से कपड़ा हटाकर किया,तथा शिलापट्ट से पर्दा हटाया।महामहिम ने इस अवसर पर स्व०रामनाथ यादव का स्मरण करते हुये उनकी प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित किया।कांस्य धातु से निर्मित आदमकद मुर्ति 6 फिट ऊँची और एक टन वजनी है।इस प्रतिमा को स-ासंद नीरज शेखर ने सपा के शासन काल मे निर्मित कराया था।तब से यह प्रतिमा अनावरण के लिये किसी माननीय की प्रतिक्षा मे पाँच बर्षो से अमरनाथ इण्टर कालेज सहजतपुर बाराचवर के परिसर मे स्थापित थी । महामहिम श्री सिन्हा ने अपने उद्बोधन मे कहा की स्व.रामनाथ जी समाजवाद के अच्छे सिपाही होने के बावजूद वह हमारे अच्छे गुरु भी रहे ।अंग्रेजी के अध्यापक के तौर पर उन्होंने अपने बिद्यार्थीयों को बेहतरीन शिक्षा देने मे कही कोर कसर नही छोडी। उन्होंने कभी अपने सिद्वान्तों से समझौता नही किया।शिक्षा के बदलौत ही भारत विश्वगुरु रहा है । यहाँ के लोग गुरुकुलों मे शिक्षा ग्रहण

कर जो देश के लिये काम किया उस-ाकी बदौलत भारत सोने की चिडिड़ा बना । उन्होंने बताया की भारत के कल कारखानो मे तैयार किये गये स्टील से बनी तलवार व पानी के जहाज का बिश्व मे अपना अलग पहचान थी ।शिक्षा के बदौलत ही भारत सोने की चिडिड़ा था।आज भारत विश्व की पाँचवी अर्थ

व्यवस्था है। बहुत जल्द ही यह दुनिया की तीसरी अर्थ व्यवस्था बनने जा रहा है यह हमारे देश की शिक्षानीति की ही देन है ।राजनीति मे व्यापार नही होना चाहिए जो लोग राजनीति मे व्यापार कर रहे है उन्हें देश की जनता समझ चुकी है और उन्हें मुँहतोड जबाब देने का काम कर रही है।आज हमको जो जिम्मेदारी मिली है मै आप सभी को भरोसा दिलाता हुँ कि आप का यह लाल जम्मू कश्मीर को एक सूत्र मे बाँध कर ही दम लेगा ।अंत मे मे उन्होंने कहा की स्व० रामनाथ जी हमारे शिक्षक रहे उनकी प्रतिमा का अनावरण कर हम खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे है। इसके लिये उन्होंने सासंद नीरज शेखर व रामनाथ जी के परिजनो को धन्यबाद ज्ञापित किया।विशिष्ट अतिथि राज्यसभा सासंद नीरज शेखर ने कहा कि स्व०ब्लाक प्रमुख रामनाथ यादव की प्रतिमा को तैयार कराने के बाद अनावरण कराने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन सफल नही रहा।इस अवसर पर मै मा०राज्यपाल महोदय का धन्यबाद देता हूं की मेरे द्वारा एक बार कहे जाने पर मेरे अनुरोध को स्वीकार किया तथा अपने ब्यस्ततम समय में से समय निकालकर पुर्व स्व० प्रमुख रामनाथ जी के प्रतिमा का अनावरण किया।मै इसके लिए सदा आभारी रहूगा।आगे उन्होने कहा की कुछ लोग उनकी मुर्ति का अनावरण नही करने देना चाहते थे वे लोग आज इस कार्यक्रम मे उपस्थित नही है। इस मौके पर भाजपा के पुर्व जिलाध्यक्ष विजयशंकर राय, जिलाध्यक्ष भानुप्रताप सिंह , कृष्णबिहारी राय, विरेन्द्र राय,नरेन्द्र सिंह, पुर्व मंत्री विजय मिश्रा, प्रमुख समाजसेवी अरबिंद राय, ब्रजभूषण राय चुन्ना,बिजयशंकर राय ,श्यामराज तिवारी, सत्यदेव राय,नथुनी सिंह ,कृष्णानंद राय ,पुर्व बिधायक कालीचरण राज भर ,अंगद यादव,बब्बन यादव,कौशल सिंह,वासुदेव पाण्डेय,कमलेश यादव, हिमांशु राय प्रबन्धक जय बजरंग आई टी आई लट्ठडीह, श्रीमती चंदा यादव पूर्व ब्लाक प्रमुख मुहम्मदाबाद, राजेन्द्र यादव,कृपाशंकर सिंह,विक्की तिवारी ,टुनटुन सिंह, सत्यदेव सिंह,रामकृत राजभर,अशोक यादव,उमेश सिंह,श्रीप्रकाश राय,राजू सिंह, विवेक सिंह सौरभ समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे।कार्यक्रम की अध्यक्षता पुर्व विधायक बिरेन्द्र सिंह ने किया तथा कार्यक्रम का संचालन सयुक्त रूप से डा०सानन्द सिंह व कमलेश यादव अरविन्द ने किया।अंत मे स्कूल के प्रधानाचार्य अमरनाथ यादव ने कार्यक्रम मे आये हुए लोगो के प्रति आभार प्रकट किया।

गाजीपुर सहोदया स्कूल काम्प्लेक्स की कार्यकारिणी का गठन

डॉ राजेश कारकून अध्यक्ष, डॉ प्रेरणा राय उपाध्यक्षे

बिकास राय ब्यूरो चीफ गाजीपुर दैनिक समाज जागरण

गाजीपुर -सहोदय शिक्षा में उत्कृष्टता के उद्देश्य से सीबीएसई परिवार के स्कूलों के बीच विचारों के तालमेल को सुविधाजनक बनाने के लिए, एक अवधारणा जिसका शाब्दिक अर्थ 'एक साथ बढ़ना' है, वर्ष 1986 में अस्तित्व में आई। सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स पड़ोस के स्कूलों का एक समूह है जो पाठ्यक्रम डिजाइन, मूल्यांकन और शिक्षाशास्त्र सहित स्कूली शिक्षा के सभी पहलुओं में अपनी नवीन प्रथाओं को साझा करने के लिए स्वेच्छा से एक साथ आता है और शिक्षकों और छात्रों के लिए सहायता सेवाएं भी प्रदान करता है। इसी उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करने के प्रयास हेतु गाजीपुर सहोदया स्कूल काम्प्लेक्स की कार्यकारिणी का गठन किया गया ` उक्त कार्यकारिणी मे डॉ राजेश कारकून, प्रिंसिपल माउंट लिटेरा जी स्कूल अध्यक्ष, डॉ प्रेरणा राय, प्रिंसिपल डालिम्स सनबीम स्कूल, गांधीनगर उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष रितेश मिश्रा, सचिव श्री विनय सिंह प्रिंसिपल सेंट्रल पब्लिक स्कूल , सचिव अभिषेक राय प्रिंसिपल ए के इंटरनेशनल स्कूल , श्री इकरामुल हक प्रिंसिपल शाह फैज पब्लिक स्कूल, श्रीमती अर्चना तिवारी प्रिंसिपल सनबीम स्कूल गाजीपुर एव अन्य सदस्यगण शामिल हैं अध्यक्ष डॉ राजेश कारकून ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि इस संगठन से जिले के अधिक से अधिक सीबीएसई स्कूलों को जोड़ा जा सके ताकि हम अपने गाजीपुर सहोदया स्कूल काम्प्लेक्स के मुख्य उद्देश को प्राप्त कर सके` उपाध्यक्ष डॉ प्रेरणा राय ने कहा वास्तव में स्कूलों के लिए सीबीएसई बोर्ड की विभिन्न नीतियों और दिशानिदेर्शों पर विचार-विमर्श करने और गुणवत्ता के नए मानक स्थापित करने के लिए उनके कार्यान्वयन पर प्रभावी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सहोदया एक इंटरैक्टिव मंच है।उपस्थित सभी सदस्यों ने सभी पदाधिकारियों को उनके उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दीं

गरीबों के छत के सपने को निगल रहे प्रधान, सचिव और रोजगार सेवक

शंकर सिंह, समाज जागरण

लक्ष्मणपुर (बलिया) : केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना अपने मूल उद्देश्य से भटककर वसूली का साधन बनती प्रतीत हो रही है। आवास के नाम पर ग्राम प्रधान,सचिव और रोजगार सेवक की मिलीभगत से जमकर वसूली हुई है। हद तो तब हो गई जब आवास की पहली किश्त 40 हजार के मिलने पर उसमे से आधा 20 हजार की वसूली की जा रही है पैसा ना देने पर अगली किश्त ना मिलने की धमकी भी दी जा रही है। कई लाभार्थियों के तो पासबुक तक छीन लिया गया है। अब ऐसे में गरीब बेघर लोगों के छत का सपना साकार कैसे होगा। पूरा वाकया विकासखंड सोहांव के ग्राम सभा कारों का है जहां वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 62 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास आवंटित किया गया है। इन लाभार्थियों से बातचीत करने पर पता चलता है की आवास की पहली किस्त आते ही ग्राम प्रधान और उनकी पूरी मंडली पैसों के लिए घर पर दौड़ना शुरू कर देती है और प्रति लाभार्थी ड्ड20000 की मांग की जाती है लाभार्थियों द्वारा आनाकानी करने पर उन्हें अगली किस्त रोक देने की धमकी भी दी जाती है मजबूरन लाभार्थी पैसे देने को मजबूर हो जाते हैं। आवास योजना से लाभान्वित लाभार्थियों से बातचीत के दौरान यह भी पता चला की ग्राम सभा के सचिव महोदय कभी भी ग्राम सभा में दर्शन नहीं देते और जरूरी कागजात जैसे जन्म प्रमाण पत्र,मृत्यु प्रमाण पत्र और परिवार रजिस्टर की नकल आदि चितबड़ागांव स्थित जनसेवा केंद्र से होता है और इसके एवज में उनसे पैसे भी वसूलें जाते है। अब ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है की इतनी वसूली के बाद गरीब आदमी अपनी छत का सपना कैसे पूरा करेगा।मजेदार तथ्य यह भी है की पूरे गांव में वसूली का खेल जारी है और गांव के सचिव देवानंद गिरी को इस बात की भनक भी नही लगती है।पूरा सरकारी तंत्र इस वसूली के आगे या तो फेल हो जाता है या फिर कही ना कही इस गोरखधंधे में सम्मिलित हो सकते है। पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान संजीव कुमार चुनमुन का कहना है कि गांव के लाभार्थियों द्वारा लगाया गया आरोप निराधार और बेबुनीयाद है। जबकि इस मसले पर ग्राम सभा के सचिव और ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी पंचायत देवानंद गिरी ने बताया की मुझे इस बात की जानकारी नहीं है।अगर इस तरह की वसूली हुई है तो नियमानुसार जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी।साथ ही खंड विकास अधिकारी शिवांकित वर्मा से बात करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बताया गया की बलिया मीटिंग में हूं सोमवार को कार्यालय पहुंचने पर बात करेंगे।

चौकियां धाम के तालाब में तड़प रहीं मछलियां

क्षमता से अधिक मछली होने और पानी कम होने से हुई यह स्थिति

दिलीप कुमार जायसवाल ब्यूरो चीफ

चौकियां धाम, जौनपुर। मां शीतला चौकियां धाम के बगल में स्थित तालाब में शनिवार सुबह हजारों की संख्या में मछलियां तड़पने लगीं। स्थिति यह हो गयी कि मछलियां पानी के सतह एवं सीढ़ियों पर आ गईं। मौके पर पहुंचे नगर पालिका परिषद के क्षेत्रीय सुपरवाइजर राकेश ने पूरे तालाब में चूने का छिड़काव करवाया। साथ ही सफाई भी शुरू करवा दिया। इतना ही नहीं, चूने के छिड़काव के बाद जलकल से तालाब में ताजा पानी भी छोड़ा गया। ज्ञात हो कि वर्तमान में तालाब में क्षमता से ज्यादा मछलियां हैं जिसके कारण पूर्व में हुए बरसात के पानी से तालाब के पानी का तापमान अधिक होने से मछलियां तड़प रही हैं। सतह के ऊपर सीढ़ियों कर बदहवास हालत से गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी। देखा गया कि कई मछलियां

तो मृतावस्था में पड़ी हैं जिसे सफाई कर्मचारी द्वारा तालाब से बाहर निकाला गया। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि तालाब की मछलियों को मत्स्य विभाग द्वारा यहां से निकालकर नदी में छोड़ दिया जाय जिससे तालाब में कम मछलियां होने से स्थिति भी ठीक हो जायेगी। लोगों ने मत्स्य विभाग से अपील किया कि स्थिति को देखते हुये शीघ्र ही मछलियों के रख–रखाव को लेकर ध्यान दें, अन्यथा आने वाले दिनों में कई हजार मछलियां तड़पकर मर जायेंगी। साथ ही इसके बदबू एवं दुर्गध से क्षेत्र में संक्रमण फैल सकता है। जिला प्रशासन एवं मत्स्य विभाग शीघ्र ही इस मामले को संज्ञान में ले जिससे आने वाले दिनों में तालाब की मछलियां सुरक्षित रहें। देखा गया कि सुरेन्द्र माली, राहुल मोदनवाल, मोनी पंडा, अनिल साहू, मोहित जायसवाल एडवोकेट, प्रमेश माली सहित तमाम लोग तालाब के किनारे मौजूद रहे।

कांग्रेस जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने सरकार पर बोला हमला

कृष्ण कुमार पांडेय, समाज जागरण

बांसडीह (बलिया) : महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार की नाकामी को जनता के बीच ले जाने के प्रदेश नेतृत्व के आवाह्न पर शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष उमाशंकर पाठक व कांग्रेस नेता विद्याशंकर पांडेय द्वारा संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता कर केंद्र सरकार की नीतियों पर जोरदार हमला बोला गया। वार्ता के दौरान बीते दिनों गैस सिलेंडर की कीमतों में दो सौ रुपए कम करने के केंद्र सरकार के फैसले पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि जब कहीं उपचुनाव आते हैं तो केंद्र की सरकार जनता के बीच कुछ लोकलुभावन चीजें फेंकती है। ऐसे में बीते कुछ वर्षों में तीन गुने हो

चुकी गैस की कीमतों में दो सौ रुपये की कमी कर सरकार महंगाई के वास्तविक मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने में लगी है। जबकि आमजन की रसोई में बड़े पैमाने पर महंगाई का असर बना हुआ है। टमाटर से लेकर सब्जी व मसालों की कीमतें लोगों को रुला रही है। पेट्रोल डीजल से लेकर अन्य रोजमर्रा की जरूरतें आसमान छू रहीं हैं । सरकारी कार्यालय थाने तहसील भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए हैं। इनपर सरकार द्वारा कोई अंकुश नही लगाया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने आन जनता को यह याद दिलाना शुरू कर दिया है कि अच्छे दिनों की कल्पनाओं में खोकर हमारा वर्तमान भी नष्ट हो रहा है। सरकार के काला धन वापस लाने और स्विस बैंकों के खाताधारकों के नाम उजागर करने का वादा अब ठंडे बस्ते में जा चुका है।मौजूदा सरकार की महंगाई कम करने की नीति और नीयत दोनों संदेह के घेरे में हैं। इसी क्रम में कांग्रेस नेता विद्या शंकर पांडे ने कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस ने अपने चुनावी वायदों को तय समय में पूरा किया है। चाहे पुरानी पेंशन बहाल करने का मामला हो या किसानों की कर्जमाफी कांग्रेस ने जनता से किये अपने सभी वायदे पूरे किये हैं। इस दौरान। रामेश्वर तिवारी, दिग्विजय सिंह छोटू, मुखिया पांडे, गुड्डू पांडे, आदि कांग्रेस नेता उपस्थित रहे।

जिला अस्पताल में जन्मजात कटे होठ एवं तालु के मासूमों का इलाज

-निःशुल्क आपरेशन शिविर

-जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने किया उद्घाटन और प्रतिभाग

शशिकांत ओझा, ब्यूरो चीफ, समाज जागरण

बलिया : जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने जिला अस्पताल (पुरुष) में जन्मजात बच्चों के कटे होठ एवं तालु के निःशुल्क आपरेशन, परीक्षण एवं पंजीकरण हेतु लगे शिविर में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया और फीता काटकर शिविर का उद्घाटन भी किया। यह शिविर स्माइल ट्रेन संस्था द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किया गया था। यहां जिलाधिकारी एवं

पुलिस अधीक्षक द्वारा कमजोर बच्चों को पोषण के लिए खाद्य सामग्री किट का वितरण किया गया। जिलाधिकारी ने जीएस मेमोरियल ट्रस्ट वाराणसी के डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह एवं उनकी पूरी टीम को इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि बलिया जैसे दूर-दराज के जिले में शिविर लगाकर बच्चों का मुफ्त में इलाज करना और छोटे कमजोर बच्चों को पोषण के लिए जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना बड़े सौभाग्य की बात है। कहा कि जनपद के बहुत से माता-पिता बच्चों में इस प्रकार की समस्या को लेकर चिंतित रहते थे, उन्हें इस चिंता से निजात मिल सकेगी और इलाज के बाद उनका भी बच्चा दूसरे बच्चों की तरह सामान्य हो जाएगा। उन्होंने डॉक्टर साहब का आभार जताया और जरूरत पड़ने पर हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया। डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि यह सुविधा लगातार निःशुल्क कैंप के बाद भी मिलती रहेगी। पहले कभी भी हुए ऑपरेशन जैसे होंठ पर निशान, तालु में छेद, कटे मसूड़े, नाक एवं आवाज में सुधार लाने वाले बच्चों का भी मुफ्त इलाज होगा। कहा कि बलिया में लगभग 1000 बच्चों को हमने आपरेशन किया है। छोटे कमजोर बच्चों को पोषण की कमी को पूरा करने के लिए खाद्य सामग्री किट वितरण की जा रही है। उन्होंने वहां उपस्थित माता पिता से कहा कि हम लोग आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर है। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. जयंत कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी एवं स्माॅइल ट्रेन संस्था के डॉक्टर एवं उनकी पूरी टीम और बच्चों के अभिभावक मौजूद थे।

शहीदों को नमन करते हुए द मर्सी क्लब के लोगों ने किया प्रण

दिलीप कुमार जायसवाल ब्यूरो चीफ

जौनपुर। प्रांतीय अध्यक्ष एजाज हाशमी के आह्वान पर द मर्सी क्लब के सदस्यों ने शहर के हमाम घाट पर सरकार की मंशानुरूप चलाए जा रहे कार्यक्रम का अनुपालन किया। वरिष्ठ सदस्य शिक्षक कलीम सिद्दीकी की अध्यक्षता में हुये कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि "मेरा माटी मेरा देश" का अभियान अनवरत 13 सितंबर तक चलेगा। "मेरा माटी मेरा देश" अभियान राष्ट्र जागरण का अभियान है जिसके

अंतर्गत हम सभी को अपनी मिट्टी अपनी वसुंधरा का वंदन करते हुए देश के वीरों को नमन करना है और उनके सम्मान में हमें एक वृक्ष लगाकर अमृत वाटिका को सजाने का काम करना है। घर–घर जाकर एक चुटकी चावल अमृत कलश में संग्रह कर विकसित भारत के निर्माण के लिए पंच प्रण का संकल्प लेना है। मीडिया प्रभारी रियाजुल हक ने कहा कि यह कार्यक्रम शुद्ध रूप से सरकारी कार्यक्रम है। सभी को बढ़–चढ़कर हिस्सा लेना चाहिये। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद खालिक मंसूरी ने किया। कार्यक्रम का समापन नगर अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने किया। इस अवसर पर शमीमुल हसन, अजय दुबे, रितेश श्रीवास्तव, आफताब सिद्दीकी, मुस्तकिम अहमद, मनोज सेठ, जितेन्द्र, राजेश, फिरोज अहमद सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।

समझौते के लिए झुकना उचित है टूटना नहीं - फादर पी विक्टर

बिकास राय ब्यूरो चीफ गाजीपुर दैनिक समाज जागरण

अर्द्धवार्षिक परीक्षा के सुचारू संचालन हेतु बैठक

सेंट जॉन्स स्कूल,सिद्दीकपुर, जौनपुर की अर्द्धवार्षिक परीक्षाएँ 11 सितंबर से प्रारंभ हो रही हैं जिसमें लगभग 22 सौ विद्यार्थी भाग ले रहे हैं।परीक्षा के पूर्व प्रधानाचार्य फादर पी विक्टर ने शिक्षकों के साथ बैठक की और परीक्षा के कुशल संचालन हेतु अध्यापक-अध्यापिकाओं को निर्देशित किया।

बैठक की शुरूआत ईश-प्रार्थना से हुई।अध्यापिका जया मिश्रा एवं सिस्टर सावरी के नेतृत्त्व में शिक्षकों ने ईश्वर की वंदना की।प्रियंका श्रीवास्तव ने मिनट्स टू मिनट्स में पिछली बैठक के मुख्य बिन्दुओं का वाचन किया।विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर पी विक्टर ने स्वर्गीय विशप पैट्रिक डिसूजा के प्रसंग को साझा करते हुए कहा कि हर व्यक्ति महत्त्वपूर्ण है और उसका खयाल रखा जाना चाहिए।विद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम सबके द्वारा उनका खयाल रखा जाना चाहिए।फादर ने कहा कि समाज में रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है पर ध्यान रहे कि हम झुकें पर टूटे नहीं।हमें चाहिए कि हम दूसरों की भावनाओं की कद्र करें और मानवता के प्रति समर्पित रहें तभी शिक्षक की भूमिका निभा पाएँगे।

हर रोज लें संकल्प, करें पूरा, जरूर मिलेगी सफलता : असीम अरूण

-युवा संवाद

-टीडी कालेज में युवा संवाद कार्यक्रम में छात्रों से समाज कल्याण मंत्री की बातचीत

-सरकारी सेवा, उद्यमिता सहित कई क्षेत्र में सफलता के दिए बहुत ही अहम टिप्स

शशिकांत ओझा, ब्यूरो चीफ, समाज जागरण

बलिया : समाज कल्याण मंत्री असीम अरूण शनिवार को जनपद भ्रमण के दौरान अपना अधिकांश समय छात्र-छात्राओं को दिया। उन्होंने टीडी कालेज में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के साथ बातचीत की और उनको सफलता के तमाम टिप्स दिये। पढ़ाई व सफलता से जुड़े उनके सवालों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। पूर्व वरिष्ठ आईपीएस व मंत्री को एक अभिभावक के रूप में अपने साथ पाकर छात्र-छात्रा भी काफी उत्साहित दिखे। मंत्री श्री अरूण ने कहा कि आज तमाम युवाओं का रूझान

प्रतियोगी परीक्षाओं को पास कर सरकारी सेवाओं में जाने का है। यह अच्छी बात है, पर शत प्रतिशत बच्चे इसमें सफल नहीं हो सकते। ऐसे में उद्यमिता भी उनके लिए अच्छा विकल्प है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी व सीएम योगी की सरकार ने तरक्की के तमाम रास्तों को खोला है। शिक्षा, कौशल विकास व उद्यमिता को विकसित करने के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। युवाओं से कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की वेबसाईट पर जाकर अपने सुझाव जरूर दें। अगर कोई कमी होगी तो उसे भी पूरा किया जाएगा। संचालन कला शिक्षक इफ्तिखार खाँ ने किया। प्राचार्य सहित पूरा महाविद्यालय स्टाफ मौजूद थे।

काम सच्चा व पक्का हो तो जरूरी मिलेगी सफलता

मंत्री ने युवाओं से कहा कि जिस क्षेत्र में आपकी रूचि हो, उस क्षेत्र में सच्चा व पक्का काम होगा तो सफलता जरूरी मिलेगी। सच्चा, यानि ईमानदारी से तथा पक्का, यानि योजना बनाकर परिपूर्ण ढ़ंग से तैयारी करें तो बेहतर परिणाम आपके सामने होगा। यह भी कहा कि चाहे पढ़ाई हो, यातायात हो या सामाजिक जीवन, सबमें अनुशासन व कानून का अनुपालन अनिवार्य है।

माता-पिता व धरती मां की सेवा भी आपके संकल्पों में हो शामिल

मंत्री असीम अरूण ने युवाओं से कहा कि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर उसे पूरा करने के लिए हर रोज सुबह संकल्प लें कि आज क्या करना है, और सोने से पहले तक उसे पूरा करें। धरती मां की सेवा, यानि पर्यावरण संरक्षण और माता-पिता का सम्मान व सेवा भी आपके संकल्पों में जरूर शामिल हो। इससे आपको शांति व सुकून की अनुभूति होगी और इसका फायदा आपको पढ़ाई में भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाईन पढ़ाई से शिक्षा में अवसर की समानता सबको मिली है। वहां दुनिया के अच्छे से अच्छे अध्यापक मिल रहे है। यह सुखद परिवर्तन है। खासकर छोटी नगरों में बेहतर शिक्षा की चुनौती थी, जो इससे दूर हुई है। आज गांव में रहकर युवा लाखों के पैकेज की नौकरी कर रहे हैं।

पूर्व सांसद धनन्जय सिंह व एमएलसी बृजेश सिंह "प्रिंसू" ने 'द जौनपुर ब्रेकर्स' का किया उद्घाटन

जनपदवासियों के भारी मांग के चलते खुली दूसरी शाखा : रत्नेश व साजन

दिलीप कुमार जायसवाल ब्यूरो चीफ

जौनपुर। जिले की बेहतरीन एवं विश्वसनीय प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द जौनपुर ब्रेकर्स की एक और शाखा खुल गयी। यह शाखा नगर के टीडीपीजी कालेज निकट पुलिस चौकी के बगल में खुली है। इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन पूर्व सांसद धनन्जय सिंह व विधान परिषद सदस्य बृजेश सिंह ने फीता काटकर किया। द जौनपुर ब्रेकर्स प्रतिष्ठान के संचालक रत्नेश शर्मा एवं साजन शर्मा ने संयुक्त रूप से बताया कि ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रतिष्ठान में शुद्ध शाकाहारी केक, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री समेत अन्य उत्पाद निर्मित कर गुणवत्ता पर ध्यान रखते हुए विशेष प्रकार से तैयार किया जाता है। जनपदवासियों का हमारे प्रतिष्ठान के प्रति गुणवत्ता एवं स्वाद के साथ प्रेम और विश्वास को देखते हुये दूसरी प्रतिष्ठान का शुभारम्भ किया गया है। इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही।

अन्तर जनपदीय स्थानान्तरित शिक्षकों का वेतन अभिलंब जारी हो : अमित सिंह

दिलीप कुमार जायसवाल ब्यूरो चीफ

जौनपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ गोरखनाथ पटेल से पत्र देकर अंतर्जनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों का वेतन जारी करने की मांग किया। इस संदर्भ में श्री सिंह ने इन शिक्षकों की समस्याओं से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक को अवगत कराते हुए कई अन्य जनपदों में वेतन आदेश जारी होने का हवाला देते हुए अविलम्ब वेतन जारी करने की कहा। ज्ञात हो कि जनपद में 700 से अधिक शिक्षक/शिक्षिकाएं स्थानान्तरित होकर 2 जुलाई 2023 तक जनपद में कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। स्थानांतरण के फलस्वरूप शिक्षकों को लगभग

2 माह से वेतन बाधित होने से बैंक लोन ईएमआई व घरेलू खर्च, बीमारी सहित अन्य आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक अधिकांश शिक्षकों के एलपीसी सर्विस बुक तक पूर्व जनपद से आया नहीं है तथा इसके लिये आपके कार्यालय द्वारा और वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी पहल की सूचना प्राप्त नहीं हुई है जिससे स्थानांतरित शिक्षकों के मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन सेवा संबंधी पत्रावली का स्थानांतरण,

तेजी से मवेशियों में पांव पसार रही लम्पी बीमारी

डीके पांडेय, समाज जागरण

नगरा (बलिया) : क्षेत्र में तेजी से पांव पसार रहे लम्पी बीमारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विकास खंडवार पशु चिकित्सकों की टीम तैयार की गई है। यह टीम गांव-गांव घूम कर गोवंशीय पशुओं की लंबी बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण करेगी। इसकी जानकारी देते हुए डॉ बीएन पाठक ने बताया कि 8 सितंबर से टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो चुका है। जो 28 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान गांव-गांव घूम कर स्वास्थ्य विभाग की टीम गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण करेगी। उन्होने पशुपालकों से सरकारी पशुअस्पताल से इलाज कराने को कहा। जिससे पशुओ को कारगर दवा मिल सके।

तीन मामलों में दो का हुआ निस्तारण

गड़वार (बलिया) : स्थानीय थाना प्रांगण में प्रभारी निरीक्षक आरके सिंह की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया।
इस दौरान कुल तीन राजस्व संबंधी मामले के निस्तारण के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जिसमें से दो मामले का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष एक मामले के निपटारे के लिए मौके पर पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भेजी गई। इस दौरान क्षेत्रीय लेखपाल उपस्थित रह

दो अलग अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से पांच बकरियों व दो भैंसो की मौत

दैनिक समाज जागरण अतुल बाजपेई

खागा फतेहपुर खखरेरू थाना क्षेत्र में शनिवार की देर शाम हो रही बारिश के दौरान दो अलग-अलग जगहों पर आकाशीय बिजली गिरने से पांच बकरियों व दो भैंसो की दर्दनाक मौत हो गई ।

जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि शनिवार की शाम करीब 4 बजे के आसपास तेज हवाओं का झोंका आया और उसी दौरान जोरदार बारिश शुरू हो गई और मौसम ने करवट ली और धीरे-धीरे मौसम और बिगड़ता गया उसी दौरान गरज चमक भी शुरू हो गई उसी दौरान गड़गड़ाहट के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग-अलग स्थानों पर पांच बकरियां व दो भैंस की दर्दनाक मौत हो गई बताया जा रहा है कि खखरेरू थाना क्षेत्र के कोट गांव निवासी जागेश्वर की पांच बकरी जंगल में चरने गई हुई थी उसी दौरान बारिश शुरू हो गई फिर आकाशीय बिजली गिरी जिससे बकरी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई और उसकी मौके पर ही तड़प कर दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं खखरेरू थाना क्षेत्र के खखरेरू नगर पंचायत में आकाशीय बिजली गिरने से दो भैंसों की दर्दनाक मौत हो गई

जिला अधिकारी ने गौशाला का किया औचक निरीक्षण

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति ने ब्लॉक बहुआ के अयाह गौशाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौशाला में साफ सफाई व्यवस्था ठीक पाई गई। गौशाला में 404 गौवंश पाए गए। वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाए जा रही है। गौवंशो हेतु हरा चारा, भूषा, पशुआहार पर्याप्त मात्रा में पाया गया और शत प्रतिशत ईयर टैगिंग पाई गई। उन्होंने नियमित साफ-सफाई के निर्देश दिए। उन्होंने गौशाला की लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश संबन्धित को दिए। निरीक्षण के दौरान जिला विकास अधिकारी श्री प्रमोद सिंह चंद्रौल, नायब तहसीलदार सदर, प्रभारी पशु चिकित्साधिकारी बहुआ डा0 धर्मेंद्र सिंह, एडीओ पंचायत ग्राम प्रधान अयाह, सहित संबंधित उपस्थित रहे।

अनियंत्रित बैटरी रिक्शा पलटने से सवार हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर। जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड लक्ष्मी टॉकीज के समीप एक बैटरी रिक्शा अनियंत्रित होकर रोड पर पलट गया। जिससे रिश्ते पर सवार एक युवक नीचे दबकर घायल हो गया। पटना की जानकारी युवक के परिजनों को हुई तो तुरंत घटना स्थल पर आकर उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के शांती नगर मोहल्ला निवासी महेश कश्यप का 28 वर्षीय पुत्र रिंकू कश्यप बैट्री रिक्से पर सवार होकर किसी काम से जा रहा था। जैसे ही उसका रिक्शा कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड लक्ष्मी टॉकीज के समीप पहुंचा तभी अनियंत्रित होकर पलट गया। जिससे रिक्से पर सवार रिंकू कश्यप नीचे दबकर घायल हो गया। रिक्सा पलटने की जानकारी उसके परिजनों को हुई तो तुरंत घटना स्थल पर आए और उसको इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर घायल को भर्ती कर उसका इलाज कर रहे हैं।

छात्रा को अगवा कर रेप करने वाला का आरोपी गिरफ्तार

गैंगरेप का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर जिले के हथगाम थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिए कि छात्र जो कि विद्यालय से घर आते समय एक मुस्लिम युवक ने अपने साथियों के साथ मिल अपहरण करने के बाद नशीला पदार्थ सुंघाकर बलात्कार किया फिर उसका अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया पुलिस ने छात्रा के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की।

आपको बताते चलें 1 सितंबर को विद्यालय से घर वापस आ रही एक छात्रा जिसकी उम्र 21 वर्ष है जो स्नातक की पढ़ाई कर रही है उसको एक मुस्लिम युवक ने अपहरण कर बलात्कार करने की कोशिश की विरोध करने पर नशीला पदार्थ सूंघाकर बेहोश कर दिया बेहोश होने के बाद दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जानकारी होने पर पिता ने शुक्रवार को अपहरण व गैंग रेप जान से करने का मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद शाबान 19 वर्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई।

वही इस बारे में जब थाना अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने बताया कि थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति ने अपनी लड़की के साथ गैंगरेप की तहरीर दी है जिसमें नाम जद मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है

अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति मौत

दैनिक समाज जागरण

फिरोजाबाद। आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर थाना टूंडला क्षेत्र के गांव जरौली कट पर शनिवार की दोपहर अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई परिजन शवको बिना पोस्टमार्टम कराये ले गए हैं।

थाना लाइन पार के ढोलपुर निवासी 45 वर्षीय सुखबीर पुत्र रामेश्वर दयाल शनिवार की दोपहर बाइक द्वारा टूंडला की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह जरौली कट के समीप पहुंचा ही था कि तभीतेजगति से आ रहे एक अनियंत्रित वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी जिसके फल स्वरुप उसे गंभीर चोटें आईबाइक क्षतिग्रस्त हो गई चालक वाहन लेकर फरार हो गया इधर दुर्घटना देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई सूचना मिलते ही नेशनल हाईवे की एंबुलेंस मौके पर पहुंची हुआ उसे आनंद-फानन में उपचार के लिए सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर आई इधर परिजन भी सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंच गए चिकित्सक ने परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया परिजन सब को लेकर अनियंत्रले गए।

भारतीय किसान यूनियन की मासिक बैठक विजयीपुर ब्लॉक में हुई सम्पन्न

25 सितंबर को लखनऊ चलने के लिए जिला सचिव ने किया किसानों को जागरूक

दैनिक समाज जागरण अतुल बाजपेयी

खागा फतेहपुर विजयीपुर ब्लॉक में शनिवार की दोपहर भारतीय किसान यूनियन ने किसानों के साथ मासिक बैठक की । बैठक में भाकियू कार्यकताओं ने किसानों की समस्याएं सुनी । इस दौरान भारतीय किसान यूनियन ने संगठन को मजबूती देने के लिए तहसील के अधिकारियों व विजयीपुर ब्लॉक के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई

आपको बता दें कि शनिवार की दोपहर विजयीपुर ब्लॉक में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला सचिव छोटू सिंह परिहार ने किसानों के साथ बैठक आयोजित की । बैठक पर किसानों की समस्या जो कि अन्ना जानवरों की समस्या, सडक की समस्या, बिजली की समस्या, से जुड़ी रही । जिस पर भाकियू जिला सचिव छोटू सिंह परिहार ने किसानों की समस्या का जल्द ही निदान कराने की बात कही । इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला सचिव रणदीप सिंह व छोटू सिंह परिहार ने किसानों की समस्या को गभीरता से लेते हुए उन्होंने किसानों की समस्या का निदान कराने की बात कही है वहीं बैठक के आज भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन की मासिक बैठक में विजयीपुर ब्लॉक में कई बिन्दुओं पर चर्चा हुई है चर्चा के बीच जिला सचिव छोटू सिंह परिहार ने सभी किसान भाईयों को अपने अधिकार को लेने के लिए भी जागरूक किया और उन्होंने यह भी बताया कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश सिंह चौहान ने अपने किसान भाईयों के हित के लिए सरकार से कुछ मांग की है जिस मांग

को लेकर 25 सितंबर को लखनऊ में महापंचायत की घोषणा की गई है जिस पर सभी किसान भाई पहुंच कर सफल बनायें जिला सचिव छोटू सिंह परिहार ने बताया कि हमारे तीन प्रमुख मुद्दे

(1) फतेहपुर मे किसानों के लिए गन्ना मील
(2) सरकार ने जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम किसानों के नलकूपों का बिल माफ कर देगें
(3) अन्ना गौवंश से निजात

इन तीनों मुद्दों को लेकर सरकार से आमने सामने वार्ता की जायेगी बैठक के दौरान विजयीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदित्य त्रिवेदी किसानों के बीच आये आकर उन्होंने किसानों की समस्या सुनी समस्या को सुनते ही विजयीपुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आदित्य त्रिवेदी ने किसान भाईयों को आश्वासन दिया और कहा कि अगर किसी किसान भाई को कोई समस्या होती हैं और ब्लॉक का कोई कर्मचारी आपका फोन नहीं उठाता य आपका काम नहीं कर रहा है तो वह मुझसे मिलकर अपनी समस्या बताये अगर कोई ब्लॉक के किसी काम में आपसे पैसा मागता हैं तो मुझे अवगत कराये मैं उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लिखाऊगा चाहे वह ब्लॉक का कर्मचारी हो या आम कोई व्यक्ति साथ ही उन्होंने ने किसानों की समस्या देखते हुए यह भी ऐलान किया है कि जो व्यक्ति 5 गौवंश गौशाला लेकर उनको अपने घर पर रखकर उनकी सेवा करेगा उनको पालेगा लिखित रूप में उनको एक एक टीन सेड देने का काम किया जायेगा

वही जिला सचिव छोटू सिंह परिहार ने बताया कि अगर किसानों की समस्या हल नहीं होती हैं तो बहुत जल्द किसानों की समस्याओं को लेकर जल्द ही एक बड़ा आंदोलन होगा जिसमें किसानों की समस्या को लेकर शासन से मांग की जाएगी।

वही बैठक के दौरान जिला सचिव छोटू सिंह परिहार,तहसील उपाध्यक्ष सुदेश सिंह तहसील उपाध्यक्ष सत्यम सिंह भदौरिया, ब्लॉक अध्यक्ष चन्दभान सिंह ब्लॉक महासचिव राजेश दीक्षित, ब्लॉक सचिव अतुल बाजपेई व समस्त पदाधिकारी समेत भारी संख्या में किसान मौजूद रहे ।

भारतीय दोसर वैश्य महासमिति रजि ने पार्षद चौक पर झंडा गीत रचयिता पदम श्री श्यामलाल गुप्ता का 128 वां जन्मदिन मनाया गया

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर भारतीय दोसर वैश्य महासमिति रजि ने पार्षद चौक पर झंडा गीत रचयिता पदम श्री श्यामलाल गुप्ता का 128 वां जन्मदिन पार्षद मूर्ति स्थल पार्षद चौक में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया पार्षद मूर्ति पर माल्यार्पण कर झंडा गीत को पुणे पाठ पुस्तक में सम्मिलित करने की मांग की और जिला कारागार में महासमिति द्वारा भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिला कारागार अधीक्षक मोहम्मद अकरम खान ने पार्षद के चित्र पर माल्यार्पण किया गया तथा बंदी महिलाओं व बच्चों को मिठाई फल वितरित किए गए भारतीय दोसर वैश्य महा समिति द्वारा पार्षद चौक सिविल लाइन में झंडा गीत रचयिता पार्षद का गीत गया गया जिला अध्यक्ष नारायण बाबू ने बताया कि इनका जन्म जनपद कानपुर स्थित नरवल ग्राम में 9 सितंबर 18 96 को एक सामान्य परिवार में हुआ था मिडिल शिक्षा प्रथम श्रेणी एवं विषरत की डिग्री हासिल करने के उपरांत आपने अपना संपूर्ण जीवन देश की आजादी में समर्पित कर दिया तथा फतेहपुर जनपद को अपनी कर्म भूमि बनाकर यही से स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया इस अवसर पर प्रमुख रूप से विनोद कुमार गुप्ता साजन गुप्ता सुनीता गुप्ता जय गोपाल गुप्ता संजय गुप्ता सुनील गुप्ता नरेंद्र गुप्ता आनंद गुप्ता अजय गुप्ता अशोक गुप्ता रंजन गुप्ता मुकेश गुप्ता अरुण जायसवाल एडवोकेट शैलेंद्र शरण सिंपल नारायण वरदानी का कविता रस्तोगी संजय गुप्ता पवन गुप्ता रामस्वरूप गुप्ता दुर्गेश गुप्ता सहित अन्य लोक मौजूद रहे

पति-पत्नी के विवाद में पति ने खाया जहरीला पदार्थ

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर। जिले के राधा नगर थाना क्षेत्र के मटका गाँव मे किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। जिससे क्षुब्ध होकर पति ने घर के अंदर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी परिजनों को हुई तो तुरन्त घटना की सूचना सरकारी एम्बुलेन्स को दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेन्स पति को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जानकारी के अनुसार थानां क्षेत्र के मटका गाँव निवासी कृष्ण पाल का 23 वर्षीय पुत्र राम भवन का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। जिससे क्षुब्ध होकर पति राम भवन ने घर के अंदर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का प्रयास किया। जिसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई तो तुरन्त घटना की सूचना सरकारी एम्बुलेन्स को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेन्स राम भवन को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जहाँ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर भर्ती कर उसका इलाज कर रहे है। वही जिला अस्पताल पहुंची राम भवन की माँ दया वती ने बताया हम खेतो में काम करने गए थे। बहु बेटा घर पर थे उसी समय दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया तभी राम भवन ने जहरीला पदार्थ खा लिया। घर आने पर जानकारी हुई तो उसको इलाज के लिए यहाँ लेकर आये है।

श्री कृष्णा जन्ममोत्सव पर राधा नगर थाना परिसर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाकर बनाया गया गोकुलधाम

भक्ति के रस में डूबा राधानगर थाना

मुस्कान व नादान ने मिल भक्तों के दिलों में भक्ति की ज्योति जगाई

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर सभी जगह पर भव्य आयोजन किया गया जहां आपको बताते चले की शासन के दिशा निदेर्शानुसार जनपद फतेहपुर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन हुआ जहां इसी क्रम में जनपद में किसी न किसी खबर को लेकर हमेशा सुर्खियों पर रहने वाला थाना राधानगर में भी इस वर्ष थाना प्रभारी निरीक्षक राज किशोर सिंह के नेतृत्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया जहां आपको बताते चलें कि थाना राधानगर को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया

था जहां लगातार हुई बारिश के चलते भी प्रोग्राम फीका नहीं हुआ और शाम होते ही लोगों का जमावड़ा थाना परिसर में उमड़ने लगा। वहीं भजन कीर्तन के साथ एवं सुंदर-सुंदर झांकियां के साथ कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ व स्थानीय लोग तथा संभ्रांत लोगों ने इस आयोजन का लुत्फ उठाया तथा थाना प्रभारी राज किशोर सिंह की खूब सराहना किया। वही आपको बताते चलें कि थाना प्रभारी निरीक्षक राज किशोर सिंह के द्वारा वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना की गई तथा इस भव्य कार्यक्रम को सफल बनाने में थाना के समस्त पुलिस कर्मियों का भी सहयोग रहा। वहीं छोटी बच्ची मुस्कान शुक्ला की सुंदर झांकी सबका मन मोह लिया तथा कीर्तन मंडली में नादान की कीर्तनों को सभी लोगों ने सराहा। श्री कृष्णा जन्म के बाद लोग प्रसाद ग्रहण कर घर गए।

शववाहन हटवाने को लेकर प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर की महिला चिकित्सक ने गार्ड से की नोंक-झोंक

दैनिक समाज जागरण

फिरोजाबाद। मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर के समीप प्राइवेट महिला चिकित्सक ने अपनी गाड़ी निकलवाने को लेकर ड्यूटी पर तैनात गार्ड से की बदसलूकी

सरकारी ट्रामा सेंटर के सामने खड़े शव वाहन के पीछे प्राइवेट महिला चिकित्सक द्वारा अपनी गाड़ी के आगे से शव वाहन को हटवाने के लिये ट्रामा सेंटर पर ड्यूटी पर तैनात एक गार्ड से शव वाहन को हटवाने के लिये कहा, इसके जबाब में गार्ड ने उनसे कहा कि ड्राईवर कही चला गया है। इसी पर वह आग बबूला हो गयी और गार्ड से बुरी तरह से पेश आने लगी। तब गार्ड ने उनसे अन्दर जाकर चिकित्सक को बताने के लिये

पर जाकर चिकित्सक से पूछा क्या हो गया , उनसे भी वही तरीका अपनाने लगीं। इन्ही सब बातों की जानकारी के लिये मीडिया कर्मी जब रिकॉर्डिंग करने लगे तो, उनसे भी बदतमीजी करने के साथ उन्हें भी उल्टा सीधा कहने लगी। जब कि इस परिसर में इन प्राइवेट वाहनों के खड़े होने से काफी परेशानी का सामना आने वाले रोगियों की एम्बुलेन्स व अन्य वाहनों को होती है। जो यहाँ खड़ी कर अवैध पार्किंग बना देते है।

साक्षरता क्लब क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

समाज जागरण -बृजमोहन सिंह

फिरोजाबाद। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत निर्वाचन साक्षरता क्लब क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई।

डी.ए.वी इंटर कॉलेज फिरोजाबाद में प्रधानाचार्य डॉ उपेंद्र नाथ शर्मा एवं देवेंद्र कुमार शर्मा की देखरेख में सम्पन्न हुई। कॉलेज के शिक्षक पंकज दीक्षित एवं डॉ दीप चंद्र अग्रवाल द्वारा ही निर्वाचन साक्षरता क्लब क्विज प्रतियोगिता के लिए प्रश्नों को तैयार किए गए थे। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था,भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू हुआ था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है..... वगैरह सवाल शामिल थे। मालूम हो कि भावी व युवा मतदाताओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोडे रखने के लिए निर्वाचन साक्षरता क्लब क्विज

प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।इस अवसर पर ईएलसी के सहायक नोडल अधिकारी हिमांशु शर्मा ने छात्र-छात्राओं को निर्वाचन में वीवीपीएट,बीयू,सीयू, वोटर हेल्पलाइन एप भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका आदि 00के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। क्विज प्रतियोगिता में कक्षा 9 व कक्षा 10वी के काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में कुल 12 प्रश्न पूछे गए थे जो निर्वाचन से संबंधित थे। इस क्विज प्रतियोगिता के संचालन में अश्वनी सलोनिया,सीताराम सिंह,पंकज कुमार,राजपाल गौतम,राजेश शर्मा,संतोष कुमार चित्रारानी,मुकेश कुमार,अवनीश कुमार, आदि रहे।

बाबा बलखंडेश्वर धाम में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव धूम धाम से मनाया गया

दैनिक समाज जागरण जिला संवाददाता आशुतोष श्रीवास्तव

फतेहपुर। जन्माष्टमी का पर्व दो दिन मनाया जाएगा। दो दिन अष्टमी तिथि होने से छह और सात सितंबर दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। बाजारों में कृष्ण जन्म से जुड़े सामानों की दुकानें सज गई हैं। सजावट के लिए बांसुरी, झूला, इलेक्ट्रॉनिक झालरें, रंग बिरंगे कागज (अबरी) से दुकानें सजी हैं। दुकानों में मंगलवार को लोग सामानों की खरीदारी करते रहे। चौक के साथ ही जहानाबाद, बकेवर, बिंदकी, खजुहा,अमौली में दुकानें लगी हैं। मूर्ति दुकानदार ने बताया कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पीतल की मूर्ति की मांग बढ़ी है। तांना-पीतल के झूले और बांसुरी की भी बिक्री हो रही है।आचार्य सत्य नारायण मिश्रा ने बताया कि हमेशा से जन्माष्टमी का पर्व दो दिन मनाया जाता है। इस बार छह सितंबर को रोहिणी नक्षत्र और सप्तमी भेदी अष्टमी तिथि होने से गृहस्थों के लिए

जन्माष्टमी का व्रत रहना उत्तम रहेगा। वहीं सात सितंबर को मठ, मंदिरों में उत्सव मनाया जाएगा। हर वर्ष की भाती इस बार भी बाबा बलखंडेश्वर में भव्य जन्माष्टमी महोत्सव धूम धाम से मनाया गया। कमेटी के सदस्य विनीत मिश्रा उर्फ भोले मिश्रा ने बताया कि श्री कृष्ण की झांकी निकाली जाएगी और शंकर तांडव नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा । कानपुर से पार्टी जीएस मयूर ग्रुप को बुलाया गया है जो श्री कृष्ण और कई झाकियां निकाली जाएगी। कार्यक्रम में कमेटी के सदस्य विनीत मिश्रा, मनीष तिवारी, शिवम मिश्रा, नंदू मिश्रा, बल्लू मिश्रा, रवि मिश्रा, बड़कू विश्वकर्मा, बड़े विश्वकर्मा, रमेश तिवारी, दीपक सोनकर, राहुल सोनकर,राज सिंह, मन्दिर को सजाने संवारने वाली टीम मान सिंह यादव, ज्ञानेश्वर दुबे, सुरेन्द्र सिंह, राहुल इलेक्ट्रानिक, सुमित मिश्रा, संजीव तिवारी, शशिकांत तिवारी, महेश कश्यप।

तेज हवाओं से बिजली के दो जर्जर पोल गिरे, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे।

सेक्टर एन, महाराजा बिजली पासी किला के पास की घटना।

शुक्रवार दोपहर बाद करीब 1बजे की घटना।

अरुण सिंह समाज जागरण ब्यूरो लखनऊ।

लखनऊ।शुक्रवार दोपहर चल रही तेज हवाओं से पेड़ों की डालियां बिजली के तारों पर गिर गईं,जर्जर हो चुके बिजली के पोल भरभरा कर गिर पड़े,स्कूल छूटने का समय था,उधर से गुजर रहे बच्चे बाल बाल बच गए।

तारों और पेड़ों की डालियों के सड़क पर गिर जाने से रास्ता बाधित हो गया।

सेक्टर एन के रहने वाले धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि राजा बिजली पासी किला गेट के सामने से ही सेक्टर एन कॉलोनी के लिए सड़क गुजरती है। रोड के किनारे लगे पेड़ो की डालें गुजर रहे बिजली के तारों पर लटकी पोल भी बदले नहीं गए,सड़क पर गिर गए।

दुर्घटना कोई बड़ी होती इसके

हुई हैं।धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने उद्यान विभाग के शशिकांत को 2 महीने पहले इस समस्या से अवगत कराया गया था। लेकिन डालों को काटा नहीं गया। शशिकांत सिंह से बात हुई उन्होंने कहा कि मेरे पास मशीन की कोई व्यवस्था नहीं है। वहीं जर्जर हो चुके बिजली के जिम्मेदार कौन होता।

धर्मेन्द्र सिंह ने बताया कि वह अपनी बेटी को विद्यालय से वापस लेकर लौट रहे थे,ईश्वर की कृपा थी कि चपेट में नहीं आए।

बिजली विभाग के एसडीओ अंकित द्विवेदी को फोनकर सूचना दी,तब जाकर बिजली सप्लाई बंद हुई।

एम डी जैन में विद्यार्थियों ने G-20 के भव्य समारोह का देखा प्रसारण

दैनिक समाज जागरण

सिरसागंज। नगर के प्रतिष्ठित विद्यालय श्री एम. डी. जैन इंटर कॉलेज, सिरसागंज में ऋ20 के भव्य समारोह का प्रसारण प्रधानाचार्य एवं विद्यालय के प्रवक्ता, जिला विज्ञान क्लब, फिरोजाबाद के जिला समन्यवक अश्वनी कुमार जैन के संयोजन में दिखाया गया।

अश्वनी कुमार जैन ने विद्यार्थियों को बताया कि संरक्षण, सदभाव और उम्मीद को बेहतर बनाने में यह सम्मेलन विश्व में एक नींव का कार्य करेगा। इस सम्मेलन की मुख्य थीम वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर रखी गई है। इस समिट का प्रथम बार अपना देश मेजबानी कर रहा है। भारत ने ऋ 20 की अध्यक्षता में 60 स्थानों पर 200 से भी ज्यादा बैठकें आयोजित की गई हैं, जहाँ विकास को वैश्विक एजेंडे में प्राथमिकता प्रदान की गई। G-20 में 20 सदस्य देश, 9 अतिथि देश और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नेता और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख एक साथ इस सम्मेलन के

लिए नई दिल्ली में एकत्रित हुए हैं। जिनमें अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, इंग्लैंड, मैक्सिको, रूस, साउथ कोरिया, सऊदी अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर आदि प्रमुख हैं। विपुल जैन ने बताया कि G-20 की स्थापना ग्लोबल इकोनॉमी संकट को देखते हुए 1999 में हुई थी। संदीप जैन ने बताया कि इस सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। इसमें कृषि, भ्रष्टाचार, संस्कृति, डिजिटल, अर्थव्यवस्था, विकास, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं वित्त संबंधी मुख्य विषय रहेंगे। इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ नीरज जैन, सत्यपाल सिंह, राजीव जैन, ध्रुव कांत झा, परेश जैन, साधना मोडवेल, सुकीर्ति चतुर्वेदी, प्रीती जैन, सारिका कुलश्रेष्ठ आदि उपस्थित रहे।

महिला की हुई संदेहास्पद मौत, दहेज उत्पीड़न व हत्या के आरोप का मामला दर्ज

दैनिक समाज जागरण निशांत तिवारी जिला संवादादाता चतरा

चतरा(झारखंड)09 सितम्बर 2023:- जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के सराढु गांव में एक बच्चे की मां की संदेहास्पद मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। जहां मृतका के मायके वालों का लिखित शिकायत के आधार पर स्थानीय थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका राजकिशोर दांगी की पत्नी सुहानी उर्फ मनीषा की मौत को लेकर मृतका के पिता राजकुमार दांगी द्वारा टंडवा थाना में दिये गये आवेदन में मृतका के पति व सास-ससुर समेत छः लोगों पर दहेज के तौर पर चार लाख रुपए व मोटरसाइकिल की मांग को लेकर उत्पीड़न करने एवं गला दबाकर हत्या कर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं बताया गया कि साक्ष्य छुपाने के लिए आरोपियों ने मृतका के उपर जहरीले पाउडर डालकर आत्महत्या साबित करने का प्रयास किया है। सूत्रों की मानें तो घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गये हैं। बहरहाल,घटना के बाद स्थानीय पुलिस सूचना मिलते हीं घटनास्थल पर शव को पोस्टमार्टम के लिए चतरा भेजते के पश्चात अनुसंधान में जुट गई है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुवे सुसंगत धाराओं के तहत कांड संख्या 193/23 दर्ज कर जांच-पड़ताल किया जा रहा है। वहीं फरार आरोपियों के धड़-पकड़ के लिए हर संभावित जगहों में छापेमारी की जा रही है।

विनीता हत्याकांड का 24वें दिन हुआ खुलासा

दैनिक समाज जागरण, आशुतोष कुमार तिवारी ब्यूरो चीफ

मुआवजे की राशि व भरण पोषण के खर्च विनीता की हत्या का बना कारण

हत्या आरोपी प्रेमिका को मुंबई के अंबाला थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार

प्रेमी उपेंद्र ही निकला विनीता का हत्यारा

चतरा (झारखंड) 09 अगस्त 2023:- जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के मसुरिया गांव की विनीता देवी की हत्या का कारण उसके पुत्र की सर्पदंश से मौत के बाद मिली मुआवजा की राशि बनी। यहां तक की प्रेमिका विनीता देवी व उसके परिवार का भरण पोषण को लेकर प्रत्येक महीना खर्च उठाना भी उसे महंगा पड़ने लगा था। बताया जाता है कि दोनों के बीच पिछले 10 वर्षों से प्रेम प्रसंग चलते आ रहा था।इसी बीच वर्ष 2020 में प्रेमिका विनीता देवी के एक पुत्र की मौत सर्पदंश से हो गया था।सर्पदंश से मौत होने के कारण विनीता को सरकार द्वारा मुआवजा के तौर पर चार लाख रुपया मिलावथा। मुआवजे में मिली चार लाख की राशि विनीता ने अपने प्रेमी मसूरिया गांव के उपेंद्र यादव को दे दिया था।बाद में उपेंद्र व विनीता से दूरी बढ़ने लगी।इस बात को ले दोनों में विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया।विवाद बढ़ने के कारण विनीता ने प्रेमी से लगातार रुपए की मांग कर रही थी।इसी बात को ले उपेंद्र ने विनीत की हत्या का प्लान बनाया।नौ अगस्त को प्रेमी उपेंद्र यादव ने विनीता को हजारीबाग से बाइक पर बैठा कर गांगपुर का बनखेता जंगल लाया।दोनों के बीच विवाद बढ़ने पर वहां उपेंद्र ने विनीता की पहले हत्या

गला दबाकर कर दिया।शव को वहां छोड़ अपने घर मसूरिया लौट आया।इसके बाद शव की पहचान होने का ख्याल आने पर उसने घर से कुदाल और टांगी निकली और फिर घटनास्थल पर पहुंचा।उसके बाद उसने शव को मिट्टी में गाड़कर छिपा दिया।पुलिस को दिए स्वीकारोक्ति बयान में उक्त बातें सामने आई है।गुरुवार को थाना में आयोजित प्रेस-वार्ता में सिमरिया एसडीपीओ अशोक कुमार प्रियदर्शी ने हत्याकांड के सम्बंध में कई जानकारी दिया।उन्होंने बताया गिरफ्तार आरोपी थाना क्षेत्र के मसूरिया गांव के कुंजील यादव के पुत्र उपेंद्र यादव (28) है।इस कांड के उदभेदन में थाना प्रभारी कन्हैया कुमार यादव ने कड़ी मशक्कत किया है।उनके प्रयास से ही आरोपी को मुंबई के अंबोला थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया।हत्याकांड का खुलासा घटना के 24 वें दिन कर लिया गया।उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के अलावे शव को छुपाने में प्रयुक्त एक कुदाल,एक टांगी,एक बाइक भी बरामद किया गया।उन्होंने बताया कि आरोपी में घटना में संलिप्तता स्वीकार कर लिया है।नौ अगस्त को विनीता की हत्या कर दी गई थी।हत्या के बाद आरोपी अपना मोबाइल बंद कर फरार हो गया था।उसने 14 अगस्त को हटिया से ट्रेन पकड़ी और मुंबई चला गया।15 अगस्त की शाम ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मिट्टी में गड़ा शव बरामद किया था।

बरमसिया में ट्रेन से कटकर युवक की मौत

दैनिक समाज जागरण

धनबाद : बरमसिया में ट्रेन में कटकर युवक की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक कचरा चुन रहा था। इसी दौरान ट्रैक पर पीछे से जम्मूतवी एक्सप्रेस आ गई। ट्रेन के आने की भनक तक उसे नहीं लगी और वह उसकी चपेट में आ गया।

सामाजिक संस्था "समर्पण एक नेक पहल" द्वारा पश्चिम बंगाल में गंभीर मरीज को दुर्लभ रक्त समुह बी नेगेटिव उपलब्ध करा कर बचाई जान

दैनिक समाज जागरण धनबाद झारखंड

ना मौसम, ना जगह, ना जात देखा करते हैं
हम रक्त दानी हैं बस हालात देखा करते हैं

"समर्पण एक नेक पहल" संस्था के संरक्षाक के पहल पर एक 62 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर मरीज को दुर्लभ रक्त समुह बी नेगेटिव उपलब्ध कराई गई ' दिनाँक 09/09/2023 दिन शनिवार को संस्था को सूचना प्राप्त हुई कि कुल्टी, आसनसोल वेस्ट बंगाल स्थित आस्था हॉस्पिटल में एक 62 वर्षीय बुजुर्ग नाम रामप्रसाद मल्लाह भर्ती हैं जिनके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो गई हैं और इनका रक्त समुह भी अत्यंत दुर्लभ में से एक हैं बी नेगेटिव घर वाले रक्त नहीं मिलने के कारण काफी परेशान हैं कृपया इनकी मदद करें ' सूचना प्राप्त होते ही संस्था के संरक्षक मनोज मंडल ने रक्तवीर राजू सिन्हा से अपना दुर्लभ रक्त समुह बी नेगेटिव दान करने का आग्रह किया जिसके पश्चात रक्तवीर राजू सिन्हा मैथन से एस.डी ब्लड बैंक आसनसोल पहुँचकर रक्तदान किया और मरीज रामप्रसाद मल्लाह जी को दुर्लभ रक्त समुह बी नेगेटिव दान कर मरीज को जीवनदान देने का ईश्वरीय कार्य किया

जिला खनन विभाग का गोविंदपुर और धनबाद में छापा..बालू और स्टोन चिप्स के अवैध खनन और परिवहन से जुड़े सात गाड़ियों को किया जब्त, लगा जुमार्ना

दैनिक समाज जागरण

धनबाद :उपायुक्त वरुण रंजन के निर्देश पर आज शनिवार की अहले सुबह जिला जिला खनन विभाग द्वारा गोविंदपुर और धनबाद थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई जहां बालू व पत्थर के अवैध खनन और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े विभिन्न बालू गाड़ियों और स्टोन चिप्स की गाड़ियों को पकड़ा गया

खान निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक द्वारा औचक छापेमारी में बालू लदे तीन 407, एक हाईवा ,वहीं गोविंदपुर थाना क्षेत्र में स्टोन चिप्स लदा दो हाईवा और एक बालू लदा ट्रैक्टर को जप्त किया गया इन सभी गाड़ियों से जुमार्ना वसूली की कार्रवाई की जाएगी..

धनबाद माइनिंग विभाग के खान निरीक्षक विनोद बिहारी प्रमाणिक ने मीडिया को बताया कि अवैध खनन व परिवहन से जुड़े कुल 7 गाड़ियों को जप्त की गई है..

आगे भी बालू और पत्थर के अवैध कारोबार से जुड़े माफियाओं पर कार्रवाई जारी रहेगी..हालांकि छापेमारी के दौरान गाड़ी छोड़कर वाहन चालक फरार हो गया..ऐसे में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई .. सभी गाड़ियों को थाने के हवाले कर दिया गया है..गाड़ी के नंबर के आधार पर इनके मालिको की पहचान की जायेगी.

मदर टेरेसा उच्च विद्यालय सिंदरी में प्रथम सावधिक परीक्षा का परीक्षाफल घोषित

दैनिक समाज जागरण

बलियापुर।सिंदरी सी. सी. प्रबंधन द्वारा बच्चों के बीच पुरूस्कार वितरित किया गया। जिसमें समाजसेवी श्री अंबुज कुमार मंडल एवं ए. सी. सी, सी. एस. आर श्री पांडे जी उपस्थित थे। पुरूस्कार वितरण प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करनेवाले को दिया गया। कक्षा पंचम से प्रथम रिशु सिंह, द्वितीय अंतरा कुमारी, तृतीय शिवानी कुमारी थी। कक्षा षष्ठ से प्रथम मौ. फैजन अंसारी, द्वितीय अर्नव कुमार, तृतीय अनीश कुमार यादव थे। कक्षा सप्तम से प्रथम पायल कुमारी, द्वितीय जानवी कुमारी तृतीय रानी कुमारी थी। कक्षा अष्टम से अनुभव कुमार प्रथम, द्वितीय इन्द्रजीत कौर, तृतीय जैस्मीन कुमारी रही। कक्षा नवम से सागर मरांडी प्रथम, द्वितीय अदिति कुमारी दुबे, तृतीय विनीता कुमारी

रही। कक्षा दशम से प्रथम प्रिया कुमारी, द्वितीय पुतुल कुमारी तथा तृतीय सुहानी कुमारी रही। विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री राधेश्याम प्रसाद ने सभी बच्चों को आशीष देते हुए अच्छा करने के लिए प्रेरित किया विद्यालय प्रबंधक ने सर्वाधिक अंक लाने वाले कक्षा नवम के सागर मरांडी का एक साल का विद्यालय शुल्क माफ कर दिया। जिसका स्वागत विद्यालय प्रबंधन के साथ-साथ सभी अभिभावक ने भी किया। विद्यालय परिवार की ओर से रूपक ठाकुर, उमेश सिन्हा, उत्तम गोराई, महेश चौहान, राजेश कुमार, रमेश मंडल, प्रिया कुमारी तथा प्रियंका कुमारी उपस्थित थीं। प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करनेवाले विद्यार्थियों के अभिभावक भी मौजूद थे।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मुखिया ने पंचायत सभागार में की बैठक

दैनिक समाज जागरण घनश्याम पाठक ब्यूरो चीफ

हजारीबाग (झारखंड) 9 सितंबर 2023 :- बिष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत सारुकुदर पंचायत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पंचायत सभागार भवन में बैठक की गई । बैठक की अध्यक्षता मुखिया उत्तम कुमार महतो ने की , जिसमें लोगों को बताया कि खाद्य आयोग नियमावली के अधीन जन वितरण प्रणाली के खदान वितरण , मध्यान्ह भोजन योजना अंतर्गत विद्यालयों में मेनू के हिसाब से दिया जाना चाहिए । बाल विकास योजना द्वारा बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर हॉट कुक मिल के रूप में नाश्ता एवं दिन का उत्तम भोजन दिया जाता है । साथ ही पूरक पोषाहार वाली पौच रेडी टू ईट वितरण प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की जानकारी भी दी गई , जिसमें सभी वार्ड सदस्य को विस्तार से अपने-अपने क्षेत्र में निगरानी रखने को कहा गया । और समय-समय पर पोषण आहार वितरण मध्यान्ह भोजन ,पूरक पोषाहार वितरण की निगरानी करने की बात कही गई , बैठक में रोजगार सेवक वार्ड सदस्य मुकेश सिंह उर्मी देवी करमाली अंसारी ललिता देवी रीना देवी रेशमी देवी कुंती देवी सोमवार साहू एवं किसान मित्र फूलचंद महतो उपस्थित थे।

डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के लोगों ने जीत के बाद गदगद होकर पूरे जिले भर में निकाला विजय जुलूस

दैनिक समाज जागरण , घनश्याम पाठक , ब्यूरो चीफ

गिरिडीह (झारखंड)9 सितंबर 2023 :- गिरिडीह जिले के डुमरी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के सभी दलों के जुगलबंदी आया काम जीत के बाद अपने-अपने क्षेत्र में खुशी से निकाले विजय जुलूस , और मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर किया। बताया जाता है कि चुनाव के बाद सभी इंडिया गठबंधन के राजनीतिक कार्यकताओं की जीत के बाद खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा । बेबी देवी ने 17156 मतों से विजई दर्ज करने वाले अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और एनडीए प्रत्याशी ज यसोदा देवी को जिस अंतर मतों से पराजित करने में सफल रही उससे यह स्पष्ट हुआ कि डुमरी की जनता का मूड भांपने में

एनडीए नाकाम रही , जेएमएम प्रत्याशी मंत्री बेबी देवी को 1 लाख 231 वोट मिले जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आजसू प्रत्याशी यसोदा देवी को 83000 75 वोट पर ही संतुष्ट होना पड़ा , बताया जाता है कि इस चुनाव में दोनों गठबंधनों के नेताओं ने खूब जोर आजमाइश लगाया था । नतीजा स्पष्ट होते ही जीतने वाले प्रत्याशी के पक्षकार खुशी के मारे झूम उठे और गिरिडीह के सदर विधायक सोनू सिंह के साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता माले के कार्यकर्ता सभी इंडिया गठबंधन के लोग अपने-अपने क्षेत्र में विजय जुलूस निकालकर अबीर गुलाल के साथ पटाखे फोड़े , एवं मिठाइयां बांटी गई

हेंठली बोदरा मॉडल आंगनवाड़ी एवं प्री नर्सरी स्कूल का उद्घाटन किया गया

दैनिक समाज जागरण घनश्याम पाठक ब्यूरो चीफ

हजारीबाग (झारखंड) 9 सितंबर 2023 :- बिष्णुगढ़ प्रखंड के अलपिटो पंचायत अंतर्गत हेंठली बोदरा ऊपर आंगनवाड़ी केंद्र एवं प्री नर्सरी स्कूल का विधिवत उद्घाटन विष्णुगढ़ प्रमुख जैबुन निसा , जिला परिषद सदस्य शेख तैयब , पंचायत समिति सदस्य घनश्याम पाठक के द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया । उद्घाटन के बाद सभी बच्चों के बीच आंगनवाड़ी केंद्र के ड्रेस , जूता , पढ़ने वाली सामग्री , किट लोगों को अपने हाथों से वितरण किया । अतिथियों ने अपने संबोधन में बच्चों के अभिभावकों को कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि गांव घर के बच्चे भी प्राइवेट

स्कूलों की तरह बचपन से ही सज धज कर अच्छे पढ़ाई पर ध्यान दें।और यह महसूस नहीं करें कि हम तेज नहीं हो सकते हैं सरकार इस ख्याल से लोगों के बीच तमाम तरह के सामग्रियों का वितरण कराती है । माताएं जो भी हैं नित्य दिन अपने - बच्चों को साफ सफाई करते हुए बच्चों को आंगनबाड़ी अवश्य भेजें , साथ ही सरकारी कार्यक्रमों में रुचि लेकर सभी प्रकार से लाभ लें । प्रमुख प्रतिनिधि विलाल जी , सेविका ममता देवी, लीलावती देवी सहायीका , जिबाधन यादव , मनोज यादव, शंकर यादव , शेखर कन्याल,रोहित यादव समेत इस अवसर पर गांव के भी गनमान्य लोग उपस्थित थे।

विद्युत महाप्रबंधक से मिलकर गोविंदपुर पंचायत के 11 हजार पावर के तार को बदलने की मांग की गई

दैनिक समाज जागरण घनश्याम पाठक ब्यूरो चीफ

हजारीबाग (झारखंड) 9 सितंबर 2023:- विद्युत महाप्रबंधक सह मुख्य

अभियंता श्री अशोक कुमार सिन्हा हजारीबाग से मिलकर कोनार फीडर बनासो से गोविन्द पुर 11 हजार '५ का तार और पोल को बदलवाने को लेकर जनप्रतिनिधियों ने आवेदन देकर मांग किया , जिसमें उपप्रमुख विष्णुगढ़ सरयु साव, विष्णुगढ़ सांसद प्रतिनिधि श्री मधुसूधन प्रसाद, हजारीबाग सांसद प्रतिनिधि सुरेश जी एवं गोविन्द पुर के सभी गणमान्य पूर्व मुखिया श्री तिलक साव,श्री अंतु पंडित, महेश महतो,पूर्व उपमुखिया तिलेश्वर साव, मुकेश कुमार, दशरथ महतो, संजय महतो, तुलसी महतो, नासिर अंसारी,वकील सिंह, लोकनाथ महतो,नागेश्वर महतो।महा प्रबंधक के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्या का समाधान करने हेतु ,सहायक अभियंता को बुला कर बात कर आश्वासन दिया गया कि पुराने विजली तार पोल को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर ठीक किया जाएगा।

अखिल भारतीय किसान महासभा ने कोडरमा में संकल्प सभा रैली की तैयारी को लेकर खेशनदरो में बैठक की

दैनिक समाज जागरण घनश्याम पाठक ब्यूरो चीफ

गिरिडीह(झारखंड) 9 सितम्बर 2023 :- गावां प्रखंड अंतर्गत गदर पंचायत के ग्राम खेशनदरो में अखिल भारतीय किसान महासभा की बैठक सम्पन्न हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा माले जिला कमिटी सदस्य सकलदेव यादव एवं संचालन अयोध्या यादव ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता सह धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव जी उपस्थित थे। बैठक में अगामी 19 सितंबर को अखिल भारतीय किसान महासभा की कोडरमा में संकल्प सभा रैली को ऐतिहासिक बनाने को लेकर रणनीति बनाई गई। जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से पुरे हिन्दुस्तान में लोग त्राहिमाम कर रहें हैं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धनवार पूर्व विधायक सह कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता राजकुमार यादव ने कहा की 70 साल आजादी के बाद भी किसानों तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।मोदी के जुमलेबाजी से

छात्र छात्राओं,किसान,मजदूर युवा पीढ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहें है।आज पूरे हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने गरीबों का राशन कटौती कर फिर से गरीबों को भूख मरी का संकट पैदा हो गई हैं। सिर्फ चुनाव जितने के लिए मोदी जी हिन्दु-मुस्लान करके लड़ाने का काम करतें है।जिसको समाज,देश,मणिपुर की परवाह नहीं हो सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह करता हो ऐसे लोगों को एक पल भी सरकार में रहने का अधिकार नहीं हैं। इसलिए इस बार आगामी चुनाव में मोदी सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है।जनता इस बार बीजेपी मोदी सरकार को मुंहतोड़ जबाव देगी। कार्यक्रम में ब्रांच सचिव अयोध्या यादव, प्रदीप यादव,राजेंद्र यादव,विजय यादव,दीपेंदर यादव ,सुनील यादव,संजय यादव,सुरेश यादव, खोशी राय,अजय यादव,जितेंद्र यादव,मदन यादव, मनोज यादव, विजेंद्र यादव ,सोहन महतो, सम्मेत दर्जनों लोग उपस्थित थे।

जी-20 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आज दिल्ली में आरंभ

जी-20 सदस्य देशों की प्रथम महिलाओं और वहां के राष्ट्राध्यक्षों के जीवनसंगियों ने आज पूसा स्थित आईएआरआई परिसर में अपने तरह की एक अनोखी प्रदर्शनी का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसका आयोजन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने किया था। इस कार्यक्रम में तमाम मनभावन पहलुओं को शामिल किया गया था, जैसे प्रसिद्ध शेफ कुणाल कपूर, अनाहिता धोंडी और अजय चोपड़ा द्वारा मिलेट आधारित लाइव कुकिंग सेशन। इसके साथ ही भारत के अग्रणी स्टार्ट-अप्स की अत्याधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को भी प्रदर्शित किया गया तथा भारतीय महिला कृषि-दिग्गजों के साथ बातचीत व ह्यएग्री-स्ट्रीटह्न की भी व्यवस्था की गई थी।

राष्ट्राध्यक्षों के जीवनसाथी प्रदर्शनी क्षेत्र पहुंचे, तो वहां प्रवेश करने के पहले उन्होंने ह्यरंगोली क्षेत्रह्न में संक्षिप्त दौरा किया। उस स्थान पर दो विशाल ह्यमिलेट रंगोलीह्न बनाई गई थीं। इस सुंदर कलाकृति को मोटे अनाज और स्थानीय चित्रांकन से तैयार किया गया था। पहली रंगोली की विषयवस्तु ह्यहार्मनी ऑफ हार्वेस्टह्न पर आधारित थी, जिसके जरिये भारत की चिरकालीन कृषि परंपराओं को उजागर किया गया था। इसके माध्यम से भारत की कृषि-शक्ति को प्रदर्शित किया गया था तथा खेती की उपादेयता बढ़ाने में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया गया था। स्वदेशी खिलौनों की सजावट की गई थी, जो खेती में महिलाओं के विविध योगदानों को प्रतीकों के माध्यम से पेश करते थे। साथ ही पोषक अनाजों और टेराकोटा से बने ग्रामीण बर्तनों की भी प्रस्तुति की गई थी। इनके कारण रंगोली अत्यंत मनमोहक बन गई थी और वह कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण थी। दूसरी रंगोली भारत के सांस्कृतिक दर्शन झ ह्यवसुधैव कुटुम्बकम्ह्न को प्रतिध्वनित कर रही थी, जो वैश्विक एकता का परिचायक है। भारत एक प्रमुख कृषि देश होने के नाते, वैश्विक खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिहाजा, दूसरी रंगोली एकता और निर्वाह व पोषण के प्रति भारत के संकल्प को दर्शाती है।

प्रदर्शनी क्षेत्र में राष्ट्राध्यक्षों के जीवनसाथियों ने उत्कृष्ट कृषि स्टार्ट-अप की इको-प्रणाली को देखा, जहां 15 कृषि स्टार्ट-अप्स ने जमीनी स्तर पर चुनौतियों का मुकाबला करने तथा कृषि का डिजिटलीकरण करने के बारे में अपने नवाचारी प्रौद्योगिकीय समाधानों को पेश किया था। जलवायु स्मार्ट खेती, कृषि मूल्य-श्रृंखला में नवोन्मेष, कृषि-लॉजिस्टिक्स व आपूर्ति श्रृंखला, सतत खपत के लिये गुणवत्ता आश्वासन और पोषक अनाजः अच्छे स्वास्थ्य को कायम रखना, कृषि को अधिकार-सम्पन्न बनाना जैसे कुछ विषय प्रदर्शनी में शामिल किये गये थे। इसके अलावा, देशभर के किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के तमाम सदस्यों ने बड़े पैमाने पर खाद्य उत्पादों को पेश किया था, जिन्हें पूरे देश में बेचा जाता है। यह गतिविधि ह्यसामूहिक कृषि के माध्यम से ग्रामीण समृद्धि को सक्षम बनानाह्न वाली विषयवस्तु के अनुरूप आयोजित की गई थी।

मनभावन ह्यलाइव कुकिंग सेशनह्न में भिन्न-भिन्न प्रकार के मोटे अनाजों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों को पेश किया गया था। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के अनुरूप आयोजित किया गया था। इसमें तीन जाने-माने शेफ झ कुणाल कपूर, अनाहिता धोंडी और अजय चोपड़ा झ ने योगदान किया। इनके साथ आईटीसी ग्रुप के दो खानपान विशेषज्ञ शेफ कुशा और शेफ निकिता भी थीं। निर्धारित ह्यप्रत्यक्ष पाक कला क्षेत्रह्न में इन पांचों शेफों ने एक ह्यफुल कोर्स मीलह्न तैयार किया, जिसमें मोटे अनाजों को केंद्र में रखा गया था। व्यंजनों की इस श्रृंखला में एपीटाइजर, सलाद, मेन कोर्स और मीठे खाद्य पदार्थों को शामिल किया गया था।

शेफ अनाहिता, शेफ कुणाल और शेफ अजय ने स्टार्टर, मेन कोर्स और डेसर्ट की तैयारी करने का काम पूरी जिम्मेदारी से निभाया। मिसाल के लिये, शेफ अनाहिता ने कच्चे केले और बाजरे की टिक्की बनाई और उसके ऊपर चौलाई के पत्तों से सजावट की। इसके साथ ही शेफ कुणाल ने ज्वार-खुंबी का स्वादिष्ट खिचड़ा पकाया। और, अंत में शेफ अजय ने अनेक मोटे अनाजों से बने मुख्य व्यंजन पेश किये, और फिर मिलेट का बना ठेकुआ व नींबू श्रीखंड से बना मिष्ठान्न तैयार किया। प्रदर्शनी के भीतर, खानपान को समर्पित एक स्थान रखा गया था,

एनटीपीसी में नये परियोजना प्रमुख ने दिया योगदान

दैनिक समाज जागरण निशांत तिवारी जिला संवादादाता चतरा

चतरा(झारखंड)09 सितम्बर 2023:- जिले के टंडवा क्षेत्र के नाथ करनपुरा ताप विद्युत परियोजना (एनटीपीसी) के टंडवा ईकाई में शुक्रवार को परियोजना महाप्रबंधक के तौर पर स्वप्नेंदु कुमार पांडा द्वारा योगदान देने के बाद कंपनी

के तमाम अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया । बताया गया कि टंडवा ईकाई में योगदान देने से पूर्व पतरातु में वे पहले प्रोजेक्ट महाप्रबंधक के तौर पर कार्यरत थे। वहीं नव नियुक्त महाप्रबंधक श्री पांडा ने अपने सहयोगी अधिकारियों व कर्मियों के बीच प्रसन्नता जाहिर करते हुवे एनटीपीसी परियोजना की उन्नति व अपने हितधारकों के अपेक्षाओं पर शत-प्रतिशत खरा उतरने का भरोसा दिलाया।

बेडलॉक के पसेक हाइवा के चपेट में आने से सीआरपीएफ का गाड़ी पलटी, कई घायल, दो जवान के कमर में लगी ज्यादा चोट

दैनिक समाज जागरण

इस दुर्घटना की जानकारी वहीं के समाजसेवी गौतम कुमार मंडल ने दी धनबादः बरवाअड्डा के पास जीटी रोड किनारे स्थित बेडलॉक रिसोर्ट के पास सीआरपीएफ के वाहन पलट गया जिसके कारण कई घायल हो गए। दो लोगों के कमर में चोट है जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है।

बताया जाता है कि यह गाड़ी कोलकाता की ओर से आ रही थी जो राँची जा रही थी।

इसी बीच भीतिया के आगे बेडलॉक रिसोर्ट के आस पास पहुंची एक हाइवा के चपेट में आने के कारण दुर्घटनाग्रस्त ही गयी।

विदित हो जीटी रोड में गाड़ी के रफ्तार में कोई कंट्रोल नही होने, ठीकेदारों और एनएचआई की लापरवाही के कारण पिछले एक सफ्ताह में कई दुर्घटना हुई जिसमें कई लोगों की जान गई।

पिछले दिन कालाडीह मोड़ पर एक

कोयले से लदी ट्रक पलटने से दो लोगों की जान गई।आज कौआ बांध में सड़क दुर्घटना में भीतिया निवासी की मौत हो गयी और अब भीतिया से आगे यह दुर्घटना हुई जिसमें कई जवान घायल हुए।

सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल

दैनिक समाज जागरण,आशुतोष कुमार तिवारी ब्यूरो चीफ

चतरा (झारखंड) 09 सितम्बर 2023:- जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के करमा पुल पर पाण्डेयपुरा की ओर से आ रहे होंडा साइन बाइक पुल के किनारे में लगे लोहे के बैरिकेटिंग में जा टकराया और बाइक सवार युवक पुल के नीचे जा गिरा जिसे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।मौके पर उपस्थित लोगों ने एम्बुलेंस को बुलाकर ईलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र हंटरगंज भेजा।घायल युवक प्रतापपुर प्रखंड के मदकोमा गाँव के पचु यादव पिता रमन यादव है।मिली जानकारी के अनुसार घायल युवक पाण्डेयपुरा शनिचरी बाजार से अपने घर मदकोमा जा रहा था।

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के जनता दरबार में दर्जनों लोगों ने बताई समस्याएं, ऑन द स्पॉट कई समस्याओं का हुआ समाधान

नंदा रजक समाज जागरण
प्रखण्ड संवाददाता पटमदा

पटमदा : कांग्रेस के पटमदा प्रखंड कमेटी की ओर से शनिवार को 11 बजे से पटमदा के डाकबंगला परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याओं को रखा। जबकि ग्राम प्रधान संघ की ओर से 11 सूत्री मांगपत्र अध्यक्ष बृंदावन दास, सुधीर चन्द्र टुडू , फूलचांद महतो, मृत्युंजय महतो व काशीनाथ महतो आदि ने सौंपा।

लेकड़ो से आये लुबा राम मुर्मू ने मंत्री के समक्ष अंचल कर्मचारी के खिलाफ जमीन का ऑनलाइन के नाम पर डेढ़ हजार रुपये घूस मांगने की शिकायत की गई। मौके से मंत्री सीओ चंद्रशेखर तिवारी को फोन करते हुए अगले दो दिनों के अंदर काम करने का निर्देश दिया।

एसएफसी गोदाम के मजदूरों ने ग्राम प्रधान शम्भू दास के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपकर उन्हें काम नहीं मिलने की शिकायत की जिसपर मंत्री ने विभागीय सचिव से बात करते हुए समाधान का निर्देश दिया। लावा निवासी एक मरीज को रिम्स में बेड उपलब्ध कराने के लिए मंत्री ने वहां डीएस को निर्देश दिया। टेट सफल सहायक अध्यापक संघ की ओर से तापस हालदार व पंचानन महतो ने समायोजन की मांग पर ज्ञापन सौंपा। जिला पार्षद खगेन चंद्र महतो ने बंगाल सीमा से सटे स्वास्थ्य उपकेंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। प्रखंड मुख्यालय में दीदी कैफे का संचालन करने वाली लावा निवासी साबित्री सिंह ने कहा

कि कोविड के दौरान टीकाकरण कर्मियों के लिए भोजन का पैकेट दिया था जिसमें 4 लाख रुपये की बकाया राशि का भुगतान 3 वर्ष बीतने के बावजूद नहीं हुआ है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को कोविड का बकाया 100 करोड़ रुपये की मांग की गई है जो अब तक नहीं मिला है। उन्होंने धैर्य रखने की सलाह देते हुए भुगतान का आश्वासन दिया। कोविड का वैक्सीन ढोने वाले कर्मियों ने भी करीब ढाई लाख रुपये बकाया राशि का भुगतान की मांग की।

बोड़ाम थाना प्रभारी के पूर्व चालक लक्ष्मण महतो ने थाना प्रभारी धनंजय बैठा के खिलाफ शिकायत की जिसमें मंत्री ने थाना प्रभारी से फोन करते हुए उसे दुबारा काम पर रखने को कहा। इस दौरान कई और लोगों ने समस्याएं रखीं जिसके समाधान का आश्वासन दिया गया। मंत्री ने कहा कि जनता के लिए मंत्री बने हैं और हेमंत सोरेन सरकार में जनता का काम करने के लिए ही विभिन्न जगहों पर जनता दरबार आयोजित कर लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसके समाधान का प्रयास कर रहे हैं।

मौके पर जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे, कांग्रेस नेता मौलाना अंसार खान, खगेन चंद्र महतो, मोहनलाल बनर्जी, किशनलाल महतो, विश्वामित्र दास, जिला पार्षद प्रदीप बेसरा, पूर्व पार्षद स्वपन कुमार महतो, विधायक प्रतिनिधि चंद्रशेखर टुडू, अश्विनी महतो, अश्विनी दास, बलराम महतो के अलावे पटमदा सीएचसी प्रभारी डॉ. क्रिष्टोफर बेसरा, डॉ. सौमेन कुमार दत्ता व डॉ. प्रशांत कुमार आदि मौजूद थे।

प्रकृति के आराधना का त्यौहार पर विशेष : आस्था, प्रकृति संरक्षण व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है करम पर्व

फुलचांद पारित, समाज जागरण,
प्रखंड संवाददाता, नीमडीह

नीमडीह (झारखंड), 09 सितंबर 2023 : भाद्र मास में झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में एक माह तक करम पर्व मनाया जाता है। यह पर्व आस्था, प्रकृति व भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस त्यौहार में आस्था के साथ जावा डाली में नौ प्रकार बीज बोना व वृक्ष के डाली का पूजा अर्चना करना प्रकृति प्रेम को दशार्ती है, भाई की लंबी उम्र के लिए बहनों द्वारा तीन या पांच दिन का व्रत रख कर पूजा अर्चना करना भाई बहन की अटूट प्रेम को दशार्ती है। गीत के माध्यम से सामाजिक मान्यताओं को बताया जाता है। प्राचीन काल से चली आ रही करम पर्व के अनेक नियम और मान्यताएं। करम मात्र एक पर्व ही नहीं है जहां आखड़ा में करम गोसाईं का सेंवरन ही नहीं करते हैं बल्कि कुड़मि समुदाय के पुरखों ने उस तंत्र की स्थापना की जिसमें कुंवारी कन्याओं के आगामी जीवन को सहजता से निभाने का प्रशिक्षण स्वाभाविक रूप से होता है। पुरखों के प्रमुख करम चास हेतू बीजों को पहचानना व अंकुरन की प्रक्रिया को प्रयोग कर जानना, देखना, सीखना, समझना व पहचानना। भविष्य में अपनी मातृत्व संबंधी शक्ति, समझ, बारन को समझना, अनुभव करना जिससे वह सहजता से बच्चों को जनम दे सके, पालन पोषण कर सके। इसके लिए प्रत्येक करम व्रती जिसे जावा माता भी कहा जाता है जिसे अनेक नियम पालन करने होते हैं, जैसे हाबु नहीं नहाना अर्थात नदी या तालाब में नहाते समय पीठ की ओर मुड़ना नहीं चाहिए यदि वह ऐसा करती है तो उसका जावा भी पीछे की ओर झूक जाता है। करवट नहीं सोना चाहिए वरना जावा भी करवट ले लेगा। साग नहीं खाना वरना जावा हरा हो जाएगा। दही ,खट्टा नहीं खाना वरना जावा में फफूंद लग जाएगा। हाथ से नमक नहीं छूना

वरना जावा गल जाएगा। हाथ से लकड़ी व दतुअन नहीं तोड़ना है वरना जावा टूट कर गिर जाएगा। बाल नहीं गुँथना वरना जावा गुँथ जाएँगे। अवांछित स्थान पर शौच नहीं जाना वरना जावा खराब जाएगा। आग में जलाई चीजें नहीं खाना वरना जावा जल जाएगा। हल्दी नहीं खाना वरना जावा पीला हो जाएगा। मीठा नहीं खाना वरना जावा में चिंटी लग जायेगी। मान्यता है कि जो कुंवारी कन्या निष्ठा से अपने छः वर्ष के उम्र से विवाह के उम्र तक पूरे विधान से नियमों का पालन करते हुए पांता नाच नाचती हैं सहजता से गर्भधारण कर बच्चे को बिना सीजेरियन के जनम देती है।

इस पर्व में अभी तक 52 पारंपरिक गीत ही पाए जाते हैं और इसमें नौ ताल व नौ सुर में नौ तरह के नाच गीत होते हैं जो उपरोक्त प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इस पर्व को केवल भाई बहन का पर्व कहना इसकी व्यापकता को कम करता है क्योंकि यह कुंवारी कन्याओं का संपूर्ण रूप से सामाजिकरण करने का संस्थागत तंत्र है जहां अपने नैहर, ससुराल के भौगोलिक स्थिति का वर्णन, भाई-बहन, सास-ससुर, ननँद-भौजाई, देवर-सइआँ, भेंसुर आदि के साथ कैसा व्यवहार होता है, कैसी भावना जुड़ी रहती है से संबंधित गीत पाए जाते हैं। इसमें कुंवारी कन्याओं का शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास होता है। साँचि जावा में आठ भाग होते हैं और बीच में एक भाग यानि कुल नौ हिस्से होते हैं जिसे नौ अनुभवी कुंवारी कन्या थापती हैं।प्रत्येक कन्या अपने अपने हिस्से में अलग-अलग प्रकार की बीज बोती है और अपने अपने हिस्से की देखभाल करती है। संजत (जावा स्थापना) से पारना (विसर्जन) तक तीन दिन तालाब या नदी में स्नान करने से पहले पूर्वजों को दतुन पानी देती है और उपवास रात में बनी आठ तरह की सब्जी व भात का भोग लगा कर पुरखों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझती है। संजत के दिन आठ तरह के शस्य का बीज की स्थापना कर प्रकृति की सृजन शक्ति का आकलन भी करती है।

ईचागढ़ प्रखंड सभागार में झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर हुई बैठक

दैनिक समाज जागरण शेखर सुमन ईचागढ़ सराइकेला (झारखण्ड)

ईचागढ़ प्रखंड कार्यालय के सभागार में शनिवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी

किकू महतो कि अध्यक्षता में झारखंड राज्य फसल राहत योजना को लेकर बैठक किया गया । बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों व प्रखंड कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड राज्य फसल राहत योजना का आनलाइन आवेदन शत प्रतिशत किसानों को कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जो फसल राहत योजना का आवेदन किया था, वैसे किसान स्वयं घोषणापत्र दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नये आवेदकों को किसी भी प्रज्ञा केंद्र या अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन फोन पर भी आवेदन आनलाइन कर सकते हैं। उन्होंने बीटीएम ,एटीएम व जनसेवकों को निर्देशित करते हुए कहा कि किसानों को फसल राहत योजना का आवेदन कराने के लिए गांवों में किसानों को जागरूक कर निर्धारित समय से पूर्व आवेदन कराने में सहयोग करें, ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। मौके पर प्रभारी सहकारिता पदाधिकारी सह आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार रजक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी धनराज महतो,एटीएम,बीटीएम आदि उपस्थित थे।

रामचरितमानस में वेदांत विषयक निबंध प्रतियोगिता टी पी कॉलेज में आयोजित

मधेपुरा दैनिक समाज जागरण

ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय, मधेपुरा में वेदांत रिसर्च सेंटर, रांची के सौजन्य शनिवार को रामचरितमानस में वेदांत विषयक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है।इस अवसर पर आशीर्वचन देते हुए सेंटर के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) एच. पी. नारायण ने कहा कि संत तुलसीदासकृत रामचरितमानस भारतीय दर्शन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें वेदांत के गूढ़ रहस्यों को काव्यात्मक रूप में अभिव्यक्ति दी गई है। इसकी चौपाइयां हमारे जीवन का अंग बन गई हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर असीस शक्तियां छीपी हुई हैं। हमें उन शक्तियों को जगाने की जरूरत है। मुख्य अतिथि सह भारतीय महिला दार्शनिक परिषद् की अध्यक्षा प्रो. (डॉ.) राजकुमारी सिन्हा ने कहा कि भारतीय संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में संत परंपरा ने महती भूमिका निभाई है। रामचरितमानस भी इसी संत परंपरा की देन है। इसमें वेदांत के विभिन्न आयामों को सहज-सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में चराचर जगत के कल्याण का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। आज युवा पीढ़ी को इस आदर्श से परिचित कराने की जरूरत है। जब हमारी युवा पीढ़ी हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करेगी, तो भारत फिर से विश्वगुरु बन जाएगा।विशिष्ट अतिथि दर्शन परिषद्, बिहार की अध्यक्षा प्रो. (डॉ.) पूनम सिंह ने कहा कि राम का चरित अपने आपमें आदर्श है। इस आदर्श को तुलसी ने मानस के माध्यम से घर-घर में पहुंचाया। लेकिन दुख कि बात यह है कि युवा पीढ़ी फिल्म कलाकारों एवं क्रिकेटरों की दिवानी है। यह पीढ़ी तुलसी जैसे संत एवं कवि को पहचानती भी नहीं है। उद्घाटनकर्ता सह पूर्व कुलपति प्रो. (डॉ.) ज्ञानंजय द्विवेदी की ने कहा कि वेदांत का मूल संदेश है कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव एवं ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। यह चराचर जगत में एकत्व का आदर्श प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि मानस में वेदांत के सिद्धांतों को सहज-सरल भाषा में समझाया गया है। इसका पाठ घर-घर में कराने की जरूरत है। इससे हमारी युवा पीढ़ी अपनी सभ्यता-संस्कृति की ओर उन्मुख होगी।उन्होंने कहा कि आज हम अपनी सभ्यता-संस्कृति को भूल रहे हैं और हमारे जीवन में नैतिकता का ह्रास हो रहा है। इसके कारण ही देश-दुनिया में गरीबी, विषमता, आतंकवाद, पर्यावरण असंतुलन आदि समस्याएं बढ़ी हैं।कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रो. (डॉ.) कैलाश प्रसाद यादव ने कहा कि मानस में जीवन एवं जगत की सभी समस्याओं का समाधान निहित है। इसकी पंक्तियां हमें निराशा से निकालकर कर्मठता पर अग्रसर करती हैं।कार्यक्रम के आयोजन सचिव सह बीएनएमयू के उपकुलसचिव (स्थापना) डॉ. सुधांशु शेखर ने कहा कि हमारा देश सैद्धांतिक रूप से आदर्श की ऊंचाइयों पर रहा है। लेकिन कालांतर में विभिन्न कारणों से हमारे उच्च आदर्श व्यावहारिक धरातल पर नहीं उतर पाया। इसके कारण समाज एवं राष्ट्र को काफी नुकसान हुआ।उन्होंने कहा कि हमें अपनी सभ्यता-संस्कृति एवं परंपराओं में निहित उदात्त मूल्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो अनुपयोगी बातें हैं, उन्हें त्याग देना चाहिए। जीवन-मूल्यों का निरंतर परिष्कार किया जाना आवश्यक है।अतिथियों का स्वागत मनोविज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. शंकर कुमार मिश्र एवं धन्यवाद ज्ञापन गणित विभागाध्यक्ष ले. गुड्डु कुमार ने किया। तकनीकी जिम्मेदारी दर्शनशास्त्र विभाग के शोधार्थी सौरभ कुमार चौहान ने निभाई। इस अवसर पर सेंटर के कोषाध्यक्ष लाला लक्ष्मीनाथ, शोधार्थी हर्षवर्धन सिंह राठौड़, सौरभ कुमार चौहान, बबली कुमारी, लवली कुमारी, निभा कुमारी, खुशबू कुमारी, अनुपम कुमारी, श्वेता भारती, जूही कुमारी, प्रिया राय, बेबी कुमारी, गुड़िया कुमारी, नेहा कुमारी, सोनी कुमारी, बबिता कुमारी, निशा कुमारी प्रीति प्रिया, शिवानी कुमारी, ज्योति कुमारी, निधि कुमारी, प्रीति प्रिया प्रसन्न कुमारी, आशीष कुमार, रोशन कुमार मनीष कुमार, मोहम्मद तमन्ना, अंकित कुमार, गणेश चंद्र शाह, नीतीश कुमार यादव, शंकर कुमार आदि उपस्थित थे।मालूम हो कि इस निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुनः रांची में अपने निबंध की प्रस्तुति देनी होगी। इसके लिए वेदांत रिसर्च सेंटर द्वारा प्रतिभागियों को मधेपुरा से रांची तक आने-जाने का रेलगाड़ी के स्लीपर क्लास का भाड़ा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतिम रूप से चयनित प्रथम आने वाले प्रतिभागी को पांच हजार, द्वितीय को चार हजार एवं तृतीय को तीन हजार का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा चार से दस स्थानों पर आने वाले कुल सात प्रतिभागियों को एक-एक हजार का सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

खेलो झारखंड के तहत विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन

दैनिक समाज जागरण संवाददाता
खरसावां

कबड्डी प्रतियोगिता के बालक व बालिका वर्ग में युएचएस अरुवां बना विजेता

कुचाई प्रखंड के बिरसा स्टेड़ियम में सर्व शिक्षा अभियान सरायकेला खरसावां के सौजन्य से खेलो झा-रखंड के तहत तीरंदाजी, कबड्डी,बॉलीबॉल,दौड़,रिले रेस,गोला फेंक,ऊंची व लंबी कूद आदि का आयोजन किया गया.रिले रेस में आश्रम विद्यालय कुचाई विजेता व प्रोजेक्ट बालिका विद्यालय कुचाई पविजेता रहे.बॉलीबॉल के बालिका वर्ग में कस्तुरबा गांधी विद्यालय कुचाई व बालक वर्ग में आश्रम विद्यालय कुचाई विजेता बना.कबड्डी के अंडर 14 बालक व बालिका वर्ग में उत्क्रमित उच्च विद्यालय अरुवा विजेता बना. कबड्डी के अंडर 17 बालक वर्ग में आश्रम विद्यालय कुचाई व बालिका वर्ग में कस्तुरबा गांधी विद्यालय कुचाई विजेता बना.तीरंदाजी प्रतियोगिता में आश्रम विद्यालय कुचाई के मुचीराम हेंब्रम व उच्च विद्यालय कुचाई के

ब्रजमोहन मुंडा,बालक वर्ग के 100 मीडटर के दौड़ में युएणएस तोडांगडीह के मोटाय मुंडा व युएमएस बांडी के विनोद कुम्हार, 200 मीटर के दौड़ में आश्रम विद्यालय कुचाई के बालेमा सोय व युएमएस भुरकुंडा के चेलसी मुदैया को प्रथम व द्वितीय पुरस्कार दिया गया.1500 मीटर के दौड़ में उच्च विद्यालय दलभंगा के नरपति मुंडा विजेता बने. बालिका वर्ग के लंबी कूद में दलभंगा उच्च विद्यालय के चंद्रीका हजाम विजेता बनी.गोला फेंक में कुचाई के गोविंद हेंब्रम व सिगीदा के रोविन मुंडा विजेता व उप विजे बने. सभी सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया. पुरस्कार वितरण में मुख्य रुप से बीपीओ नाथो महतो, कृष्ण मोहन महतो आदित्य कुमार, परिपद मुंडा, तिलक प्रसाद महतो, सुधाकर ठाकुर, संजय कुम्हार, प्रदीप महतो, देवेंद्र कुम्हार, दैतारी लेंका,अतुलानंद कुम्हार, मनोज बोईपाई,कुशल सिंह सोय,कृष्ण सिंह मुंडा आदि शिक्षक उपस्थित थे.

पंचायत स्तरीय बैठक में लिया गया कई निर्णय

दैनिक समाज जागरण
शेखर सुमन

ईचागढ़ सराइकेला (झारखण्ड)

ईचागढ़ः प्रखंड क्षेत्र के लेपाटांड भांगा बांध (हाटतोला प्रांगण)में शनिवार को आजसू के ईचागढ़ प्र-खंड अध्यक्ष गोपेश कुमार महतो की अध्यक्षता में एक लेपाटांड पंचायत स्तरीय बैठक हुई।बैठक में संगठन से संबंधित कई निर्णय लिए गए। साथ ही आजसू पार्टी के संगठन को मजबूती के लिए विचार विमर्श भी किया गया। प्रखंड अध्यक्ष गोपेश कुमार महतो ने कहा कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार आजसू पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। संगठन के सभी साथी ओर बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।आने वाले चुनाव से पहले सभी पंचायतों में संगठन को तैयार

किया जा रहा है।वहीं आगामी कार्यक्रम की सफलता को लेकर रणनीति तैयार किया गया। मौके पर पूर्व प्रखंड अध्यक्ष तपन उरांव,रामसाय उरांव,अशोक लायक,तपन उरांव, बलाई गोप, दुर्गा गोप, उपेन चन्द्र गोप, लखिचरण सिंह मुंडा,निदेश उरांव आदि मौजूद थे।

आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत पंचायतों में हुआ चिंतन शिविर

दैनिक समाज जागरण
शेखर सुमन

ईचागढ़/कुकडू [सराइकेला (झा-रखण्ड)]

कुकडू - सरायकेला-खरसावां जिला के कुकडु प्रखंड क्षेत्र के पंचायतों में शनिवार को आकांक्षा प्रखंड कार्यक्रम के तहत चिंतन शिविर सह ग्राम सभा का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर में पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी पदाधिकारी , प्रखंड, पंचायत के कर्मचारी , बुद्धिजीवी, किसान, शिक्षक आदि उपस्थित रहे। आयोजित चिंतन शिविर में पंचायत की मुलभूत समस्या,भावी योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा,सड़क, स्वच्छता,बाल विकास, बिद्यूत , स-रकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी लिया गया व योजनाओं के संबंध में जानकारी दिया गया। आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय नहीं रहने, विद्यालयों में बच्चों की कम उपस्थिति, कुपोषितों के लिए नीमडीह स्वास्थ्य केंद्र में सीट नहीं मिलने कि समस्या आदि पर चिंतन किया गया। वहीं तिरूलडीह पंचायत सचिवालय में उप विकास आयुक्त प्रविन कुमार

गागराई ने पंचायत के मुखिया निधी के 15 वीं वित्त आयोग से सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय का निर्माण व मरम्मती कराने का निर्देश भी पंचायत सचिवों को दिया गया। चौड़ा पंचायत मे परियोजना पदाधिकारी संदिप कुमार दरायबुरू ,कुकडु पंचायत में अपर उपायुक्त सुबोध कुमार ,ईचाडीह पंचायत में डीटीओ शंकराचार्य सामड सहित सभी 9 पंचायतों में जिला के पदाधिकारी चिंतन शिविर में भाग लिया। वहीं उप विकास आयुक्त प्रविन कुमार गागराई ने कहा कि जिला में तीन प्रखंडों को आकांक्षी प्रखंड का दर्जा दिया गया है, जिसमें कुकडु भी सामिल है। उन्होंने कहा कि आज चिंतन शिविर में क्षेत्र की समस्याओं, सुझावों को सुना गया और जो भी समस्याएं पाया गया उसे निति आयोग को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाएगा । मौके पर डीपीएम आसीयाना मार्की, मुखिया सुधीर सिंह मुण्डा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

डुमरी उप चुनाव में जीत पर खरसावां में जश्न, निकाली गयी विजय जुलूस

दैनिक समाज जागरण संवाददाता
खरसावां

खरसावां में झामुमो कार्यकताओं ने डुमरी विस उप चुनाव में झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के जीत पर विजय जुलूस निकाला.पार्टी नेताओं ने गाजे बाजे के साथ विजय जुलूस निकालते हुए खरसावां के केरसे मुंडा चौक से बेहरासाही,बाजारसाही,तलसाही, कुम्हारसाही होते हुए खरसावां के सभी मुहल्लों का भ्रमण किया.इस दौरान पार्टी नेताओं ने जम कर रंग-गुलाल उड़ाये तथा कार्यकताओं में लड्डू बांटे.खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने डुमरी विस उप चुनाव में आईएनडीआईए गठबंधन की ओर से झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी की जीत पर बधाई दी है.उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने आईएनडीआईए गठबंधन पर विश्वास जताया है.डुमरी की यह प्रचंड जीत 2024 का आगाज है.राज्य सरकार की ओर से किये जा रहे कार्यों पर डुमरी विस क्षेत्र की जनता ने मुहर लगाने का कार्य किया

है.झारखण्ड की सरकार स्व टाइगर जगरनाथ दा के सपनों और अधूरे कार्यों को पूरा करने का काम करेगी.विधायक ने कहा कि जनता ने दिवंगत टाइगर जगरनाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों से किये किये एक एक वायदे को पूरा कर रही है. विपक्षी दलों के सभी हथकंडों को जनता ने नकारने का काम किया है. इस दौरान मुख्य रुप से विधायक दशरथ गागराई, विधायक की धर्मपत्नी बासंती गागराई,प्रदेश सचिव प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा,युवा कार्यकारी अध्यक्ष प्रकाश महतो,विधायक प्रतिनिधि अर्जुन गोप,अनूप सिंहदेव,केंद्रीय सदस्य सुधीर महतो,धनु मुखी,भरत सिंह मुंडा,राम सोय,धर्मेंद्र मुंडा,ललन तिवारी,सुकरा नायक,रानी हेंब्रम, अजय सामड,संजय प्रधान,दीपक नायक,प्रताप मिश्रा,मो सलाम,खिरोद प्रमाणिक,मंजु कुम्हार समेत काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे.

विश्व आज भारत को एक समान साझीदार के रूप में देखता है : डॉ. जितेंद्र सिंह

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोकशिकायत, पेंशन, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विश्व आज भारत को हर प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में एक समान साझीदार के रूप में देखता है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी आज विश्व के सबसे वरिष्ठ राष्ट्राध्यक्ष हैं और सभी राष्ट्राध्यक्ष उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।

एक प्रमुख राष्ट्रीय पत्रिका को दिए गए एक विशिष्ट साक्षात्कार में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा, ह्यह्यअब हमारा अधिकांश देश के साथ सहयोग है। रूस और अमेरिका के साथ सहयोग का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि अब हम कमतर नहीं रह गए हैं। अब हम समान साझीदार हैं और कई मायनों में हम समान से भी अधिक हैं। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष सेक्टर में अब हम अमेरिका और रूस को अपनी सेवाएं उधार दे रहे हैं - हम पहले ही 170 मिलियन डॉलर से अधिक तथा 250 मिलियन यूरो से ज्यादा की आय अर्जित कर चुके हैं। अब हम 8 बिलियन डॉलर (66,000 करोड़ रुपये) का अंतरिक्ष व्यवसाय करते हैं, लेकिन जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, भारत 2040 तक 40 बिलियन डॉलर (3.3 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच

सकता है, जबकि हाल की एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, एडीएल रिपोर्ट में कहा गया है कि हम 100 बिलियन डॉलर तक भी जा सकते हैं।''

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि विश्वभर में अब से समस्त विकास मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी आधारित होने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की हाल की अमेरिका यात्रा के दौरान अधिकतर द्विपक्षीय समझौते विज्ञान और नवोन्मेषण पर आधारित थे।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन ह्यगगनयान' इसरो के समक्ष अगली बड़ी परियोजना है।

उन्होंने कहा, ह्यह्यइसरो के अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन को साकार करने के लिए देश भर में अलग -अलग प्रयोगशालाओं में जोर-शोर से काम चल रहा है: उन्होने बताया कि स्वदेशी तौर पर बनाए गए 'मानव-रेटेड' रॉकेट लॉन्चर और क्रू मॉड्यूल का निर्माण करके तीन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाया जा सके।

भारतीय वायु सेना के तीन पायलट ध्वनि की गति से 10 गुना अधिक तेजी से अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने और फिर शून्य गुरुत्वाकर्षण स्थितियों में रहने के लिए कठोर प्रशिक्षण से गुजर रहे हैं।

लोक अदालत से समय व धन दोनों की होती है बचत: ज़िला जज

दैनिक समाज जागरण अविनाश कुमार
जिला संवाददाता औरंगाबाद बिहार

बैंक कर्मियों द्वारा ग्राहकों से दुर्व्यवहार पर भड़के जिला जज , दी सख़्त चेतावनी

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निदेर्शानुसार व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्घाटन मुख्य अतिथि जिला जज संपूणानंद तिवारी, पुलिस अधीक्षक हृदय कांत, अपर सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर सहित अन्य के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। लोक अदालत में कुल 10 बेंच अलग-अलग विभागों के मामले निपटारे को लेकर लगाया गया था, हेल्प डेस्क भी लगाया गया था। ताकि जिन लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो वह हेल्प डेस्क सहायता ले सके। लोक अदालत के दौरान आपसी समझौते के आधार पर कई मामलों का निपटारा किया गया। इस मौके पर जिला संपूणानंद तिवारी ने कहा कि लोक अदालत का राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक तीन माह पर आयोजन किया जाता हैं जिसमें हमारी प्रयास रहता है कि विभिन्न तरह के लघु वादों का निपटारा किया जा सके। ताकि आम जनों की खर्चों की बचत के साथ-साथ समय की बचत हो। इसके अलावा उनके परिवार की उन्नति होती हैं। इस आयोजित लोक अदालत में सभी का सहयोग अपेक्षित हैं। श्री तिवारी ने कहा लोक अदालत से आज हजारों की संख्या में सुलहनीय वादों का निष्पादन किया जाएगा।

इसके लिए 10 बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत न केवल गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए लाभकारी है बल्कि इससे न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ भी कम होगा। अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने कहा कि आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन होता है। यह वैसे लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, जिनका मामला लंबे समय से लंबित है। लोक अदालत में निष्पादित मामलों की अपील किसी अन्य न्यायालय में नही होती है। लोगों को लोक अदालत को त्योहार के रूप में लेना चाहिए। इस लोक अदालत में सबसे ज्यादा विभिन्न बैंकों के सर्टिफिकेट केस से जुड़े मामले आए। वहीं बीएसएनएल, बिजली विभाग से जुड़े वादों का भी निष्पादन किया गया। लोक अदालत में इसके अलावा बीमा, वन अधिनियम, राजस्व वाद, दीवानी वाद, शमनीय फौजदारी मुकदमा, श्रम वाद, विद्युत वाद, वैवाहिक वाद, श्रम व बाल मजदूरी सहित निगोसिएबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से जुड़े वाद भी आए जिसका आपसी समझौता के आधार पर मामला निष्पादित किया गया। इस दौरान वाद निष्पादन को लेकर आए आम जनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया था जिसमें जिला जज, पुलिस अधीक्षक सहित अन्य न्यायिक पदाधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं कई अन्य लोगों ने कैंप का लाभ लिया।

लोक अदालत के दौरान बैंक के कर्मियों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर जिला जज संपूणानंद तिवारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सचिव ने बैंक कर्मियों को फटकार लगाई हैं। साथ ही वाद निपटारे को लेकर पहुंचे वादकारियों के हित में सुविधा के अनुकूल कार्य करने का निर्देश दिया है। दर-असल जिला जज एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रत्येक बेंचों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। जहां दक्षिण मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मियों द्वारा अपने ग्राहकों के प्रति उदासीन रवैया देख मैके पर पहुंचे न्यायाधीश ने बैंक कर्मियों को जमकर फटकार लगाई और चेतावनी दी है, साथ ही बैंक ऋण से जुड़े वादों के पक्षकारों से व्यावहारिक बातचीत कर अधिक से अधिक संबंधित मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है, ताकि लोक अदालत के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। इस दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रणव शंकर ने कहा कि इस दुर्व्यवहार के लिए आपके बैंक को लोक अदालत से ब्लेक लिस्टेड किया जा सकता हैं। वहीं पक्षकार हताश व निराश न हो, इस बात का खास ख्याल रखें। आप अपने बैंक के वरीय अधिकारियों से सहमति लेकर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करें। इस मौके पर एडीजे सुनील कुमार सिंह मौजूद थे।

इस अवसर पर विधि संघ के अध्यक्ष रसिक बिहारी सिंह, पैनल अधिवक्ता अभिनंदन कुमार, सतीश कुमार स्नेही सहित कई अन्य मौजूद थे।